

Essential

HINDI

Speak Hindi With Confidence



- Over 1,500 practical sentences for everyday use
- A glossary of over 2,000 terms and expressions
- The latest Hindi vocabulary and phrases for smartphones, social media and more

Richard Delacy

TUTTLE

Dear Reader: In order to view all colored text and non-English text accurately, please ensure that the PUBLISHER DEFAULTS SETTING on your reading device is switched to **ON**. This will allow you to view all non-English characters and colored text in this book. —Tuttle Publishing



HINDI

Speak Hindi With Confidence

Richard Delacy

TUTTLE Publishing
Tokyo | Rutland, Vermont | Singapore

The Tuttle Story: “Books to Span the East and West”

Many people are surprised to learn that the world’s largest publisher of books on Asia had its humble beginnings in the tiny American state of Vermont. The company’s founder, Charles E. Tuttle, belonged to a New England family steeped in publishing.

Immediately after WW II, Tuttle served in Tokyo under General Douglas MacArthur and was tasked with reviving the Japanese publishing industry. He later founded the Charles E. Tuttle Publishing Company, which thrives today as one of the world’s leading independent publishers.

Though a westerner, Tuttle was hugely instrumental in bringing a knowledge of Japan and Asia to a world hungry for information about the East. By the time of his death in 1993, Tuttle had published over 6,000 books on Asian culture, history and art—a legacy honored by the Japanese emperor with the “Order of the Sacred Treasure,” the highest tribute Japan can bestow upon a non-Japanese.

With a backlist of 1,500 titles, Tuttle Publishing is more active today than at any time in its past—inspired by Charles Tuttle’s core mission to publish fine books to span the East and West and provide a greater understanding of each.

The author would like to thank Mrs Sudha Joshi for proofreading the entire text. All inaccuracies remain the author’s.

Published by Tuttle Publishing, an imprint of Periplus Editions (HK) Ltd.

www.tuttlepublishing.com

Copyright © 2014 Periplus Editions (HK) Ltd.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Library of Congress Control Number: 2014938779

ISBN 978-0-8048-4432-1

ISBN 978-1-4629-1614-6 (ebook)

Distributed by
North America, Latin America & Europe

Tuttle Publishing
364 Innovation Drive
North Clarendon, VT 05759-9436 U.S.A.

Tel: 1 (802) 773-8930

Fax: 1 (802) 773-6993

info@tuttlepublishing.com

www.tuttlepublishing.com

Japan

Tuttle Publishing
Yaekari Building, 3rd Floor, 5-4-12 Osaki
Shinagawa-ku, Tokyo 141 0032

Tel: (81) 3 5437-0171

Fax: (81) 3 5437-0755

sales@tuttle.co.jp

www.tuttle.co.jp

Asia Pacific

Berkeley Books Pte. Ltd.
61 Tai Seng Avenue #02-12,
Singapore 534167

Tel: (65) 6280-1330

Fax: (65) 6280-6290

inquiries@periplus.com.sg

www.periplus.com

First edition

16 15 14 5 4 3 2 1 1406HP

Printed in Singapore

TUTTLE PUBLISHING® is a registered trademark of Tuttle Publishing, a division of Periplus Editions (HK) Ltd.

Contents

Introduction

Pronunciation guide

Basic grammar

1. The Basics

- 1.1 Personal details
- 1.2 Today or tomorrow?
- 1.3 What time is it?
- 1.4 One, two, three...
- 1.5 The weather
- 1.6 Here, there...
- 1.7 What does that sign say?
- 1.8 Legal holidays

2. Meet and Greet

- 2.1 Greetings
- 2.2 Asking a question
- 2.3 Answering a question
- 2.4 Thank you
- 2.5 I'm sorry
- 2.6 What do you think?

3. Small Talk

- 3.1 Introductions
- 3.2 I beg your pardon?
- 3.3 Starting a conversation
- 3.4 A chat about the weather
- 3.5 Hobbies
- 3.6 Invitations
- 3.7 Paying compliments
- 3.8 Intimate comments/questions
- 3.9 Congratulations and condolences
- 3.10 Arrangements
- 3.11 Being the host(ess)
- 3.12 Saying goodbye

4. Eating Out

- 4.1 At the restaurant
- 4.2 Ordering
- 4.3 The bill
- 4.4 Complaints
- 4.5 Paying a compliment
- 4.6 The menu
- 4.7 Alphabetical list of dishes and drinks
- 4.8 Well-known dishes

5. Getting Around

- 5.1 Asking directions
- 5.2 Traffic signs
- 5.3 Cars, bicycles/mopeds
- 5.4 The gas station
- 5.5 Breakdowns and repairs
- 5.6 Renting a vehicle
- 5.7 Hitchhiking

6. Arrival and Departure

- 6.1 General
- 6.2 Customs
- 6.3 Luggage
- 6.4 Questions to passengers
- 6.5 Tickets
- 6.6 Information
- 6.7 Airports
- 6.8 Trains
- 6.9 Taxis

7. A Place to Stay

- 7.1 General
- 7.2 Hotels/guest houses
- 7.3 Complaints
- 7.4 Departure

8. Money Matters

- 8.1 Banks
- 8.2 Settling the bill
- 8.3 Business terms

9. Mail, Phone and Internet

- 9.1 Mail

9.2 Telephone

9.3 Internet/email

10. Shopping

10.1 Shopping conversations

10.2 Food

10.3 Clothing and shoes

10.4 Cameras

10.5 At the hairdresser

11. Tourist Activities

11.1 Places of interest

11.2 Going out

11.3 Booking tickets

12. Sports Activities

12.1 Sporting questions

12.2 By the waterfront

13. Health Matters

13.1 Calling a doctor

13.2 What's wrong?

13.3 The consultation

13.4 Medications and prescriptions

14. Emergencies

14.1 Asking for help

14.2 Lost items

14.3 Accidents

14.4 Theft

14.5 Missing person

14.6 The police

15. Religion


15.1 Religion in India

16. English-Hindi Word List

Introduction

● Welcome to the Tuttle Essential Language series, covering all of the most popular world languages. These books are basic guides in communicating in the language. They're concise, accessible and easy to understand, and you'll find them indispensable on your trip abroad to get you where you want to go, pay the right prices and do everything you've been planning to do.

This guide is divided into 16 themed sections and starts with a pronunciation table which explains the phonetic pronunciation to all the words and sentences you'll need to know, and a basic grammar guide which will help you construct basic sentences in your chosen language. At the end of the book is an extensive English–Hindi word list.

Throughout the book you'll come across boxes with a  beside them. These are designed to help you if you can't understand what your listener is saying to you. Hand the book over to them and encourage them to point to the appropriate answer to the question you are asking.

Other boxes in the book—this time without the symbol—give listings of themed words with their English translations.

For extra clarity, we have put all phonetic pronunciations of the foreign language terms in bold italic.

This book covers all subjects you are likely to come across during the course of a visit, from reserving a room for the night to ordering food and drink at a restaurant and what to do if your car breaks down or you lose your money. With over 2,000 commonly used words and essential sentences at your fingertips you can rest assured that you will be able to get by in all situations, so let **Essential Hindi** become your passport to learning to speak with confidence!

Pronunciation guide

The Hindi syllabary is made up of forty-six characters in their basic form. There are eleven vowels and thirty-six consonants. Ten of the eleven vowels also have an abbreviated form, when they are pronounced together with a consonant. Unless a consonant is written with one of the abbreviated forms of these ten vowels, it is either pronounced with an inherent a अ vowel, or, depending on its place in the word, with no vowel sound.

Guide to Pronunciation

Roman	Devanagari	Phonetic Description	Approximate Pronunciation
a	अ	mid-central unrounded vowel	a as in <u>sun</u>
ā	आ ऌ *	low-central unrounded vowel	ā as in <u>father</u>
i	इ ऩ *	high front unrounded vowel	i as in <u>sin</u>
ī	ई ऱ *	long high front vowel	ī as in <u>feed</u>
u	उ ं *	short high back rounded vowel	u as in <u>book</u>
ū	ऊ ः *	long high back rounded vowel	ū as in <u>food</u>
r	ऋ ृ *	voiced alveolar trill + high front unrounded vowel	ri as in <u>ring</u>
e	ए ै *	high mid-front rounded vowel	e as in <u>bet</u>
ai	ऐ ॠ *	long low front vowel and diphthong	ai as in <u>height</u>
o	ओ ॡ *	long rounded back mid vowel	o as in <u>so</u>
au	औ ॢ *	low-mid to mid-back rounded vowel	au as in <u>how</u>

* When written with a consonant, these symbols indicate that these vowel sounds are pronounced with the consonant in place of the inherent 'a' vowel. See the Rules for pronunciation below.

Roman	Devanagari	Phonetic Description	Approximate Pronunciation
<i>ka</i>	क	voiceless unaspirated velar plosive	<i>ka</i> as in speaker
<i>kha</i>	ख	voiceless aspirated velar plosive	<i>kha</i> as in block <u>h</u> ead
<i>ga</i>	ग	voiced unaspirated velar plosive	<i>ga</i> as in <u>g</u> un
<i>gha</i>	घ	voiced aspirated velar plosive	<i>gha</i> as in log <u>h</u> ouse
<i>ṅ</i>	ङ	velar nasal plosive	<i>ṅa</i> as in ki <u>ng</u>
<i>ca</i>	च	voiceless unaspirated palatoalveolar affricative	<i>ca</i> as in <u>ch</u> utney
<i>cha</i>	छ	voiceless aspirated palatoalveolar affricative	<i>cha</i> as in church <u>ch</u> -hill
<i>ja</i>	ज	voiced unaspirated palatoalveolar affricative	<i>ja</i> as in ju <u>dg</u> e
<i>jha</i>	झ	voiced aspirated palatoalveolar affricative	<i>jha</i> as in hedge <u>gh</u> og
<i>ña</i>	ञ	palatal nasal plosive	<i>ña</i> as in cr <u>unch</u>
<i>ṭa</i>	ट	voiceless unaspirated retroflex plosive	tongue touches the top of the mouth
<i>ṭha</i>	ठ	voiceless unaspirated retroflex plosive	tongue touches the top of the mouth, breath of air accompanies the sound
<i>ḍa</i>	ड	voiced unaspirated retroflex plosive	tongue touches the top of the mouth
<i>ṛa</i>	ड़	voiced unaspirated retroflex flap	tongue touches the top of the mouth and, without resting there, flaps down
<i>ḍha</i>	ढ	voiced aspirated retroflex plosive	tongue touches the top of the mouth; a breath of air accompanies the sound
<i>ṛha</i>	ढ़	voiced aspirated retroflex flap	tongue touches the top of the mouth and, without resting there, flaps down; a breath of air accompanies the sound

Roman	Devanagari	Phonetic Description	Approximate Pronunciation
<i>ṅa</i>	ण/ण	retroflex nasal plosive	tongue touches the top of the mouth
<i>ta</i>	त	voiceless unaspirated dental plosive	tongue touches the back of the top teeth
<i>tha</i>	थ	voiceless aspirated dental plosive	tongue touches the back of the top teeth; a breath of air accompanies the sound
<i>da</i>	द	voiced unaspirated dental plosive	tongue touches the back of the top teeth
<i>dha</i>	ध	voiced aspirated dental plosive	tongue touches the back of the top teeth; a breath of air accompanies the sound
<i>na</i>	न	voiced unaspirated dental nasal plosive	tongue touches the back of the top teeth
<i>pa</i>	प	voiceless unaspirated bilabial plosive	<i>pa</i> as in <u>spun</u>
<i>pha</i>	फ	voiced unaspirated bilabial plosive	<i>pha</i> as in <u>putt</u>
<i>ba</i>	ब	voiced unaspirated bilabial plosive	<i>ba</i> as in <u>but</u>
<i>bha</i>	भ	aspirated bilabial plosive	<i>bha</i> as in <u>clubhouse</u>
<i>ma</i>	म	bilabial nasal	<i>ma</i> as in <u>money</u>
<i>ya</i>	य	voiced palatal semi-vowel	<i>ya</i> as in <u>young</u>
<i>ra</i>	र	voiced alveolar trill	<i>ra</i> as in <u>run</u>
<i>la</i>	ल	voiced alveolar lateral	<i>la</i> as in <u>lung</u>
<i>va/wa</i>	व	voiced labio-dental semi-vowel or fricative	sometimes closer to a 'v' and sometimes to a 'w'
<i>śa</i>	श	voiceless prepalatal fricative	<i>śa</i> as in <u>shun</u>
<i>ṣa</i>	ष	voiceless retroflex sibilant fricative	<i>ṣa</i> as in <u>flush</u>
<i>sa</i>	स	voiceless alveolar sibilant fricative	<i>sa</i> as in <u>sun</u>
<i>ha</i>	ह	voiced or unvoiced fricative	<i>ha</i> as in <u>hunt</u>

There are some sounds in Hindi that were originally not represented in the script. They occur in words that came into Hindi from Arabic, Persian and English, among other languages. They are represented by dots under particular characters.

Roman	Devanagari	Phonetic Description	Approximate Pronunciation
<i>qa</i>	क़	voiceless, unaspirated velar plosive	produced further back in the throat than ' <i>ka</i> '
<i>kha</i>	ख़	velar fricative	there is a partial closure of the air passage
<i>gha</i>	ग़	post-velar fricative	produced like ' <i>ga</i> ' but further back in the throat
<i>za</i>	ज़	voiced alveolar fricative	<i>za</i> as in <i>zebra</i>
<i>fa</i>	फ़	labio-dental fricative	<i>fa</i> as in <i>fun</i>

Rules for pronunciation 1) Each consonant is pronounced with an inherent 'a' अ vowel, except in the following circumstances: a) an abbreviated vowel symbol is written with it For example: क = *ka* but का = *kā*; कि = *ki*; की = *kī*; कु = *ku*; कू = *kū*; कृ = *kr*; के = *ke*; कै = *kai*; को = *ko*; कौ = *kao* b) at the end of a word For example: काम = *kām* c) it is not being omitted twice in a row For example: कमला = *kamlā*; नमक = *namak* d) its form is modified and it is connected to the following consonant For example: क् + य *ya* = क्य *kya* Most of these modified forms will be easily recognizable. Some, however, are a bit more idiosyncratic.

2) Occasionally when an *a* अ vowel is followed by an *ha* ह with which no full vowel is pronounced, this *a* अ is pronounced as a short *e* ए.

For example: महल = *mehal* (palace) (in this word the *a* vowel is very short)

Conjunct Consonants Most modified forms of consonants joined together to indicate the omission of an intervening 'a' vowel will be readily identifiable (such as क् + य *ya* = क्य *kya* above). However, the constituent consonants in some clusters are not so recognizable. For a list of these, refer to a standard text like *Elementary Hindi*, pp. 42–46.

Basic grammar

The most important features of Hindi grammar are the conjugations of verbs, and the use of postpositions (the same as prepositions in English, except that they follow the word to which they relate).

One of the most important rules of Hindi grammar is that *any word that is followed by a postposition cannot influence the conjugation of the verb*. Sometimes postpositions in Hindi are implied (that is, not visible). Depending on the word that is being governed by a postposition, its form may have to change when it is followed by a postposition.

For example: that

vo

वह

those

vo

वे

good

acchā

अच्छा

boy (m)

laṛkā

लड़का

that good boy

vo acchā laṛkā

वह अच्छा लड़का *to* that good boy

us acche laṛke KO

उस अच्छे लड़के को those good boys

vo acche laṛke

वे अच्छे लड़के *to those good boys*

un acche laṛkō KO

उन अच्छे लड़कों को In the second and fourth examples above the postposition 'to' **ko** को appears. Look closely at the changes that have taken place to the words for 'that/those', 'good' and 'boy.' These changes tell us whether these words are singular or plural and followed by a postposition or not.

Word Order Hindi is a subject-object-verb language (SOV).

For example:

I read a book. ***maĩ kitāb paṛhtā hū.*** मैं किताब
पढ़ता हूँ।

S V O S O V

Nouns All nouns in Hindi are either masculine or feminine. The form of many changes when they are pluralized and when followed by a postposition (*on, at, in, with, etc*). How they change depends on the ending of the word and its gender.

Nouns are declined according to the following rules.

Masculine Nouns 1. Masculine nouns that end in **ā** आ decline in the following manner.

Singular, - postposition	Singular, + postposition	Plural, - postposition	Plural, + postposition
<i>kamrā</i> कमरा room	<i>kamre mē</i> कमरे में in a/the room	<i>kamre</i> कमरे rooms	<i>kamrō mē</i> कमरों में in (the) rooms

2. All other masculine nouns decline in the following manner.

Singular, - postposition	Singular, + postposition	Plural, - postposition	Plural, + postposition
<i>ghar</i> घर home	<i>ghar mē</i> घर में in a/the home	<i>ghar</i> घर homes	<i>gharō mē</i> घरों में in (the) homes

Masculine nouns that end in the long vowels *ī* ई and *ū* ऊ shorten these vowels in the plural form with a postposition, and in the case of *ī* ई, add the semi-vowel *y* य् before the ending *ō* ओं.

Singular, - postposition	Singular, + postposition	Plural, - postposition	Plural, + postposition
<i>ādmī</i> आदमी a/the man	<i>ādmī mē</i> आदमी में in a/the man	<i>ādmī</i> आदमी men	<i>ādmīyō mē</i> आदमियों में in (the) men
<i>ālū</i> आलू potato	<i>ālū mē</i> आलू में in a/the potato	<i>ālū</i> आलू potatoes	<i>ālūō mē</i> आलूओं में in (the) potatoes

3. There are some *ā* आ ending masculine nouns that follow the pattern of (2). These are mainly nouns that signify a relationship and have a reduplicative form as well as some words from Sanskrit. For example: maternal uncle

māmā

मामा

paternal uncle

cācā

चाचा

maternal grandfather

nānā

नाना

paternal grandfather

dādā

दादा

king

rājā

राजा

father

pitā

पिता

Singular, - postposition	Singular, + postposition	Plural, - postposition	Plural, + postposition
<i>rājā</i> राजा a/the king	<i>rājā mē</i> राजा में in a/the king	<i>rājā</i> राजा kings	<i>rājāō mē</i> राजाओं में in (the) kings
<i>māmā</i> मामा maternal uncle	<i>māmā mē</i> मामा में in an/the uncle	<i>māmā</i> मामा uncles	<i>māmāō mē</i> मामाओं में in (the) uncles

Feminine Nouns 1. Feminine nouns that end in *i* इ, *ī* ई or *iyā* इया *i* इ — add *yā* याँ in plural with no postposition, *yō* यों in plural with a postposition.

ī ई — shorten to *i* इ and add *yā* याँ in plural with no postposition, *yō* यों in plural with a postposition.

iyā इया — add ~ in plural with no postposition, changing *yā* या to *yō* यों in plural with a postposition.

Singular, - postposition	Singular, + postposition	Plural, - postposition	Plural, + postposition
<i>rātri</i> रात्रि night	<i>rātri mē</i> रात्रि में in a/the night	<i>rātriyā</i> रात्रियाँ nights	<i>rātriyō mē</i> रात्रियों में in (the) nights
<i>sārī</i> साड़ी sari	<i>sārī mē</i> साड़ी में in a/the sari	<i>sāriyā</i> साड़ियाँ saris	<i>sāriyō mē</i> साड़ियों में in (the) saris
<i>ciṛiyā</i> चिड़िया bird	<i>ciṛiyā mē</i> चिड़िया में in a/the bird	<i>ciṛiyā</i> चिड़ियाँ birds	<i>ciṛiyō mē</i> चिड़ियों में in (the) birds

2. Feminine nouns ending in any other character are declined simply by adding *ē* ऐँ in the plural form without a postposition, and *ō* ओँ in the plural with a postposition.

Singular, - postposition	Singular, + postposition	Plural, - postposition	Plural, + postposition
<i>cīz</i> चीज़ thing	<i>cīz mē</i> चीज़ में in a/the thing	<i>cīzē</i> चीज़ें things	<i>cīzō mē</i> चीज़ों में in (the) things
<i>bhāṣā</i> भाषा language	<i>bhāṣā mē</i> भाषा में in a/the language	<i>bhāṣāē</i> भाषाएँ languages	<i>bhāṣāō mē</i> भाषाओं में in (the) languages
<i>zorū</i> जोरू wife	<i>zorū mē</i> जोरू में in a/the wife	<i>zorūē</i> जोरूँ* wives	<i>zorūō mē</i> जोरूओं* में in (the) wives

* Feminine words ending in a **ū** ऊ vowel shorten this vowel before the addition of **ē** ऐ and **ō** औ in the plural with and without a postposition.

Adjectives Adjectives in Hindi must also be declined according to their endings.

1. **ā** आ ending adjectives must change for the number, gender and case (occurrence of a postposition) of the noun that follows.

good (adj) *acchā* अच्छा

good boy <i>acchā laṛkā</i> अच्छा लड़का	good girl <i>acchī laṛkī</i> अच्छी लड़की
good boys <i>acche laṛke</i> अच्छे लड़के	good girls <i>acchī laṛkiyā</i> अच्छी लड़कियाँ
to the good boy <i>acche laṛke ko</i> अच्छे लड़के को	to the good girl <i>acchī laṛkī ko</i> अच्छी लड़की को
to the good boys <i>acche laṛkō ko</i> अच्छे लड़कों को	to the good girls <i>acchī laṛkiyō ko</i> अच्छी लड़कियों को

2. Adjectives that end in any other character do not change.

red (adj)

lāl

लाल

red book (f)

lāl kitāb

लाल किताब

red books (f, pl)

lāl kitābē

लाल किताबें

in the red book (f)

lāl kitāb mē

लाल किताब में

in the red books (f, pl)

lāl kitābō mē

लाल किताबों में

There are some *ā* आ ending adjectives that do not change, and a few where it is up to the speaker's discretion. Here is a list of a few of the more common ones.

one-and-a-quarter

savā

सवा

excellent

barhiyā

बढ़िया inferior

ghaṭiyā

घटिया

unfortunate, unhappy, sad

dukhiyā

दुखिया

born

paidā

पैदा

a little

zarā

ज़रा alive

zindā

ज़िंदा fresh

tāzā

ताज़ा

(This may change according to the speaker's discretion.) **Pronouns** The forms of pronouns also change when they are followed by postpositions. Here is a list of all of possible forms of the pronouns with different postpositions. Postpositions can be made up of a single word (in *mē* में) or two or more words (for the sake of *ke liye* के लिये). In some cases, there are variant forms of some of the pronouns with particular postpositions.

Pronoun, - Post- position	Pronoun, + Postposition				
	+ <i>kā</i> + का 's	+ <i>ke liye</i> + के लिये for, in order to	+ <i>mē</i> + में in	+ <i>ko</i> + को (object marker)	+ <i>ne</i> + ने (ergative part)
I <i>mē</i> मैं	<i>merā</i> मेरा	<i>mere liye</i> मेरे लिये	<i>mujh mē</i> मुझमें	<i>mujh ko/ mujhe</i> मुझको/मुझे	<i>maī ne</i> मैंने
we <i>ham</i> हम	<i>hamārā</i> हमारा	<i>hamāre liye</i> हमारे लिये	<i>ham mē</i> हममें	<i>ham ko/ hamē</i> हमको/हमें	<i>ham ne</i> हमने
you <i>tū</i> तू	<i>terā</i> तेरा	<i>tere liye</i> तेरे लिये	<i>tujh mē</i> तुझमें	<i>tujh ko/ tujhe</i> तुझको/तुझे	<i>tū ne</i> तूने
you <i>tum</i> तुम	<i>tumhārā</i> तुम्हारा	<i>tumhāre liye</i> तुम्हारे लिये	<i>tum mē</i> तुममें	<i>tum ko/ tumhē</i> तुमको/तुम्हें	<i>tum ne</i> तुमने
you <i>āp</i> आप	<i>āp kā</i> आपका	<i>āpke liye</i> आपके लिये	<i>āp mē</i> आपमें	<i>āp ko</i> आपको	<i>āp ne</i> आपने

Pronoun, – Post- position	Pronoun, + Postposition				
he/she/it/ this <i>yeh</i> यह	<i>is kā</i> इसका	<i>is ke liye</i> इसके लिये	<i>is mẽ</i> इसमें	<i>is ko/ise</i> इसको/इसे	<i>is ne</i> इसने
he/she/it/ that <i>voh</i> वह	<i>us kā</i> उसका	<i>us ke liye</i> उसके लिये	<i>us mẽ</i> उसमें	<i>us ko/use</i> उसको/उसे	<i>us ne</i> उसने
he/she/ they/ these <i>ye</i> ये	<i>in kā</i> इनका	<i>in ke liye</i> इनके लिये	<i>in mẽ</i> इनमें	<i>in ko/inhẽ</i> इनको/इन्हें	<i>inhõ ne</i> इन्होंने
he/she/ they/those <i>vo</i> वे	<i>un kā</i> उनका	<i>un ke liye</i> उनके लिये	<i>un mẽ</i> उनमें	<i>un ko/unhẽ</i> उनको/उन्हें	<i>unhõ ne</i> उन्होंने
who <i>kaun</i> कौन	<i>kis kā</i> किसका	<i>kis ke liye</i> किसके लिये	<i>kis mẽ</i> किसमें	<i>kis ko/kise</i> किसको/ किसे	<i>kis ne</i> किसने
who (pl) <i>kaun</i> कौन	<i>kin kā</i> किनका	<i>kin ke liye</i> किनके लिये	<i>kin mẽ</i> किनमें	<i>kin ko/ kinhẽ</i> किनको/ किन्हें	<i>kinhõ ne</i> किन्होंने
what <i>kyā</i> क्या	<i>kis kā</i> किसका	<i>kis ke liye</i> किसके लिये	<i>kis mẽ</i> किसमें	<i>kis ko/kise</i> किसको/ किसे	<i>kis ne</i> किसने
someone/ anyone some/any <i>koĩ</i> कोई	<i>kisĩ kā</i> किसी का	<i>kisĩ ke liye</i> किसी के लिये	<i>kisĩ mẽ</i> किसी में	<i>kisĩ ko</i> किसी को	<i>kisĩ ne</i> किसी ने
some (pl) <i>koĩ</i> कोई	<i>kinhĩ kā</i> किन्हीं का	<i>kinhĩ ke liye</i> किन्हीं के लिये	<i>kinhĩ mẽ</i> किन्हीं में	<i>kinhĩ ko</i> किन्हीं को	<i>kinhĩ ne</i> किन्हीं ने
who/that/ which <i>jo</i> जो	<i>jis kā</i> जिसका	<i>jis ke liye</i> जिसके लिये	<i>jis mẽ</i> जिसमें	<i>jis ko/jise</i> जिसको/ जिसे	<i>jis ne</i> जिसने
who/that/ which (pl) <i>jo</i> जो	<i>jin kā</i> जिनका	<i>jin ke liye</i> जिनके लिये	<i>jin mẽ</i> जिनमें	<i>jin ko/jinhẽ</i> जिनको/ जिन्हें	<i>jinhõ ne</i> जिन्होंने

Many of these postpositions are written together with pronouns in the Devanagari script. They have been written separately in the Roman script to show clearly the form that the pronoun takes.

Plural forms of pronouns are used for single people to be polite.

There are three second person pronouns. They function in the following manner: you **tū** (sing) तू (intimate): used with animals, small children, god, intimate relations you **tum** (pl) तुम (familiar): used with friends, family, people of same social standing you **āp** आप (pl) (polite): used for

respect with elders and people of higher social standing There are only a few single word postpositions. They are: 's **kā** का to (object marker) **ko** को until, by **tak** तक on, at, in **par** पर in **mē** में

from, by, since, with **se** से ergative particle **ne** ने The majority of postpositions contain more than one word. Most are made up of two words, the first of which is either **ke** के or **kī** की.

with **ke sāth** के साथ for (the sake of) **ke liye** के लिये about, concerning **ke बारे में** के बारे में; because of **kī vajah se** की वजह से **Verbs** Verbs are conjugated in the various tenses for the number, gender, and person of the subject. The verbal system is based on two participles: the imperfect participle (action 'imperfect', or incomplete) the perfect participle (action 'perfect', or complete) These participles are effectively **ā** आ ending adjectives. (See above how adjectives function.) They are formed in the following manner: • Imperfect participle: stem of a verb + **tā/te/tī** + ता/ते/ती For example: to speak **bolnā** (infinitive)

बोलना

bol (stem) + **tā/te/tī**

बोल + ता/ते/ती

speak **boltā/bolte/boltī**

बोलता/बोलते/बोलती

- Perfect participle: stem of a verb + **ā/e/ī/ī** + आ/ए/ई/ई

For example: to speak **bolnā** (infinitive)

बोलना

bol (stem) + **ā/e/ī/ī**

बोल + आ/ए/ई/ई

spoke **bolā/bole/bolī/bolī**
 बोला/बोले/बोली/बोलीं

These participles are then combined with the forms of the verb *to be* in the simple present and past.

Simple Present of the Verb to be

	Singular	Plural
1st person	I am maī hū मैं हूँ	we are ham hai हम हैं
2nd person	you are tū hai तू है	you are tum ho तुम हो
		you are āp hai आप हैं
3rd person	he/she/it/this is yeh hai यह है	these/they are ye hai ये हैं
	he/she/it/that is voh hai वह है	those/they are vo hai वे हैं

	Singular (m/f)	Plural (m/f)
1st person	I am maī thā/thī मैं था/थी	we were ham the/thī हम थे/थीं
2nd person	you were tū thā/thī तू था/थी	you were tum the/thī तुम थे/थीं
		you were āp the/thī आप थे/थीं
3rd person	he/she/it/this was yeh thā/thī यह था/थी	these/they were (he/she was) ye the/thī ये थे/थीं
	he/she/it/that was voh thā/thī वह था/थी	those/they were (he/she was) vo the/thī वे थे/थीं

Simple Past of the Verb to be

The two participles with these forms of the verb *to be* combine to form five of the six tenses.

I (m) speak **maī boltā hū** मैं बोलता हूँ (imperfect present) I (m) used to speak **maī boltā thā** मैं बोलता था (habitual past) I (m) spoke **maī bolā** मैं बोला (past) I (m) have spoken **maī bolā hū** मैं बोला हूँ (present perfect) I (m) had spoken **maī bolā thā** मैं बोला था (past perfect) I (f) speak **maī boltī hū** मैं बोलती हूँ (imperfect present) I (f) used to speak **maī boltī thī** मैं बोलती थी (habitual past) I (f) spoke **maī bolī** मैं बोली (past) I (f)

have spoken **maĩ bolī hū** मैं बोली हूँ (present perfect) I (f) had spoken **maĩ bolī thī** मैं बोली थी (past perfect) **Optative and Future Tense** The optative form of the verb expresses wishes, desires, possibilities, etc., and the future tense expresses actions that take place in the future.

Singular	Plural
I may/should speak maĩ bolū मैं बोलूँ	we may/should speak ham bolē हम बोलें
you may/should speak tū bole तू बोले	you may/should speak tum bolo तूम बोलो
	you may/should speak āp bolē आप बोलें
he/she/it/this may/should speak yeh bole यह बोले	they/these/he/she may/should speak ye bolē ये बोलें
he/she/it/that may/should speak voh bole वह बोले	they/those/he/she may/should speak vo bolē वे बोलें

The future tense is formed by adding the ending **gā/ge/gī** गा/गे/गी to these forms.

For example: I (m) will speak **maĩ bolūgā** मैं बोलूँगा You (m, pl) will speak **āp bolēge** आप बोलेंगे He (m) will speak **yeh bolegā** यह बोलेगा

I (f) will speak **maĩ bolūgī** मैं बोलूँगी You (f, pl) will speak **āp bolēgī** आप बोलेंगी She (f) will speak **yeh bolegī** यह बोलेगी **The Progressive Aspect** Actions can also be expressed as taking place at a particular moment, either in the present (or near future), or in the past.

This is formed in the following manner.

stem + **rahā/rahe/rahī** + tense marker बोल (speaking) + रहा/रहे/रही + verb *to be* (present or past) he is speaking **voh bol rahā hai** वह बोल रहा है she is speaking **voh bol rahī hai** वह बोल रही है he was speaking **voh bol rahā thā** वह बोल रहा था she was speaking **voh bol rahī thī** वह

बोल रही थी they (m) are speaking **vo bol rahe hai** वे बोल रहे हैं

they (f) were speaking **vo bol rahi thi** वे बोल रही थीं

Imperatives Commands are given to the second person (you). There are five forms of the imperative. These correspond to the three forms of the second person pronoun, and indicate the degree of respect (intimate, informal, polite, neutral/future, polite future).

You speak! **tū bol!** तू बोल! (stem of the verb 'to speak' **bolnā** बोलना, **bol** बोल) (intimate, impolite form) You speak. **tum bolo.** तुम बोलो। (stem + **o** ओ) (familiar form) You please speak. **āp boliye.** आप बोलिये। (stem + **iyē** इये) (polite form) You speak. (further in the future than now) **tū/tum bolnā.** तू/तुम बोलना। (infinitive of the verb) (neutral) You please speak. (further in the future than now) **āp boliyegā.** आप बोलियेगा। (stem + **iyegā** इयेगा) (polite) Sometimes the word **zarā** ज़रा 'a little' is used to soften an imperative.

Imperatives are negated using either **mat** मत (more informal) or **na** न (more formal) The following verbs have irregular forms when used with the familiar second person pronoun **tum** तुम: to give **denā** देना - **do** दो to take **lenā** लेना - **lo** लो The following verbs have irregular forms when used with the polite second person pronoun **āp** आप: to give **denā** देना - **dijiye** दीजिये to take **lenā** लेना - **lijiye** लीजिये to do **karnā** करना - **kijiye** कीजिये to drink **pīnā** पीना - **pijiye** पीजिये **Asking Questions** Most question words appear directly before the verb. Question words begin with the character **k** क्

who **kaun** कौन when **kab** कब where **kahā** कहाँ

how *kaisā/kaise* कैसा/कैसे why *kyō* क्यों

what *kyā* क्या For example: Who was he? *voh kaun thā?* वह कौन था?

The word *kyā* क्या also appears at the beginning of a sentence, where it simply marks a question.

He is a good boy. *voh acchā laṛkā hai.* वह अच्छा लड़का है । Is he a good boy? *kyā voh acchā laṛkā hai?* क्या वह अच्छा लड़का है?

The Use of ne ने The postposition *ne* ने marks the subject of a transitive verb in the perfective form. If an object is expressed and unmarked by a postposition, the verb is conjugated for gender and number of it. If no object is expressed, the verb occurs in the masculine, singular form.

He (m) reads a book (f).

voh kitāb paṛhtā hai.

वह किताब पढ़ता है । He (m) read a book (f).

usne kitāb paṛhī.

उसने किताब पढ़ी । She (f) saw a boy (m).

usne laṛke ko dekhā.

उसने लड़के को देखा । **An Important Note** In this book, often you will see two forms of the same word separated by a “ and then ‘(mf)’. This indicates that the first form is the masculine form (either singular or plural), and the second is the feminine form.

For example: How are you? (m/f)

āp kaise/kaisī hāi?

आप कैसे/कैसी हैं?

1 The Basics

1.1 Personal details 1.2 Today or tomorrow?

1.3 What time is it?

1.4 One, two, three...

1.5 The weather 1.6 Here, there...

1.7 What does that sign say?

1.8 Legal holidays

1. The Basics

1.1 Personal details family name (m) *parivār kā nām* परिवार का नाम name (m) *nām* नाम address (m) *patā*

पता sex (male/female) (m) *liṅg (puruṣ/strī)* लिंग (पुरुष/स्त्री)

nationality (f) *nāgriktā*

नागरिकता date of birth (f) *janmtithi* जन्मतिथि place of birth (m) *janmsthān* जन्मस्थान occupation (m) *peśā*

पेशा married/unmarried *vivāhit/avivāhit* विवाहित/अविवाहित children (m, pl) *bāl bacce* बाल बच्चे place (m) and date (f) of issue *jārī karne kā sthān aur tāriḥ* जारी करने का स्थान और तारीख

passport/license number (m) *pāraptra/lāisens kā nambar* पारपत्र/लाइसेंस का नम्बर signature (m, pl) *hastākṣar* हस्ताक्षर

1.2 Today or tomorrow?

What (which) day is it today?

āj kaun-sā din hai?

आज कौन-सा दिन है?

Today is Monday. (the day of the moon) **āj somvār (m) hai.**

आज सोमवार है। Tuesday (the day of Mars) **maṅgal(vār) (m)** मंगल(वार)

Wednesday (the day of Mercury) **budh(vār) (m)** बुध(वार)

Thursday (the day of Jupiter) **guru(vār) (m)** गुरु(वार)

bṛhaspativār (m) बृहस्पतिवार Friday (the day of Venus) **śukra(vār) (m)**
शुक्र(वार)

Saturday (the day of Saturn) **śani(vār) (m)** शनिवार **śaniścar (m)** शनिश्चर

Sunday (the day of the Sun) **ravi(vār) (m)** रविवार **itvār (m)** इतवार Where the

word वार **vār** (day) appears in parantheses, it may be omitted in spoken language. There are alternative words for Thursday, Saturday and Sunday.

When time words are used adverbially (*on Monday, in the morning, at four o'clock*) in Hindi, they are considered to be in the oblique case. This means that they are often, but not always, followed by a *postposition* (the same as a preposition in English, except that it follows the word), and often, but not always, their form changes. For more on the oblique case, see page 11. In the roman script, the postposition is place in capital letters to draw attention to its use.

We (m) will come on Monday.

ham somvār KO āēge.

हम सोमवार को आँगे। in the morning **savere (m)/subah (f)** सवेरे/सुबह

saverā (m) सवेरा (morning) during the day **din (m) MĒ**

दिन में

in the afternoon/at midday **dopahar (f) KO**

दोपहर को in the evening **śām (f) KO**

शाम को at night **rāt (f) KO**

रात को during the night **rāt (f) MĒ**

रात में

today **āj** आज tomorrow/yesterday **kal (ko)** कल (को)

the day after tomorrow/before yesterday **parsō** परसों

this morning **āj savere/subah** आज सवेरे/सुबह this evening **āj sām KO**

आज शाम को tonight **āj rāt KO**

आज रात को on Tuesday morning **maṅgal ko savere/subah** मंगल को सवेरे/सुबह on Tuesday evening **maṅgal kī sām KO**

मंगल की शाम को on that day **us din** उस दिन (on) those days **un dinō** उन दिनों

these days **ājkal** आजकल in January **janvarī MĒ**

जनवरी में

since (from) January **janvarī SE**

जनवरी से **Months of the Year** The Hindi versions of the Gregorian calendar months are the most commonly employed names for the months of the year.

Gregorian Month	Hindi Name	Sanskrit Name
January (f)	janvarī जनवरी	māgh माघ
February (f)	farvarī फरवरी	phālgun फाल्गुन

March (m)	<i>mārc</i> मार्च	<i>cait</i> चैत	<i>caitra</i> चैत्र
April (m)	<i>aprail</i> अप्रैल	<i>baisākh</i> बैसाख	<i>vaiśākh</i> वैशाख
May (f)	<i>maī</i> मई	<i>jeth</i> जेठ	<i>jyeṣṭh</i> ज्येष्ठ
June (m)	<i>jūn</i> जून	<i>asāṛh</i> असाढ़	<i>āṣāḍh</i> आषाढ
July (f)	<i>julāī</i> जुलाई	<i>sāvan</i> सावन	<i>śrāvaṇ</i> श्रावण
August (m)	<i>agast</i> अगस्त	<i>bhādō</i> भादों	<i>bhādrapad</i> भाद्रपद
September (m)	<i>sitambar</i> सितम्बर	<i>kvār</i> क्वार	<i>āśvin</i> आश्विन
October (m)	<i>aktūbar</i> अक्टूबर	<i>kārttik</i> कार्तिक	<i>kārtik</i> कार्तिक
November (m)	<i>navambar</i> नवम्बर	<i>aghan</i> अगहन	<i>agrahāyaṇ</i> अग्रहायण
December (m)	<i>disambar</i>	<i>pūs</i>	<i>pauṣ</i>

दिसंबर

पूस

पौष

in summer ([in] the days of heat) **garmī ke dinō (MĒ)***
गर्मी के दिनों (में)

in winter ([in] the days of cold) **ṭhaṇḍ ke dinō (MĒ)***
ठंड के दिनों (में)

in the rainy season ([in] the days of the rainy season) **barsāt ke dinō (MĒ)***
बरसात के दिनों (में)

*The postposition here (**mē** “in”) may be omitted.

in 2014 (in the year two thousand and fourteen) **san do hazār caudah MĒ**
सन् दो हज़ार चौदह में

in 2015
san do hazār pandrah MĒ
सन् दो हज़ार पंद्रह में

in the twenty-first century (f) **ikkīsvī śatabdī MĒ**
इक्कीसवीं शताब्दी में

on the first (date) (f) **pehli tārikh KO**
पहली तारीख को on the fifteen (date) **pandrah tārikh KO**
पंद्रह तारीख को What is the date today?
āj kī tārikh kyā hai?
आज की तारीख क्या है?

next/previous week **agle/pichle hafte** अगले/पिछले हफ़ते

next/previous month **agle/pichle mahine** अगले/पिछले महीने next/previous
year **agle/pichle sāl** अगले/पिछले साल this/that week **is/us hafte**

इस/उस हफ़्ते

this/that month *is/us mahine* इस/उस महीने this/that year *is/us sāl* इस/उस साल after three months *tīn hafte bād* तीन हफ़्ते बाद

after two years *do sāl bād* दो साल बाद three months ago *tīn mahine pehle* तीन महीने पहले at two o'clock *do baje* दो बजे

1.3 What time is it?

What is the time?

kyā baj gayā?/ṭāim kyā hai?

क्या बज गया?/टाइम क्या है?

It's nine o'clock. (nine have struck) *nau baje haī.*

नौ बजे हैं। It's one thirty. (1½ has struck) *deṛh bajā hai.*

डेढ़ बजा है। It's two thirty. (2½ has struck) *dhāi baje haī.*

ढाई बजे हैं। It's three thirty. (3½ has struck) *sāṛhe tīn baje haī.*

साढ़े तीन बजे हैं। It's four thirty. (4½ has struck) *sāṛhe cār baje haī.*

साढ़े चार बजे हैं। NB: With the exception of 1:30 and 2:30, the word साढ़े *sāṛhe* (+ half) is employed with the number to express half-hour times.

It's one fifteen. (1¼ has struck) *savā bajā hai.*

सवा बजा है। It's two fifteen. (2¼ has struck) *savā do baje haī.*

सवा दो बजे हैं। It's three fifteen. (3¼ has struck) *savā tīn baje haī.*

सवा तीन बजे हैं। With the exception of 1:15, the word सवा *savā* (+ one-quarter) is employed with the number to express a time fifteen minutes past the hour.

It's twelve forty-five. (-¼ has struck) *paun bajā hai.*

पौन बजा है । It's one forty-five. (2¼ has struck) **paune do baje haĩ.**

पौने दो बजे हैं । It's two forty-five. (3¼ has struck) **paune tĩn baje haĩ.**

पौने तीन बजे हैं । With the exception of 12:45, the word पौने **paune** (– one-quarter) is employed with the number to express a time fifteen minutes before the hour.

It's two ten. (having struck 2 there are 10 minutes) **do baj kar das minaṭ hue haĩ.**

दो बज कर दस मिनट हुए हैं । It's two twenty. (having struck 2 there are 20 minutes) **do baj kar bīs minaṭ hue haĩ.**

दो बज कर बीस मिनट हुए हैं । It's ten to two. (in striking 2 there are 10 minutes) **do bajne mẽ das minaṭ haĩ.**

दो बजने में दस मिनट हैं । It's twenty to two. (in striking 2 there are 20 minutes) **do bajne mẽ bīs minaṭ haĩ.**

दो बजने में बीस मिनट हैं । half an hour (m) **ādhā ghaṇṭā**

आधा घंटा in half an hour (after half an hour) **ādhe ghaṇṭe bād** आधे घंटे

बाद in two hours (after 2 hours) **do ghaṇṭe bād** दो घंटे बाद two hours ago

(2 hours previously) **do ghaṇṭe pehle** दो घंटे पहले



maĩ kitne baje āũ?

मैं कितने बजे आऊँ?

At what time may I come?

ḡhāĩ baje āiye.

ढाई बजे आइये ।

Please come at 2:30.

do baj kar bīs minaṭ par āiye.

दो बज कर बीस मिनट पर आइये ।

Please come at 2:20.

tĩn bajne mẽ bīs minaṭ par āiye.

तीन बजने में बीस मिनट पर आइये ।

Please come at 20 of 3.

early **jaldĩ**

जल्दी late **der se** देर से on time **ṭhĩk samay par** ठीक समय पर

1.4 One, two, three...

one	<i>ek</i>	एक
two	<i>do</i>	दो
three	<i>tīn</i>	तीन
four	<i>cār</i>	चार
five	<i>pāc</i>	पाँच
six	<i>chai</i>	छै/छह/छः
seven	<i>sāt</i>	सात
eight	<i>āṭh</i>	आठ
nine	<i>nau</i>	नौ
ten	<i>das</i>	दस
eleven	<i>gyārah</i>	ग्यारह
twelve	<i>bārah</i>	बारह
thirteen	<i>terah</i>	तेरह
fourteen	<i>caudah</i>	चौदह
fifteen	<i>pandrah</i>	

sixteen	<i>solah</i>	पंद्रह सोलह
seventeen	<i>satrah</i>	सत्रह
eighteen	<i>aṭhārah</i>	अठारह
nineteen	<i>unnīs</i>	उन्नीस
twenty	<i>bīs</i>	बीस
twenty-one	<i>ikkīs</i>	इक्कीस
twenty-two	<i>bāīs</i>	बाईस
twenty-three	<i>teīs</i>	तेईस
twenty-four	<i>caubīs</i>	चौबीस
twenty-five	<i>paccīs</i>	पच्चीस
twenty-six	<i>chabbīs</i>	छब्बीस
twenty-seven	<i>sattāīs</i>	सत्ताईस
twenty-eight	<i>aṭṭhāīs</i>	अट्ठाईस
twenty-nine	<i>untīs</i>	उनतीस
thirty	<i>tīs</i>	तीस

thirty-one	ikattīs	इकतीस
thirty-two	battīs	बतीस
thirty-three	taītīs	तैंतीस
thirty-four	caũtīs	चौंतीस
thirty-five	paītīs	पैंतीस
thirty-six	chattīs	छतीस
thirty-seven	saītīs	सैंतीस
thirty-eight	aṛtīs	अड़तीस
thirty-nine	untālīs	उनतालीस
forty	cālīs	चालीस
forty-one	iktālīs	इकतालीस
forty-two	bayālīs	बयालीस
forty-three	taītālīs	तैंतालीस
forty-four	cavālīs	चवालीस
forty-five	paītālīs	पैंतालीस
forty-six	chiyālīs	छियालीस

forty-seven	<i>saītālīs</i>	सैंतालीस
forty-eight	<i>aṛtālīs</i>	अड़तालीस
forty-nine	<i>uncās</i>	उनचास
fifty	<i>pacās</i>	पचास
fifty-one	<i>ikyāvan</i>	इक्यावन
fifty-two	<i>bāvan</i>	बावन
fifty-three	<i>tirpan</i>	तिरपन
fifty-four	<i>cauvan</i>	चौवन
fifty-five	<i>pacpan</i>	पचपन
fifty-six	<i>chappan</i>	छप्पन
fifty-seven	<i>sattāvan</i>	सत्तावन
fifty-eight	<i>aṭṭhāvan</i>	अट्ठावन
fifty-nine	<i>unsath</i>	उनसठ
sixty	<i>sāth</i>	साठ
sixty-one	<i>iksath</i>	इकसठ
sixty-two	<i>bāsath</i>	बासठ

sixty-three	tirsath	तिरसठ
sixty-four	caũsath	चौंसठ
sixty-five	paĩsath	पैंसठ
sixty-six	chiyāsath	छियासठ
sixty-seven	sar̥sath	सड़सठ
sixty-eight	ar̥sath	अड़सठ
sixty-nine	unhattar	उनहत्तर
seventy	sattar	सत्तर
seventy-one	ikhattar	इकहत्तर
seventy-two	bahattar	बहत्तर
seventy-three	tihattar	तिहत्तर
seventy-four	cauhattar	चौहत्तर
seventy-five	pachattar	पचहत्तर
seventy-six	chihattar	छिहत्तर
seventy-seven	sathattar	सतहत्तर
seventy-eight	aṭhhattar	अठहत्तर

seventy-nine	<i>unāsī</i>	उनासी
eighty	<i>assī</i>	अस्सी
eighty-one	<i>ikyāsī</i>	इक्यासी
eighty-two	<i>bayāsī</i>	बयासी
eighty-three	<i>tirāsī</i>	तिरासी
eighty-four	<i>caurāsī</i>	चौरासी
eighty-five	<i>pacāsī</i>	पचासी
eighty-six	<i>chiyāsī</i>	छियासी
eighty-seven	<i>sattāsī</i>	सत्तासी
eighty-eight	<i>aṭhāsī/aṭṭhāsī</i>	अठासी/अट्टासी
eighty-nine	<i>navāsī</i>	नवासी
ninety	<i>nabbe</i>	नब्बे
ninety-one	<i>ikyānve</i>	इक्यानवे
ninety-two	<i>bānve/bayānve</i>	बानवे/बयानवे
ninety-three	<i>tirānve</i>	तिरानवे
ninety-four	<i>caurānve</i>	चौरानवे

ninety-five	<i>pacānve</i>	पचानवे
ninety-six	<i>chiyānve</i>	छियानवे
ninety-seven	<i>sattānve</i>	सत्तानवे
ninety-eight	<i>aṭṭhānve</i>	अट्टानवे
ninety-nine	<i>ninyānve</i>	निन्यानवे
one hundred	<i>sau</i>	सौ
101	<i>ek sau ek</i>	एक सौ एक
200	<i>do sau</i>	दो सौ
1000	<i>hazār/sahasra</i>	हज़ार/सहस्र
1001	<i>ek hazār ek</i>	एक हज़ार एक
2000	<i>do hazār</i>	दो हज़ार
100,000 (written 1,00,000 in India)	<i>lākh</i>	लाख
101,000 (written 1,01,000)	<i>ek lākh ek hazār</i>	एक लाख, एक हज़ार
10,000,000	<i>karor</i>	

(written
1,00,00,000)

करोड़

10,100,000
(written
1,01,00,000)

ek karor ek lakh

एक करोड़, एक
लाख

1,000,000,000

arab

अरब

Ordinal Numbers

first

pehlā/pratham

पहला/प्रथम*

second

dūsārā/dvitiya

दूसरा/द्वितीय*

third

tīsārā/trṭiyā

तीसरा/तृतीय*

fourth

cauthā/caturth

चौथा/चतुर्थ*

fifth

pācvā

पाँचवाँ

sixth

chaṭhā

छठा

seventh

sātvā

सातवाँ

eighth

āṭhvā

आठवाँ

ninth

navā

नवाँ

tenth

dasvā

दसवाँ

From ten onwards, the adjectival suffix -वाँ -vā is added to the cardinal number.

* The words with astericks next to them are words from Sanskrit that are employed in formal Hindi.

The following are symbols that represent the digits from 0 to 9. They are actually the basis of the “Arabic” numerals used in English. Both sets of numerals are commonly encountered in Hindi.

०	१	२	३	४	५	६	७	८	९
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

There are 100 paise in a rupee.

ek rupaye mẽ sau paise hote haĩ.

एक रुपये में सौ पैसे होते हैं। I have one 101 rupees. (near me there are 101 rupees) **mere pās ek sau ek rupaye haĩ.**

मेरे पास एक सौ एक रुपये हैं।

1.5 The weather How will today’s weather be?

āj kā mausam kaisā hogā?

आज का मौसम कैसा होगा?

How will tomorrow’s weather be?

kal kā mausam kaisā hogā?

कल का मौसम कैसा होगा?

Will today’s weather be bad?

kyā āj kā mausam kharāb rahegā?

क्या आज मौसम खराब रहेगा?

Today’s weather is (very) bad.

kyā āj kā mausam (bahut) kharāb hai.

आज का मौसम (बहुत) ख़राब है । Today's weather is (very) good.

kyā āj kā mausam (bahut) acchā hai.

आज का मौसम (बहुत) अच्छा है । Will it rain today?

kyā āj bāris hogī?

क्या आज बारिश होगी?

It is raining (a lot) today.

āj (bahut) bāris ho rahī hai.

आज (बहुत) बारिश हो रही है । Will it be (very) hot today?

kyā āj (bahut) garmī hogī?

क्या आज बहुत गर्मी होगी?

It is (very) hot today.

āj (bahut) garmī ho rahī hai.

आज बहुत गर्मी हो रही है । Will it be (very) cold today?

kyā āj (bahut) ṭhaṇḍ hogī?

क्या आज बहुत ठंड होगी?

It is (very) cold today **āj (bahut) ṭhaṇḍ ho rahī hai.**

आज बहुत ठंड हो रही है । What will be the temperature today?

āj tāpmān kyā hogā?

आज तापमान क्या होगा?

Will there be fog today?

kyā āj kuhrā hogā?

क्या आज कुहरा होगा?

Will there be humidity today?

āj kyā umas hogī?

आज क्या उमस होगी?

humidity (f) umas उमस	breeze (m) bayār बयार	light rain (f) būdābādī बूदाबादी
snow/ice (f) barf बर्फ	wind (f) havā हवा	a clear sky (m) sāf āsmān साफ़ आसमान
rain (f) bāris बारिश	high wind (f) tez havā तेज़ हवा	a gray sky (m) gandlā āsmān गंदला आसमान
harsh sunlight (f) tez dhūp तेज़ धूप	a hot wind (f) lū लू	clouds (m) bādal बादल
warm (sweet) sunlight (f) mīṭhī dhūp मीठी धूप	an icy wind (f) barfīlī havā बर्फ़ीली हवा	very hot (much heat) (f) bahut garmī बहुत गर्मी
dew (f) os/śabnam ओस/शबनम	heavy rain (f) mūslādhār bāris मूसलाधार बारिश	very cold (much cold) (f) bahut ṭhaṇḍ बहुत ठंड
hail stones (m, pl) ole ओले	a storm (f) ādhī आँधी	fog (m) kuhrā कुहरा
temperature (m) tāpmān तापमान	minimum temperature (m) nyūntam tāpmān न्यूनतम तापमान	maximum temperature (m) adhiktam tāpmān अधिकतम तापमान

1.6 Here, there...

here, over here/there, over there **yahā/vahā**

यहाँ/वहाँ

hither/thither **idhar/udhar** इधर/उधर where **kahā**

कहाँ

somewhere/nowhere **kahī/kahī nahī**

कहीं/कहीं नहीं

anywhere at all **kahī bhī**

कहीं भी (very) far (**bahut**) **dūr** (बहुत) दूर (very) close (**bahut**) **nazdik/pās** (बहुत) नज़दीक/पास on the right side **dāhinī taraf/or** दाहिनी तरफ़/ओर on the left side **bāyī taraf/or** बायीं तरफ़/ओर straight ahead **sidhe** सीधे in all four directions **cārō taraf/or** चारों तरफ़/ओर ahead/ahead of x **āge/x ke āge** आगे/x के आगे behind/behind x **pīche/x ke pīche** पीछे/x के पीछे above/above x **ūpar/x ke ūpar** ऊपर/x के ऊपर below/below x **nīce/x ke nīce** नीचे/x के नीचे outside/outside x **bāhar/x ke bāhar** बाहर/x के बाहर inside/inside x **andar/x ke andar** अंदर/x के अंदर in **mē**

में

on **par/pe** पर/पे from, by, with **se** से next to/near x **pās/x ke pās** पास/x के पास previously **pehle** पहले before/before x **pehle/x se pehle** पहले/x से पहले first of all **sab se pehle** सब से पहले afterwards/after x **bād mē/x ke bād** बाद में/x के बाद in the middle/in the middle of x **bīc mē/x ke bīc mē**

बीच में/x के बीच में

via x x **se ho kar** x से होकर north (m)/in the north **uttar/uttar mē**

उत्तर/उत्तर में

south (m)/in the south **dakṣiṇ/dakṣiṇ mē**

दक्षिण/दक्षिण में

east (m)/in the east **pūrv/pūrv mē**

पूर्व/पूर्व में

west (m) /in the west **paścim/paścim mē**

पश्चिम/पश्चिम में

1.7 What does that sign say?

drinking water (m) <i>pīne kā pānī</i> पीने का पानी	Danger (m) <i>khatrā</i> खतरा
No Smoking <i>dhūmrāpān karnā niṣedh hai</i> धूम्रपान करना निषेध है।	Keep left <i>bāyī taraf calē</i> बायीं तरफ़ चलें
No Entry <i>andar jānā manā hai</i> अंदर जाना मना है।	Remain vigilant <i>sāvadhān rahē</i> सावधान रहें
Stop <i>ṭhehriye</i> ठहरिये	Airport (m) <i>havāī aḍḍā</i> हवाई अड्डा
Men at Work <i>ādmī kām par hāī</i> आदमी काम पर हैं।	Fixed price (m) <i>ek dām</i> एक दाम
Public toilet (m) <i>sārvajanik śaucālay</i> सार्वजनिक शौचालय	Please take off your shoes <i>jūte utārē</i> जूते उतारें
Drive slowly (move slowly) <i>dhīre caliye</i> धीरे चलिये	Please switch off your mobile. <i>mobāil band rakhē</i> मोबाइल बंद रखें
Use the horn <i>hārṇ dījiye</i> हॉर्न दोजिये	It is forbidden to urinate here. <i>yahā peśāb karnā manā hai.</i> यहाँ पेशाब करना मना है।
Remain quiet <i>śānt rehē</i> शांत रहें	Men <i>puruṣ</i> पुरुष
Speed limit (f) <i>gati sīmā</i> गति सीमा	Women <i>mahilāē</i> महिलाएँ
Speed hump (m) (speed breaker) <i>gati avarodhak</i> गति अवरोधक	No parking <i>yahā gārī kharī karnā manā hai.</i> यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है।
Police (f) <i>pulis</i> पुलिस	

1.8 Legal holidays Many of the observed holidays in India surround religious festivals for the various religions in India, including those for Hinduism, Islam, and Christianity. The three most important national secular holidays are Independence Day (15 August), Republic Day (26 January), and Gandhi Jayanti (Mahatma Gandhi's birthday, 2 October). Other religious holidays are celebrated more regionally.

Divali **divālī**

दिवाली The Hindu festival of light. This is observed in October/November, and celebrates the change of season and the victory of light over darkness.

Holi **holī**

होली The Hindu festival of colors. This festival is observed in March/April and celebrates the changing of the seasons and victory over the demoness Holika.

Raksha Bandhan **rakṣā bandhan** रक्षा बंधन On this occasion sisters tie a string around the wrist of their brothers as a sign that they will protect them. It is celebrated in July/August.

Dussehra **daśehrā**

दशहरा This is a significant Hindu festival celebrated in October that marks the victory of Lord Rama over Ravana in Lanka from the epic poem the *Ramayana*, as well as in honor of the Goddess Durga.

Eid **īd** ईद Eid or Eid-ul-fitr is the principal Muslim festival in South Asia, and is celebrated to mark the end of the month of Ramadan when Muslims fast during the day for thirty days.

Muharram **muharram** मुहर्रम This festival is one of the most important Muslim festivals in South Asia, and is observed by Shia Muslims to remember the martyrdom of the grandson of the prophet Muhammad, Imam Hussain.

Christmas **barā din/khriṣṭ jayantī**

बड़ा दिन/ख्रीष्ट जयंती The most important celebration for Christians marking the birth of Jesus Christ.

New Year **nayā sāl/nav varṣ**

नया साल/नव वर्ष

This is celebrated in India with increasing fervor. There are new year celebrations according to other calendars in India, but the celebration at the end of December is gradually becoming more significant.

Independence Day ***svatantratā divas*** स्वतंत्रता दिवस This holiday marks the day India became independent from Britain on 15 August, 1947.

Republic Day ***gaṇtantra divas*** गणतंत्र दिवस This holiday marks the day that India became a republic and the new constitution came into effect in India on 26 January, 1950.

Gandhi Jayanti ***gāndhī jayantī***

गांधी जयंती This national holiday marks the birthday of one of India's most famous nationalist leaders, Mohandas Karamchand Gandhi, who was born on 2 October, 1869.

2 Meet and Greet

2.1 Greetings 2.2 Asking a question 2.3 Answering a question 2.4 Thank you 2.5 I'm sorry 2.6 What do you think?

2. Meet and Greet

2.1 Greetings good morning *suprahāt* सुप्रभात good night *śubh rātri* शुभ रात्रि

hello/goodbye *namaste* नमस्ते hello/goodbye *namaskār* नमस्कार How are you (m/f)?

āp kaise/kaisī hāī?

आप कैसे/कैसी हैं?

I am fine.

maī thīk hū.

मैं ठीक हूँ। Fine, how are you? (enough, you relate) *bas, āp sunāiye.*

बस, आप सुनाइये। See you again. ([we] will meet again) *[ham] phir milēge.*

[हम] फिर मिलेंगे। Okay, I'm off. (m/f) (Good, I move) *acchā, maī caltā/caltī hū.*

अच्छा, मैं चलता/चलती हूँ। May I go? (please give permission) *ijāzat dījiye.*

इजाज़त दीजिये। See you later. (will meet after) *bād mē milēge.*

बाद में मिलेंगे। Go well.

acche se jāiye.

अच्छे से जाइये। Have a safe trip. (arrive safely) *sahī-salāmat pahūciye.*

सही-सलामत पहुँचिये। It has been a pleasure meeting you. (having met you much happiness happened) *āpse mil kar bahut khusī hū.*

आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Likewise. (to me as well) *mujhe bhī.*

मुझे भी। Have a good trip. (auspicious journey) *śubh yātrā.*

शुभ यात्रा ।

2.2 Asking a question yes *jī hā̃*

जी हाँ

no *jī nahī̃*

जी नहीं

What is this?

yeh kyā hai?

यह क्या है?

What is that?

voh kyā hai?

वह क्या है?

What are these?

ye kyā haĩ?

ये क्या हैं?

What are those?

vo kyā haĩ?

वे क्या हैं?

Is this ...?

kyā yeh ... hai?

क्या यह ... है?

Is that ...?

kyā voh ... hai?

क्या वह ... है?

Are these ...?

kyā ye ... haĩ?

क्या ये ... हैं?

Are those ...?

kyā vo ... haī?

क्या वे ... हैं?

Who is this? (polite) **ye kaun haī?**

ये कौन हैं?

Who is that? (polite) **vo kaun haī?**

वे कौन हैं?

Who are you? (polite) **āp kaun haī?**

आप कौन हैं?

Who are you? (informal) **tum kaun ho?**

तुम कौन हो?

What is your (good) name? (polite) **āpkā (śubh) nām kyā hai?**

आपका (शुभ) नाम क्या है?

What is your name? (informal) **tumhārā nām kyā hai?**

तुम्हारा नाम क्या है?

What is his/her name? (polite, close) **inkā nām kyā hai?**

इनका नाम क्या है?

What is his/her name? (polite, far) **unkā nām kyā hai?**

उनका नाम क्या है?

What is his/her name? (informal, close) **iskā nām kyā hai?**

इसका नाम क्या है?

What is his/her name? (informal, far) **uskā nām kyā hai?**

उसका नाम क्या है?

What do you do? (m/f) (polite) **āp kyā karte/kartī hai?**

आप क्या करते/करती हैं?

What do you do? (m/f) (informal) **tum kyā karte/kartī ho?**

तुम क्या करते/करती हो?

What does he/she do? (m/f) (polite, close) **ye kyā karte/kartī hai?**

ये क्या करते/करती हैं?

What does he/she do? (m/f) (polite, far) **vo kyā karte/kartī hai?**

वे क्या करते/करती हैं?

What does he/she do? (m/f) (informal, close) **yeh kyā kartā/kartī hai?**

यह क्या करता/करती है?

What does he/she do? (m/f) (informal, far) **voh kyā kartā/kartī hai?**

वह क्या करता/करती है?

What do [they] call this?

ise kyā kehte hai?

इसे क्या कहते हैं?

My name is

merā nām ... hai.

मेरा नाम ... है । [They] call this a

ise ... kehte hai.

इसे ... कहते हैं । When will we go?

ham kab jāēge?

हम कब जाएँगे?

Where will we go?

ham kahā jāēge?

हम कहाँ जाएँगे?

How will we go? (in what manner) **ham kaise jāēge?**

हम कैसे जाएँगे?

Will we go by car?

kyā ham cār se jāēge?

क्या हम कार से जाएँगे?

Will we go by train?

kyā ham tren se jāēge?

क्या हम ट्रेन से जाएँगे?

What time will we go?

ham kitne baje jāēge?

हम कितने बजे जाएँगे?

Where are you from? (m/f) (polite) **āp kahā ke/kī hai?**

आप कहाँ के/की हैं?

Where are you from (of)? (m/f) (informal) **tum kahā ke/kī ho?**

तुम कहाँ के/की हो?

How far is that from here?

voh yahā se kitnī dūr hai?

वह यहाँ से कितनी दूर है?

Is that very far from here?

kyā voh yahā se bahut dūr hai?

क्या वह यहाँ से बहुत दूर है?

May I help you? (may I do your help) **kyā maī āpkī madad karū?**

क्या मैं आपकी मदद करूँ?

Can you help me? (m/f) (will you do my help) **kyā āp merī madad karēge/karēgī?**

क्या आप मेरी मदद करेंगे/करेंगी?

Will you take tea/coffee? (m/f) **kyā āp cāī/kāfi lēge/lēgī?**

क्या आप चाय/कॉफ़ी लेंगे/लेंगी?

Do you have a ...?

kyā āpke pās ... ?

क्या आपके पास ... है?

How much is this? (m/f) (of how much is this) **yeh kitne kā/kī hai?**

यह कितने का/की है?

What is the price of this?

iskā dām kyā hai?

इसका दाम क्या है?

What is your age?

āpkī umr kyā hai?

आपकी उम्र क्या है?

Is your age of (twenty) years?

kyā āpkī umr (bis) sāl kī hai?

क्या आपकी उम्र (बीस) साल की है?

Do you know English?

kyā āp ko angrezī ātī hai?

क्या आपको अंग्रेज़ी आती है?

How many brothers and sisters do you have?

āpke kitne bhāī-behn hāī?

आपके कितने भाई-बहन हैं?

Is your brother older (bigger) than you?

kyā āpke bhāi āpse bare hai?

क्या आपके भाई आपसे बड़े हैं?

Is your brother younger (smaller) than you?

kyā āpke bhāi āpse chote hai?

क्या आपके भाई आपसे छोटे हैं?

Is your sister older (bigger) than you?

kyā āpki behn āpse barī hai?

क्या आपकी बहन आपसे बड़ी है?

Is your sister younger (smaller) than you?

kyā āpki behn āpse choti hai?

क्या आपकी बहन आपसे छोटी है?

2.3 Answering a question yes jī hā

जी हाँ

no **jī nahī**

जी नहीं

yes, of course (certainly)!

jī hā, zarūr!

जी हाँ, ज़रूर!

I don't know. (to me is not known) **mujhe mālūm nahī (hai).**

मुझे मालूम नहीं (है) । I don't remember. (to me memory is not) **mujhe yād nahī (hai).**

मुझे याद नहीं (है) । I am okay.

maī thīk hū.

मैं ठीक हूँ । I am perfectly fine. (I am in enjoyment) **maī maze mẽ hū.**

मैं मज़े में हूँ । I have one brother.

merā ek bhāi hai.

मेरा एक भाई है । I have two brothers.

mere do bhāi hāĩ.

मेरे दो भाई हैं । I have one sister.

merī ek behn hai.

मेरी एक बहन है । I have three sisters.

merī tīn behnē hāĩ.

मेरी तीन बहनें हैं । I don't have any brother or sister.

merā koī bhāi-behn nahī hai.

मेरा कोई भाई-बहन नहीं है । My brother is older than I am.

merā bhāi mujhse barā hai.

मेरा भाई मुझसे बड़ा है । My brother is younger than I am.

merā bhāi mujhse choṭā hai.

मेरा भाई मुझसे छोटा है । I am older than my sister. (m/f) **maĩ apnī behn se barā/barī hū̃.**

मैं अपनी बहन से बड़ा/बड़ी हूँ । I am younger than my sister. (m/f) **maĩ apnī behn se choṭā/choṭī hū̃.**

मैं अपनी बहन से छोटा/छोटी हूँ ।

2.4 Thank you Thank you.

śukriyā.

शुक्रिया ।

Thank you very much.

bahut śukriyā.

बहुत शुक्रिया ।

Thank you very very much.

bahut bahut śukriyā.

बहुत बहुत शुक्रिया ।

Not a problem. ([it's] no matter) **koī bāt nahī.**

कोई बात नहीं। I am very grateful.

maĩ bahut ehsānmand hū̃.

मैं बहुत एहसानमंद हूँ। Pardon me. (please listen) **suniye.**

सुनिये। Would you help me? (m/f) (polite) (will you do my help) **kyā āp merī madad karēge/karēgī?**

क्या आप मेरी मदद करेंगे/करेंगी?

Would you help me? (m/f) (informal) (will you do my help) **kyā tum merī madad karoge/karogī?**

क्या तुम मेरी मदद करोगे/करोगी?

Would you come with me? (m/f) (polite) **kyā āp mere sāth āēge/āēgī?**

क्या आप मेरे साथ आएँगे/आएँगी?

Would you come with me? (m/f) (informal) **kyā tum mere sāth āoge/āogī?**

क्या तुम मेरे साथ आओगे/आओगी?

May I help you? (may I do your help) **maĩ āp kī madad karū̃?**

मैं आपकी मदद करूँ?

May I come with you?

maĩ āpke sāth āū̃?

मैं आपके साथ आऊँ?

Thank you for the tea/coffee/soda.

cāy/kāfi/soḍā ke liye śukriyā.

चाय/कॉफी/सोडा के लिये शुक्रिया।

Thank you for coming.

āne ke liye śukriyā.

आने के लिये शुक्रिया।

Thank you for the help. (for doing help) **madad karne ke liye śukriyā.**

मदद करने के लिये शुक्रिया।

Thank you for showing (me).

dikhāne ke liye śukriyā.

दिखाने के लिये शुक्रिया।

I really liked the food. (to me the food was much preferred) **mujhe yeh khānā bahut pasand āyā.**

मुझे यह खाना बहुत पसंद आया। I really liked the tea.

mujhe cāy bahut acchī lagī/pasand āyī.

मुझे चाय बहुत अच्छी लगी/पसंद आयी।

2.5 I'm sorry Please forgive me.

mujhe māf kijiye.

मुझे माफ़ कीजिये। I am sorry to hear this. (having heard this much sorrow happened) **yeh sunkar bahut afsos huā.**

यह सुनकर बहुत अफ़सोस हुआ। This is terrible. (a bad thing) **yeh bahut burī bāt hai.**

यह बहुत बुरी बात है। I didn't know this.

yeh mujhe mālūm nahī thā.

यह मुझे मालूम नहीं था। It will not happen a second time.

dubārā nahī hogā.

दुबारा नहीं होगा। It is no concern. (no matter of concern) **cintā kī koī bāt nahī (hai).**

चिंता की कोई बात नहीं (है)। No matter.

koī bāt nahī.

कोई बात नहीं।

2.6 What do you think?

What is your opinion? (what is your thought) **āpkā kyā khyāl/vicār hai?**

आपका क्या ख़याल/विचार है?

What is your opinion?

āpkī kyā rāy hai?

आपकी क्या राय है?

What is your opinion in this matter?

is māmle mẽ āpkā kyā khyāl/vicār hai?

इस मामले में आपका क्या ख्याल/विचार है?

What is your opinion about this?

is bāre mẽ āpkā kyā khyāl/vicār hai?

इस बारे में आपका क्या ख्याल/विचार है?

What do you think? (m/f) (polite) **āp kyā socte/soctī haī?**

आप क्या सोचते/सोचती हैं?

What do you think? (m/f) (informal) **tum kyā socte/soctī ho?**

तुम क्या सोचते/सोचती हो?

Congratulations!

badhāi ho!

बधाई हो!

Well done! (to children) **sābās!**

शाबाश!

In my opinion...

mere khyāl mẽ...

मेरे ख्याल में...

I think that... (m/f) **maī soctā/soctī hū ki...**

मैं सोचता/सोचती हूँ कि ...

I believe that... (to me the belief is that...) **mujhe yaqīn hai ki ...**

मुझे यकीन है कि ...

This is very good.

yeh bahut acchā hai.

यह बहुत अच्छा है । This is not good.

yeh acchā nahī hai.

यह अच्छा नहीं है । This is very bad.

yeh bahut kharāb/burā hai.

यह बहुत खराब/बुरा है । This went (happened) well.

yeh bahut acchā huā.

यह बहुत अच्छा हुआ । This went (happened) badly.

yeh bahut kharāb/burā huā.

यह बहुत खराब/बुरा हुआ । This will be (happen) great.

yeh bahut acchā hogā.

यह बहुत अच्छा होगा । This will be (happen) very bad.

yeh bahut kharāb/burā hogā.

यह बहुत खराब/बुरा होगा । I am very happy.

maī bahut khuś hū.

मैं बहुत खुश हूँ । I am very sad.

maī bahut dukhī hū.

मैं बहुत दुखी हूँ । Are you happy? (polite) **kyā āp khuś hai?**

क्या आप खुश हैं?

Are you sad? (polite) **kyā āp dukhī hai?**

क्या आप दुखी हैं?

I am very worried.

maī bahut fikramand hū.

मैं बहुत फ़ि?मंद हूँ । What happened?

kyā huā?

क्या हुआ?

Nothing happened.

kuch nahī huā!

कुछ नहीं हुआ। What is happening?

kyā ho rahā hai?

क्या हो रहा है?

What will happen?

kyā hogā?

क्या होगा?

What was happening?

kyā ho rahā thā?

क्या हो रहा था?

Why is this happening?

yeh kyō ho rahā hai?

यह क्यों हो रहा है?

Why did this happen?

yeh/aisā kyō huā?

यह/ऐसा क्यों हुआ?

When will this happen?

yeh/aisā kab hogā?

यह/ऐसा कब होगा?

3 Small Talk 3.1 Introductions 3.2 I beg your pardon?

3.3 Starting a conversation 3.4 A chat about the weather 3.5 Hobbies 3.6 Invitations 3.7 Paying compliments 3.8 Intimate comments/questions 3.9 Congratulations and condolences 3.10 Arrangements 3.11 Being the host(ess) 3.12 Saying goodbye

3. Small Talk

3.1 Introductions Hello/Goodbye *namaste* नमस्ते What is your (good) name?

āpkā śubh nām kyā hai?

आपका शुभ नाम क्या है?

I am ...

maĩ ... hū̃.

मैं ... हूँ । My name is ...

merā nām ... hai.

मेरा नाम ... है । This is my wife. (polite) *ye merī patnī hai.*

ये मेरी पत्नी हैं । Her name is ... (polite) *inkā nām ... hai.*

इनका नाम ... है । This is my husband. (polite) *ye mere pati hai.*

ये मेरे पति हैं । His name is (polite) *inkā nām ... hai.*

इनका नाम ... है । This is my son/boy.

yeh merā betā/larḳā hai.

यह मेरा बेटा/लड़का है । His name is ...

iskā nām ... hai.

इसका नाम ... है । This is my daughter/girl.

yeh merī beṭī/laṛkī hai.

यह मेरी बेटी/लड़की है। Her name is ...

iskā nām ... hai.

इसका नाम ... है। How many children do you have? (polite) **āpke kitne bacce hai?**

आपके कितने बच्चे हैं?

How many children do you have? (informal) **tumhāre kitne bacce hai?**

तुम्हारे कितने बच्चे हैं?

Do you have children? (polite) **kyā āpke bāl-bacce hai?**

क्या आपके बाल-बच्चे हैं?

Do you have children? (informal) **kyā tumhāre bacce hai?**

क्या तुम्हारे बच्चे हैं?

I don't have children. (any child) **merā koī bāl-baccā nahī hai.**

मेरा कोई बाल-बच्चा नहीं है। I have one child.

merā ek baccā hai.

मेरा एक बच्चा है। I have (three) children.

mere (tīn) bacce hai.

मेरे (तीन) बच्चे हैं। We have (three) children.

hamāre (tīn) bacce hai.

हमारे (तीन) बच्चे हैं। I have one son/boy.

merā ek beṭā/laṛkā hai.

मेरा एक बेटा/लड़का है। We have one daughter/girl.

hamārī ek beṭī/laṛkī hai.

मेरी एक बेटी/लड़की है। We have (two) sons/boys.

hamāre (do) beṭe/laṛke hai.

हमारे (दो) बेटे/लड़के हैं। I have (four) daughters/girls.

merī (cār) beṭiyā/laṛkiyā hai.

मेरी (चार) बेटियाँ/लड़कियाँ हैं। Are you married? (polite) **kyā āp śādīśudā haī?**

क्या आप शादीशुदा हैं?

Are you married? (informal) **kyā tum śādīśudā ho?**

क्या तुम शादीशुदा हो?

I am married. (my wedding has happened) **merī śādī ho gayī.**

मेरी शादी हो गयी। I am (not) married.

maī śādīśudā (nahī) hū.

मैं शादीशुदा (नहीं) हूँ। I am divorced.

maī talāqśudā hū.

मैं तलाक़शुदा हूँ। I am a widow.

maī vidhvā hū.

मैं विधवा हूँ। I am a widower.

maī vidhur hū.

मैं विधुर हूँ। These are (not) my parents.

ye mere mātā-pitā (nahī) haī.

ये मेरे माता-पिता (नहीं) हैं। This is (not) my friend. (m/f) **yeh merā/merī dost (nahī) hai.**

यह मेरा/मेरी दोस्त (नहीं) है। Where do you live? (m/f) (polite) **āp kahā rehte/rehtī haī?**

आप कहाँ रहते/रहती हैं?

Where do you live? (m/f) (informal) **tum kahā rehte/rehtī ho?**

तुम कहाँ रहते/रहती हो?

I live in (m/f) **maī ... mē rehtā/rehtī hū.**

मैं ... में रहता/रहती हूँ। My parents live in

mere mātā-pitā ... mē rehte haī.

मेरे माता-पिता ... में रहते हैं। Where are you from? (m/f) **āp kahā ke/kī rehnevāle/rehnevāli haī?**

आप कहाँ के/की रहनेवाले/रहनेवाली हैं?

I am (not) from (m/f) **maĩ ... kā/kī rehnevālā/rehnevālī (nahī) hū.**

मैं ... का/की रहनेवाला/रहनेवाली (नहीं) हूँ। I am (not) from (of) ... (m/f) **maĩ ... kā/kī (nahī) hū.**

मैं ... का/की (नहीं) हूँ। I am (not) American.

maĩ amrikī (nahī) hū.

मैं अमरीकी (नहीं) हूँ। I am (not) Australian.

maĩ āstreliyan (nahī) hū.

मैं ऑस्ट्रेलियन (नहीं) हूँ। I live in (m/f) **maĩ ... mẽ rehtā/rehtī hū.**

मैं ... में रहता/रहती हूँ। I do not live in (m/f) **maĩ ... mẽ nahī rehtā/rehtī.**

मैं ... में नहीं रहता/रहती। I live with a friend. (m/f) **maĩ dost ke sāth rehtā/rehtī hū.**

मैं दोस्त के साथ रहता/रहती हूँ। I live with friends. (m/f) **maĩ dostō ke sāth rehtā/rehtī hū.**

मैं दोस्तों के साथ रहता/रहती हूँ। I live alone. (m) **maĩ akele rehtā hū.**

मैं अकेले रहता हूँ। I live alone. (f) **maĩ akele rehtī hū.**

मैं अकेले रहती हूँ। I live with my parents. (m/f) **maĩ apne mātā-pitā ke sāth rehtā/rehtī hū.**

मैं अपने माता-पिता के साथ रहता/रहती हूँ। I live with my wife. (m/f) **maĩ apni patnī ke sāth rehtā/rehtī hū.**

मैं अपनी पत्नी के साथ रहता/रहती हूँ। I live with my husband. (m/f) **maĩ apne pati ke sāth rehtā/rehtī hū.**

मैं अपने पति के साथ रहता/रहती हूँ। I live with my partner. (m/f) (companion) **maĩ apne/apni sāthī ke sāth rehtā/rehtī hū.**

मैं अपने साथी के साथ रहता/रहती हूँ। I live with my children. (m/f) **maĩ apne baccō ke sāth rehtā/rehtī hū.**

मैं अपने बच्चों के साथ रहता/रहती हूँ। I live with a man. (m/f) **maĩ ek ādmī ke sāth rehtā/rehtī hū.**

मैं एक आदमी के साथ रहता/रहती हूँ। I live with a woman. (m/f) **maĩ ek**

aurat ke sāth rehtā/rehtī hū̃.

मैं एक औरत के साथ रहता/रहती हूँ। My country is (not)

merā deś ... (nahī̃) hai.

मेरा देश ... (नहीं) है। I am with my husband.

maī apne pati ke sāth hū̃.

मैं अपने पति के साथ हूँ। I am with my wife.

maī apnī patnī ke sāth hū̃.

मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। I am with my friend.

maī apne dost ke sāth hū̃.

मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। I am with my friends.

maī apne dostō ke sāth hū̃.

मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। What do you do? (m/f) (polite) **āp kyā karte/kartī hai?**

आप क्या करते/करती हैं?

What do you do? (m/f) (informal) **tum kyā karte/kartī ho?**

तुम क्या करते/करती हो?

Do you work? (m/f) (polite) **kyā āp kām karte/kartī hai?**

क्या आप काम करते/करती हैं?

Do you work? (m/f) (informal) **kyā tum kām karte/kartī ho?**

क्या तुम काम करते/करती हो?

What work do you do? (m/f) (polite) **āp kyā kām karte/kartī hai?**

आप क्या काम करते/करती हैं?

What work do you do? (m/f) (informal) **tum kyā kām karte/kartī ho?**

तुम क्या काम करते/करती हो?

Do you do a job. (m/f) (polite) (for money) **kyā āp naukrī karte/kartī hai.**

क्या आप नौकरी करते/करती हैं?

Do you do a job. (m/f) (informal) (for money) **kyā tum naukri karte/karti ho.**

क्या तुम नौकरी करते/करती हो?

I don't work. (m/f) **maĩ kām nahĩ kartā/kartī.**

मैं काम नहीं करता/करती। I do a job. (m/f) (for money) **maĩ naukri kartā/kartī hū.**

मैं नौकरी करता/करती हूँ। I don't do a job. (m/f) (for money) **maĩ naukri nahĩ kartā/kartī.**

मैं नौकरी नहीं करता/करती। I am unemployed.

maĩ berozgār hū.

मैं बेरोज़गार हूँ। Are you unemployed? (polite) **kyā āp berozgār hai?**

क्या आप बेरोज़गार हैं?

Are you unemployed? (informal) **kyā tum berozgār ho?**

क्या तुम बेरोज़गार हो?

I am (not) a teacher.

maĩ tīcar (nahĩ) hū.

मैं टीचर (नहीं) हूँ। I am (not) a doctor.

maĩ dāktar (nahĩ) hū.

मैं डॉक्टर (नहीं) हूँ। I am (not) a student.

maĩ chātra (nahĩ) hū.

मैं छात्र (नहीं) हूँ। I am (not) a tourist.

maĩ paryātak (nahĩ) hū.

मैं पर्यटक (नहीं) हूँ। I work in (India). (m/f) **maĩ (bhārat) mẽ kām kartā/kartī hū.**

मैं (भारत) में काम करता/करती हूँ। I work in (an office). (m/f) **maĩ (daftar) mẽ kām kartā/kartī hū.**

मैं (दफ़्तर) में काम करता/करती हूँ।

I work in (a factory). (m/f) **maĩ (faiktrī) mẽ kām kartā/kartī hū.**

मैं (फ़ैक्टरी) में काम करता/करती हूँ। I study in (India). (m/f) **maĩ (bhārat) mẽ paṛhtā/paṛhtī hū.**

मैं (भारत) में पढ़ता/पढ़ती हूँ। I study Hindi in (India). (m/f) **maĩ (bhārat) mẽ hindī paṛhtā/paṛhtī hū.**

मैं (भारत) में हिन्दी पढ़ता/पढ़ती हूँ। My home is in
merā ghar ... mẽ hai.

मेरा घर ... में है। Where is your home? (polite) **āpkā ghar kahā hai?**

आपका घर कहाँ है?

Where is your home? (informal) **tumhārā ghar kahā hai?**

तुम्हारा घर कहाँ है?

Where is your family's home? (polite) **āpke parivār kā ghar kahā hai?**

आपके परिवार का घर कहाँ है?

Where is your family's home? (informal) **tumhāre parivār kā ghar kahā hai?**

तुम्हारे परिवार का घर कहाँ है?

How old are you? (m/f) (polite) (of how many years are you) **āp kitne sāl ke/kī hai?**

आप कितने साल के/की हैं?

How old are you? (m/f) (informal) (of how many years are you) **tum kitne sāl ke/kī ho?**

तुम कितने साल के/की हो?

I am (thirty) years. (m/f) (of thirty years) **maĩ (tis) sāl kā/kī hū.**

मैं (तीस) साल का/की हूँ।

3.2 I beg your pardon?

I know a little Hindi. (to me a little Hindi comes) **mujhe thoṛī hindī ātī hai.**

मुझे थोड़ी हिन्दी आती है । I don't know Hindi. (Hindi doesn't comes) **mujhe hindī nahī̃ ātī.**

मुझे हिंदी नहीं आती । I speak a little Hindi. (m/f) **maī thoṛī hindī boltā/boltī hū̃.**

मैं थोड़ी हिन्दी बोलता/बोलती हूँ । I don't speak Hindi. (m/f) **maī hindī nahī̃ boltā/boltī.**

मैं हिंदी नहीं बोलता/बोलती । I write Hindi. (m/f) **maī hindī likhtā/likhtī hū̃.**

मैं हिन्दी लिखता/लिखती हूँ । I don't write Hindi. (m/f) **maī hindī nahī̃ likhtā/likhtī.**

मैं हिंदी नहीं लिखता/लिखती । Pardon me! (said to gain attention) **suniye!**

सुनिये!

Do you speak English? (m/f) (polite) **kyā āp angrezī bolte/boltī hai?**

क्या आप अंग्रेज़ी बोलते/बोलती हैं?

Do you know English? (m/f) (polite) **kyā āp angrezī jānte/jāntī hai?**

क्या आप अंग्रेज़ी जानते/जानती हैं?

I don't understand. (m/f) **maī nahī̃ samajhtā/samajhtī.**

मैं नहीं समझता/समझती । Please speak again.

phir se kahiye.

फिर से कहिये । Please speak slowly.

dhire dhire boliye.

रे

रे

बोलिये ।



is kā matlab kyā hai?
इसका मतलब क्या है?

What does this mean?
(what is the meaning of this)

us kā matlab kyā hai?
उसका मतलब क्या है?

What does that mean?

angrezi mē is kā matlab kyā hai?
अंग्रेज़ी में इसका मतलब क्या है?

What is the meaning
of this in English?

hindī mē ... ko kyā kehte hāi?
हिन्दी में ... को क्या कहते हैं?

What do they call ... in Hindi?

hindī mē ise kyā kehte hāi?
हिन्दी में इसे क्या कहते हैं?

What do they call this in Hindi?

zarā likhiye.
ज़रा लिखिये।

Please write this down.

hindī mē ise kaise likhte hāi?
हिन्दी में इसे कैसे लिखते हैं?

How do they write this in Hindi?

Please wait (a moment).

zarā rukiye.

ज़रा रुकिये। Please tell me.

zarā mujhe batāiye.

ज़रा मुझे बताइये। Please listen. (Pardon me) **zarā suniye.**

ज़रा सुनिये। Please give me this.

zarā mujhe yeh dījiye.

ज़रा मुझे यह दीजिये। Please give me that.

zarā mujhe voh dījiye.

ज़रा मुझे वह दीजिये। Please take this from me.

zarā yeh mujh se lījiye.

ज़रा यह मुझसे लीजिये। Please pay attention. (give a little attention) **zarā dhyān dījiye.**

ज़रा ध्यान दीजिये।

3.3 Starting a conversation May I say something?

maĩ kuch kahũ?

मैं कुछ कहूँ?

May I ask something?

maĩ kuch pũchũ?

मैं कुछ पूछूँ?

May I help you?

maĩ āpkĩ madad karũ?

मैं आपकी मदद करूँ?

May I sit here?

maĩ yahā̃ baithũ?

मैं यहाँ बैठूँ?

May I see (this)?

maĩ zarā (ise) dekhũ?

मैं ज़रा (इसे) देखूँ?

May I take (this)?

maĩ zarā (ise) lũ?

मैं ज़रा (इसे) लूँ?

May I give this (to you)?

kyā maĩ (āpko) yeh dũ?

क्या मैं (आपको) यह दूँ?

May I take this (from you)?

kyā maĩ (āpse) yeh lũ?

क्या मैं (आपसे) यह लूँ?

May I listen?

maĩ sunũ?

मैं सुनूँ?

May I watch?

maĩ dekhū?

मैं देखूँ?

May I come?

maĩ āū?

मैं आऊँ?

May I go?

maĩ jāū?

मैं जाऊँ?

Will you help me? (m/f) (polite) **kyā āp merī madad karēge/karēgī?**

क्या आप मेरी मदद करेंगे/करेंगी?

Will you come with me? (m/f) (polite) **kyā āp mere sāth āēge/āēgī?**

क्या आप मेरे साथ आएँगे/आएँगी?

Will you come with me? (m/f) (informal) **kyā tum mere sāth āoge/āogī?**

क्या तुम मेरे साथ आओगे/आओगी?

Would you take our photo? (m/f) (polite) **kyā āp hamārī foṭo khīcēge/khīcēgī?**

क्या आप हमारी फ़ोटो खींचेंगे/खींचेंगी?

Would you take my photo? (m/f) (polite) **kyā āp merī foṭo khīcēge/khīcēgī?**

क्या आप मेरी फ़ोटो खींचेंगे/खींचेंगी?

Please don't bother me.

mujhe tang mat kījiye.

मुझे तंग मत कीजिये । Please don't bother us.

hamē tang mat kījiye.

हमें तंग मत कीजिये। Please don't bother them/him/her. (close) (polite) **inhē tang mat kījiye.**

इन्हें तंग मत कीजिये। Please don't bother them/him/her. (far) (polite) **unhē tang mat kījiye.**

उन्हें तंग मत कीजिये। Please don't bother him/her. (close) (polite) **ise tang mat kījiye.**

इसे तंग मत कीजिये। Please don't bother him/her. (far) (polite) **use tang mat kījiye.**

उसे तंग मत कीजिये। Please go. (polite) **jāiye.**

जाइये। Go. (informal) **jāo.**

जाओ। Go/Scram! (intimate/impolite) **jā!**

जा!

3.4 A chat about the weather It is really hot/cold today. (much heat/cold is happening) **āj bahut garmī/ṭhaṇḍ ho rahī hai.**

आज बहुत गर्मी/ठंड हो रही है। It was really hot/cold yesterday. (much heat/cold was happening) **kal bahut garmī/ṭhaṇḍ ho rahī thī.**

कल बहुत गर्मी/ठंड हो रही थी। I feel very hot/cold.

mujhe bahut garmī/ṭhaṇḍ lag rahī hai.

मुझे बहुत गर्मी/ठंड लग रही है। I was feeling very hot/cold yesterday.

kal mujhe bahut garmī/ṭhaṇḍ lag rahī thī.

कल मुझे बहुत गर्मी/ठंड लग रही थी। Today's weather is beautiful (pleasing).

āj kā mausam suhāvnā hai.

आज का मौसम सुहावना है। Yesterday's weather was beautiful (pleasing).

kal kā mausam suhāvnā thā.

कल का मौसम सुहावना था। Today's weather is very bad.

āj kā mausam bahut kharāb hai.

आज का मौसम बहुत खराब है। Yesterday's weather was bad.

kal kā mausam bahut kharāb thā.

कल का मौसम बहुत ख़राब था। It is windy today. (much wind is moving) **āj bahut havā cal rahī hai.**

आज बहुत हवा चल रही है। The fog is bad today. (today there is much fog) **āj bahut kuhrā hai.**

आज बहुत कुहरा है। The pollution is bad today.
āj pradūṣaṇ bahut zyādā hai.

आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा है।

3.5

Hobbies



āpko kin cizō kā śauq hai?
आपको किन चीज़ों का शौक है?

What are your hobbies?
(polite) (to you what hobbies are)

mujhe film dekhne kā śauq hai.
मुझे फिल्म देखने का शौक है।

I like watching films.
(to me the hobby of watching films is)

kyā tumhē film dekhnā acchā lagtā hai?
क्या तुम्हें फिल्म देखना अच्छा लगता है?

Do you like watching films?
(informal)

mujhe film dekhnā bahut acchā lagtā hai.
मुझे फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है।

I really like watching films.

I like reading books.

mujhe kitāb paṛhnā acchā lagtā hai.

मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। I like listening to music.

mujhe sangit sunnā acchā lagtā hai.

मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। I like cooking.

mujhe khānā pakānā acchā lagtā hai.

मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। I like traveling. (wandering) **mujhe ghūmnā acchā lagtā hai.**

मुझे घूमना अच्छा लगता है।

3.6 Invitations What will you do this evening? (m/f) (polite) **āj sām ko āp kyā karēge/karēgī?**

आज शाम को आप क्या करेंगे/करेंगी?

What will you do this evening? (m/f) (informal) **āj sām ko tum kyā karoge/karogī?**

आज शाम को तुम क्या करोगे/करोगी?

What are you about to do this evening? (m/f) (polite) **āj sām ko āp kyā karnevāle/karnevālī haī?**

आज शाम को आप क्या करनेवाले/करनेवाली हैं?

What are you about to do this evening? (m/f) (informal) **āj sām ko tum kyā karnevāle/karnevālī ho?**

आज शाम को तुम क्या करनेवाले/करनेवाली हो?

Are you about to do something this evening? (m/f) (polite) **kyā āj sām ko āp kuch karnevāle/karnevālī haī?**

क्या आज शाम को आप कुछ करनेवाले/करनेवाली हैं?

Are you about to do something this evening? (m/f) (informal) **kyā āj sām ko tum kuch karnevāle/karnevālī ho?**

क्या आज शाम को तुम कुछ करनेवाले/करनेवाली हो?

What are you doing right now? (m/f) (polite) **abhī āp kyā kar rahe haī/kar rahī haī?**

अभी आप क्या कर रहे हैं/कर रही हैं?

What are you doing right now? (m/f) (informal) **abhī tum kyā kar rahe ho/kar rahī ho?**

अभी तुम क्या कर रहे हो/कर रही हो?

Will you come to my home tonight? (m/f) (polite) **kyā āp āj rāt ko mere ghar āēge/āēgī?**

क्या आप आज रात को मेरे घर आएँगे/आएँगी?

Will you come to my home tonight? (m/f) (informal) **kyā tum āj rāt ko mere ghar āoge/āogī?**

क्या तुम आज रात को मेरे घर आओगे/आओगी?

Will you drink tea with me? (m/f) (polite) **kyā āp mere sāth cāy piēge/piēgī?**

क्या आप मेरे साथ चाय पिएँगे/पिएँगी?

Will you drink tea with me? (m/f) (informal) **kyā tum mere sāth cāy piyoge/piyogī?**

क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगे/पियोगी?

Will you eat with us? (m/f) (polite) **kyā āp hamāre sāth khāēge/khāēgī?**

क्या आप हमारे साथ खाएँगे/खाएँगी?

Will you eat with us? (m/f) (informal) **kyā tum hamāre sāth khāoge/khāogī?**

क्या तुम हमारे साथ खाओगे/खाओगी?

Will you go to see a film with me? (m/f) (informal) **mere sāth film dekhne caloge/calogī?**

मेरे साथ फ़िल्म देखने चलोगे/चलोगी?

Will you come shopping with me? (m/f) (informal) **mere sāth śāpīng karne caloge/calogī?**

मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे/चलोगी?

Will you have dinner (food) with me? (m/f) (informal) **mere sāth khānā khāne caloge/calogī?**

मेरे साथ खाना खाने चलोगे/चलोगी?

Will you go for a stroll with me? (m/f) (informal) **mere sāth tēhalne caloge/calogī?**

मेरे साथ टहलने चलोगे/चलोगी?

Certainly! I would love to. (much happiness will occur) **zarūr! bahut khusī hogī.**

ज़रूर! बहुत खुशी होगी। Certainly. That will be fun. (much enjoyment will come) **zarūr! bahut mazā āegā.**

ज़रूर! बहुत मज़ा आएगा। This is really enjoyable.

yeh bahut mazedār hai.

यह बहुत मज़ेदार है। I will not be able to come. (m/f) **maī ā nahī pāūgā/pāūgī.**

मैं आ नहीं पाऊँगा/पाऊँगी। Please forgive me.

māf kijiye.

माफ़ कीजिये। I really want to come. (mf) **maī sacmuc ānā cāhtā/cāhtī hū.**

मैं सचमुच आना चाहता/चाहती हूँ। I really want to come. (much coming's mind/heart is) **āne kā bahut man hai.**

आने का बहुत मन है। I don't have time.

mere pās samay/ṭāim nahī hai.

मेरे पास समय/टाइम नहीं है। Perhaps tomorrow.

śāyad kal.

शायद कल। I have to work.

mujhe kām karnā hai.

मुझे काम करना है। I will come tomorrow. (m/f) **maī kal āūgā/āūgī.**

मैं कल आऊँगा/आऊँगी। We will meet in the evening.

ham sām ko milēge.

हम शाम को मिलेंगे। I will meet you tomorrow. (mf/) (polite) **maī kal āp se milūgā/milūgī.**

मैं कल आपसे मिलूँगा/मिलूँगी। I will meet you tomorrow. (mf/) (informal) **maī kal tum se milūgā/milūgī.**

मैं कल तुमसे मिलूँगा/मिलूँगी।

3.7 Paying compliments You are very beautiful/handsome. (polite) *āp bahut sundar hai.*

आप बहुत सुंदर हैं। You are very beautiful/handsome. (informal) *tum bahut sundar ho.*

तुम बहुत सुंदर हो। Your clothes are very beautiful. (polite) *āpke kapre bahut sundar hai.*

आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं। Your home is very beautiful. (polite) *āpkā ghar bahut sundar hai.*

आपका घर बहुत सुंदर है। This food is delicious (tasty).
yeh khānā bahut lazīz/svādiṣṭ hai.

यह खाना बहुत लज़ीज़/स्वादि है। This food is very enjoyable.
yeh khānā bahut mazedār hai.

यह खाना बहुत मज़ेदार है। I really enjoyed the food.
khānā bahut pasand āyā.

खाना बहुत पसंद आया। I really enjoyed this film.
yeh film bahut pasand āyī.

यह फ़िल्म बहुत पसंद आयी। What a good boy.
kitnā acchā laṛkā hai.

कितना अच्छा लड़का है। What a good girl.
kitnī acchī laṛkī hai.

कितनी अच्छी लड़की है। You are very nice. (informal) *tum bahut acche/acchī ho.*

तुम बहुत अच्छे/अच्छी हो।

3.8 Intimate comments/questions I like being with you. (informal) *tumhāre sāth mujhe bahut acchā lagtā hai.*

तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। I miss you a lot. (polite) *āpkī bahut yād ātī hai.*

आपकी बहुत याद आती है। I miss you a lot. (informal) *tumhārī bahut yād ātī hai.*

तुम्हारी बहुत याद आती है। I care for you. (polite) (your much concern/care is) **āpkī bahut parvāh hai.**

आपकी बहुत परवाह है। I care for you. (informal) (your much concern/care is) **tumhārī bahut parvāh hai.**

तुम्हारी बहुत परवाह है। Take care of yourself. (polite) (keep your thought) **apnā khyāl rakhiye.**

अपना ख्याल रखिये। Take care of yourself. (informal) (keep your thought) **apnā khyāl rakho.**

अपना ख्याल रखो। I am worried about you. (polite) (your much concern is happening) **āpkī bahut fikr ho rahī hai.**

आपकी बहुत फ़ि? हो रही है। Your smile is beautiful. (informal) **tumhārī muskān bahut sundar hai.**

तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। You have beautiful eyes. (informal) **tumhārī ā khē bahut sundar hāī.**

तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर हैं। I like you a lot. (m) (informal) **tum mujhe bahut acche lagte ho.**

तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। I like you a lot. (f) (informal) **tum mujhe bahut acchī lagti ho.**

तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। I love you. (informal) (from you love has happened) **tumse pyār ho gayā hai.**

तुमसे प्यार हो गया है। I too. (informal) (to me also) **mujhe bhī.**

मुझे भी। I love you. (m/f) (informal) **maī tumse pyār kartā/kartī hū.**

मैं तुमसे प्यार करता/करती हूँ। I too. (informal) (I also) **maī bhī.**

मैं भी।

3.9 Congratulations and condolences

Congratulations!

badhāī/mubāarak ho!

बधाई/मुबारक हो!

Happy birthday!

janmdin mubāarak ho!

जन्मदिन मुबारक हो!

I am sorry to hear this. (having heard sorrow happened) **sunkar bahut afsos huā.**

सुनकर बहुत अफ़सोस हुआ। This is very sad. (a matter of much sadness)
yeh bahut dukh kī bāt hai.

यह बहुत दुख की बात है। This is a very happy thing.

yeh bahut khusī kī bāt hai.

यह बहुत खुशी की बात है। Happy Eid!

īd mubāarak ho!

ईद मुबारक हो!

Happy Holi!

holī mubāarak ho!

होली मुबारक हो!

Happy Divali!

divālī mubāarak ho!

दिवाली मुबारक हो!

Happy New Year!

nayā sāl mubāarak ho!

नया साल मुबारक हो!

Hand out the sweets. (make the mouth sweet) **mūh mīṭhā karo.**

मुँह मीठा करो।

3.10 Arrangements When will we meet again?

ham phir kab milēge?

हम फिर कब मिलेंगे?

Where shall we meet?

ham kahā milēge?

हम कहाँ मिलेंगे?

When shall we meet?

ham kab milēge?

हम कब मिलेंगे?

What time shall we meet?

ham kitne baje milēge?

हम कितने बजे मिलेंगे?

What do you want to do? (m/f) (polite) **āp kyā karnā cāhte/cāhtī hai?**

आप क्या करना चाहते/चाहती हैं?

Shall we go to see a film?

film dekhne calēge?

फ़िल्म देखने चलेंगे?

Shall we go to eat (food)?

khānā khāne calēge?

खाना खाने चलेंगे?

3.11 Being the host(ess)



andar āiye.

अंदर आइये।

Please come inside.

kyā āp cāy yā kāfī lēge/lēgī?

क्या आप चाय या कॉफ़ी

लेंगे/लेंगी?

Will you have tea or coffee?

(m/f) (polite)

kyā tum cāy yā kāfī loge/logī?

क्या तुम चाय या कॉफ़ी

लोगे/लोगी?

Will you have tea or coffee?

(m/f) (informal)

I have just had tea. (m/f) (I have come having drunk tea) **cāy pī kar āyā/āyī hū.**

चाय पीकर आया/आयी हूँ। Have dinner with us. (polite) (having eaten food, please go) **khānā khā kar jāiye.**

खाना खा कर जाइये। I have already eaten. (m/f) (I have come having eaten) **khānā khā kar āyā/āyī hū.**

खाना खाकर आया/आयी हूँ। Will you have (take) alcohol? (m/f) (polite) **āp śarāb lēge/lēgī?**

आप शराब लेंगे/लेंगी?

Will you have (take) beer? (m/f) (polite) **āp biyar lēge/lēgī?**

आप बियर लेंगे/लेंगी?

Will you have (take) whiskey? (m/f) (polite) **āp whiskī lēge/lēgī?**

आप हिस्की लेंगे/लेंगी?

Please take some more.

kuch aur lijiye.

कुछ और लीजिये। Please eat some more.

kuch aur khāiye.

कुछ और खाइये।

3.12 Saying goodbye Goodbye *namaste/namskār* नमस्ते/नमस्कार

I will write to you. (m/f) (polite) **maī āpko likhūgā/likhūgī.**

मैं आपको लिखूँगा/लिखूँगी। I will write to you. (m/f) (informal) **maī tumko likhūgā/likhūgī.**

मैं तुमको लिखूँगा/लिखूँगी। I will phone you when I get there. (having gone there I will call) **vahā jā kar maī fon karūgā/karūgī.**

वहाँ जाकर मैं फ़ोन करूँगा/करूँगी। Will you phone me? (m/f) (polite) **āp mujhe fon karēge/karēgī?**

आप मुझे फ़ोन करेंगे/करेंगी?

I really enjoyed it here. (to me much enjoyment came) **mujhe yahā̃ bahut mazā āyā.**

मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। Thank you very much.

bahut bahut śukriyā.

बहुत बहुत शुक्रिया।

I hope that we meet again. (to me the hope is that...) **mujhe ummīd hai ki ham phir milēge.**

मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। Good luck.

śubhkāmnāē

शुभकामनाएँ

Best wishes.

śubhkāmnāē

शुभकामनाएँ

Have a good (auspicious) trip.

śubh yātrā.

शुभ यात्रा। When will you return? (m/f) (polite) **āp kab vāpas āēge/āēgī?**

आप कब वापस आएँगे/आएँगी?

When will you come back? (m/f) (informal) **tum kab vāpas āoge/āogī?**

तुम कब वापस आओगे/आओगी?

Please write when you get there. (polite) (having gone there please write a letter) **vahā̃ jā kar patra likhiye.**

वहाँ जाकर पत्र लिखिये। Please write when you get there. (informal) (having gone there please write a letter) **vahā̃ jā kar patra likknā.**

वहाँ जाकर पत्र लिखना। Please phone when you get there. (polite) (having gone there please phone) **vahā̃ jā kar fon kijiye.**

वहाँ जाकर फ़ोन कीजिये। Please phone when you get there. (informal) (having gone there please phone) **vahā̃ jā kar fon karnā.**

वहाँ जाकर फ़ोन करना। I will wait for you. (m/f) (polite) **maī āpkā intazār**

karūgā/karūgī.

मैं आपका इंतज़ार करूँगा/करूँगी । I will wait for you. (m/f) (informal) **mai tumhārā intazār karūgā/karūgī.**

मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा/करूँगी । Please take my address. (polite) **merā patā lijiye.**

मेरा पता लीजिये । Please take my address. (informal) **merā patā lo.**

मेरा पता लो ।

4 Eating Out

4.1 At the restaurant 4.2 Ordering 4.3 The bill 4.4 Complaints 4.5 Paying a compliment 4.6 The menu 4.7 Alphabetical list of dishes and drinks 4.8 Well-known dishes

4. Eating Out

4.1 At the restaurant Is this pure vegetarian?

kyā yeh śudh śākāhārī hai?

क्या यह शुद्ध शाकाहारी है?

I eat meat. (m/f) *maĩ māns khātā/khātī hū̃.*

मैं मांस खाता/खाती हूँ। I do not eat meat. (m/f) *maĩ māns nahī̃ khātā/khātī.*

मैं मांस नहीं खाता/खाती। I drink alcohol. (m/f) *maĩ śarāb pītā/pītī hū̃.*

मैं शराब पीता/पीती हूँ। I do not drink alcohol. (m/f) *maĩ śarāb nahī̃ pītā/pītī.*

मैं शराब नहीं पीता/पीती। I used to eat meat. (m/f) *maĩ māns khātā thā/khātī thī.*

मैं मांस खाता था/खाती थी। I used to drink alcohol. (m/f) *maĩ śarāb pītā thā/pītī thī.*

मैं शराब पीता था/पीती थी। I am (not) a vegetarian.

maĩ śākāhārī (nahī̃) hū̃.

मैं शाकाहारी (नहीं) हूँ। I used to be a vegetarian. (m/f) *maĩ śākāhārī thā/thī.*

मैं शाकाहारी था/थी। Is the food very spicy?

kyā yahā̃ kā khānā bahut masāledār hai?

क्या यहाँ का खाना बहुत मसालेदार है?

We cannot eat very spicy food.

ham bahut masāledār khānā khā nahī̃ sakte.

हम बहुत मसालेदार खाना खा नहीं सकते । Is your restaurant open?

kyā āpkā restrā is samay khulā hai?

क्या आपका रेस्ट्रॉ इस समय खुला है?

May we sit here?

kyā ham yahā baithē?

क्या हम यहाँ बैठें?

May I see a menu?

kyā maī menū kārd dekhū?

क्या मैं मेनू कार्ड देखूँ?

Could you bring one more chair? (m/f) **āp ek aur kursī lāēge/lāēgī?**

आप एक और कुरसी लाएँगे?

Could you please clean the table. (m/f) **āp mez sāf karēge/karēgī?**

आप मेज़ साफ़ करेंगे?



pīne ke liye kyā milegā?

पीने के लिये क्या मिलेगा?

What is available to drink?

(what will be found for drinking)

kyā cāy milegī?

क्या चाय मिलेगी?

Do you have tea?

(will tea be available)

kyā lassī milegī?

क्या लस्सी मिलेगी?

Do you have lassi?

(will lassi be available)

kyā samose milēge?

क्या समोसे मिलेंगे?

Do you have samosas?

(will samosas be available)

Please don't put ice in it.

us mẽ barf mat ḍāliye.

उसमें बर्फ़ मत डालिये । Please put ice in it.

us mẽ barf ḍāliye.

उसमें बर्फ़ डालिये । I do not want/need ice.

mujhe barf nahī cāhiye.

मुझे बर्फ नहीं चाहिये। Is the water boiled?

kyā pānī ublā huā hai?

क्या पानी उबला हुआ है?

Is the water filtered?

kyā pānī filtard hai?

क्या पानी फ़िल्टर्ड है?

I like spicy food.

mujhe masāledār khānā pasand hai.

मुझे मसालेदार खाना पसंद है। I don't like spicy food.

mujhe masāledār khānā pasand nahī hai.

मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। I really like roti (bread).

mujhe roṭī bahut pasand hai.

मुझे रोटी बहुत पसंद है।

4.2 Ordering Sir!

bhāī sāhab!

भाई साहब!

Pardon me (please listen).

suniye.

सुनिये। We would like to order.

ham ārdar denā cāhte hai.

हम ऑर्डर देना चाहते हैं। What do you want/need? (polite) ***āpko kyā cāhiye?***

आपको क्या चाहिये?

What do you want/need? (informal) ***tumko kyā cāhiye?***

तुमको क्या चाहिये?

Please bring some water.

zarā pānī lāiye.

ज़रा पानी लाइये । Please take our order.

hamārā ārdar lījiye.

हमारा ऑर्डर लीजिये । Please bring a (one) dal (lentil dish).

ek dāl lāiye एक दाल लाइये । Please bring some more sambhar.

kuch aur sābhar lāiye.

कुछ और साँभर लाइये । Please bring some more chutney.

kuch aur caṭnī lāiye.

कुछ और चटनी लाइये । Please bring some more pickle.

kuch aur acār lāiye.

कुछ और अचार लाइये । Please bring some salt.

namak lāiye.

नमक लाइये । We will have (take) rice.

ham cāval lēge.

हम चावल लेंगे । We will eat rice.

ham cāval khāēge.

हम चावल खाएँगे । He/She will have (take) roti.

ye roṭī lēge/lēgī.

ये रोटी लेंगे/लेंगी । What will you have (take)? (m/f) (polite) **āp kyā lēge/lēgī?**

आप क्या लेंगे/लेंगी?

What will you have (take)? (m/f) (informal) **tum kyā loge/logī?**

तुम क्या लोगे/लोगी?

What would you like? (m/f) (what will you choose) **āp kyā pasand karēge/karēgī?**

आप क्या पसंद करेंगे/करेंगी?

I will eat biriyani. (m/f) **maī biryānī khāūgā/khāūgī.**

मैं बिरयानी खाऊँगा/खाऊँगी । Please give us five more minutes.

hamē pāc minaṭ aur dījiye.

हमें पाँच मिनट और दीजिये। Please bring the food quickly.

khānā jaldī lāiye.

खाना जल्दी लाइये।

4.3 The bill Please bring tea.

cāy lāiye.

चाय लाइये। Please bring the bill.

bil lāiye.

बिल लाइये। This is not our bill.

yeh hamārā bil nahī hai.

यह हमारा बिल नहीं है। This does not seem right.

yeh ṭhīk nahī lagtā.

यह ठीक नहीं लगता। Please take the money.

paise lijiye.

पैसे लीजिये। We did not get the (m/f) (...was not received) ... **nahī milā/milī.**

... नहीं मिला/मिली।

4.4 Complaints It has been a long time. (much delay has attached) **bahut der lagī (hai).**

बहुत देर लगी (है)। Will it take much longer? (will much delay attach)

bahut der lagegī?

बहुत देर लगोगी?

How long will it take? (how much delay will attach) **kitnī der lagegī?**

कितनी देर लगोगी?

It is taking a long time. (how much delay will attach) **bahut der lag rahī hai.**

बहुत देर लग रही है। This is cold. (m/f) **yeh ṭhaṇḍā/ṭhaṇḍī hai** यह ठंडा/ठंडी

है । This is too (much) spicy.

yeh bahut zyādā masāledār hai.

यह बहुत ज़्यादा मसालेदार है । This is not mine.

yeh merā nahī hai.

यह मेरा नहीं है । This is not ours.

yeh hamārā nahī hai.

यह हमारा नहीं है । This is not yours. (polite) **yeh āpkā nahī hai.**

यह आपका नहीं है । This is not yours. (informal) **yeh tumhārā nahī hai.**

यह तुम्हारा नहीं है । This is not his/hers. (close) (polite) **yeh inkā nahī hai.**

यह इनका नहीं है । This is not his/hers. (close) (informal) **yeh iskā nahī hai.**

यह इसका नहीं है । This is not his/hers. (far) (polite) **yeh unkā nahī hai.**

यह उनका नहीं है । This is not his/hers. (far) (informal) **yeh uskā nahī hai.**

यह उसका नहीं है । I cannot eat this. (m/f) **maī yeh khā nahī saktā/saktī.**

मैं यह खा नहीं सकता/सकती । There is too much salt in this.

is mē bahut zyādā namak hai.

इस में बहुत ज़्यादा नमक है ।

There is not enough salt in this.

is mē kam namak hai.

इस में कम नमक है । This is not fresh.

yeh tāzā nahī hai.

यह ताज़ा नहीं है । This is not hot.

yeh garm nahī hai.

यह गर्म नहीं है । This is not hot enough.

yeh bilkul bhī garm nahī hai.

यह बिल्कुल भी गर्म नहीं है । This is too hot.

yeh zyādā garm hai.

यह ज़्यादा गर्म है ।

This is stale.

yeh bāsī hai.

यह बासी है। This is not clean.

yeh sāf nahī hai.

यह साफ़ नहीं है।

4.5 Paying a compliment The food was very tasty.

khānā bahut lazīz/svādiṣṭ thā.

खाना बहुत लज़ीज़/स्वादि था। The food was excellent.

khānā bahut barhiyā thā.

खाना बहुत बढ़िया था। I really liked the lentils. (f) **dāl bahut pasand āyī.**

दाल बहुत पसंद आयी। I really liked the vegetable dish. (f) **sabzī bahut pasand āyī.**

सब्ज़ी बहुत पसंद आयी। I really liked the rice. (m) **cāval bahut pasand āyā.**

चावल बहुत पसंद आया। I really liked the samosas. (m, pl) **samosē bahut pasand āyē.**

समोसे बहुत पसंद आये।

4.6

The

menu

In the Beginning śurū mē शुरू में	Drinks (for drinking) pīne ke liye पीने के लिये	Vegetable(s) (f) sabzī सब्ज़ी
From the Garden baghīce se बगीचे से	Sweets mīṭhā मीठा	Fish (f) machlī मछली
Meat (m) gośt/māns गोश्त/मांस		

4.7 Alphabetical list of dishes and drinks

alcohol (f)

śarāb

शराब

barfi (a sweetmeat
made from milk) (f)

barfi

बर्फी

beef (m)

gāy kā gośt/māns

गाय का गोश्त/मांस

bhatura (bread baked
on a griddle and
deep fried) (m)

bhaṭūrā

भटूरा

biryani (f)

biryānī

बिरयानी

bread (f)

roṭī/capātī

रोटी/चपाती

butter (m)

makkhan

मक्खन

buttermilk (f)

chāch

छाछ

cabbage (f)

band gobhī

बंद गोभी

carrot halva (halva
with carrots) (m)

gājar kā halvā

गाजर का हलवा

cauliflower (f)

phūl gobhī

फूल गोभी

cauliflower dish (f)

gobhī kī sabzī

गोभी की सब्ज़ी

chat (spicy fast food)
(f)

cāṭ

चाट

cheese (m)

panīr

पनीर

chicken (m) murgh मुर्ग	ghee (clarified butter) (m) ghī घी	kidney beans (m) rājmā राजमा
chickpeas (m, pl) chole छोले	goat's meat (m) bakre kā gošt/māns बकरे का गोश्त/मांस	kulfi (Indian ice cream) (f) qulfi कुल्फी
chickpeas and bhatura (spicy chickpeas with fried bread) (m) chole bhaṭūre छोले भटूरे	gourd (f) laukī लौकी	laddu (sweet made from chickpea flour) (m) laḍḍū लड्डू
chutney (f) caṭnī चटनी	gourd vegetable dish (f) laukī kī sabzī लौकी की सब्ज़ी	lassi (cold, sweet yoghurt drink) (f) lassī लस्सी
dosa (m) ḍosā डोसा	green beans (m) bīns बीन्स	lentils (f) dāl दाल
eggplant (m) baīgan बैंगन	gulab jamun (fried sweet made from milk, served hot in syrup) (m) gulāb jāmun गुलाब जामुन	lentils and rice (m) dāl cāval दाल चावल
eggplant dish (m) baīgan bhartā बैंगन भरता	halva (sweet dish made from lentils, semolina, or rice and sugar) (m) halvā हलवा	meat (m) gošt/māns गोश्त/मांस
fish (f) machlī मछली	jalebi (fried crisp sweet in syrup) (f) jalebī जलेबी	mutton (m) bher kā gošt/māns भेड़ का गोश्त/मांस
fruit (m) phal फल	khoya (solidified milk, the base of most sweets made of milk) (m) khoyā खोया	nan (baked bread, plain flour) (f) nān नान
(fruit) juice (m) (phalō kā) ras/jūs (फलों का) रस/जूस		onion (m) pyāz प्याज़
fruit raita (m) phalō kā rāytā फलों का रायता		orange juice (sweet lime) (m) mausamī kā ras मौसमी का रस
garlic (m) lehsun लहसुन		

paratha (fried bread, unleaved wheat flour) (m) parāṭhā पराँठा	pumpkin (m) kaddū कद्दू	soda (m) soḍā सोडा
peas (f) maṭar मटर	puri (fried bread) pūrī पूड़ी	spinach (m) pālak पालक
peas and cheese (m) maṭar panīr मटर पनीर	rasmalai (sweet dish, made of cream, milk and syrup) (f) rasmalāī रसमलाई	spinach and cheese dish (m) pālak panīr पालक पनीर
pickle (m) acār अचार	rice (m) cāval चावल	vegetable (f/m) sabzī/sāg सब्ज़ी/साग
potato (m) ālū आलू	rice pudding (f) khīr खीर	yoghurt (m) dahī दही
potato and cauliflower dish (f) ālū gobhī आलू गोभी	roti (unleavened bread baked) (f) roṭī रोटी	chicken (m) murgh मुर्ग
potatoes and peas (f) ālū maṭar आलू मटर	sambhar (soupy dish made out of lentils and vegetables served with dosa) (m) sābhar साँभर	

4.8

Well-known

dishes

tandur (a clay oven) (m)	tandūr तंदूर
tava (iron griddle) (m)	tavā तवा
mung dal (f) (a typical yellow lentil dish)	mūṅg kī dāl मूंग की दाल
arhar dal (f) (a yellow-brown lentil dish)	arhar kī dāl अरहर की दाल
pulav (m) (rice fried in ghee and cooked with cumin and stock)	pulāv पुलाव
kabab (m) (barbequed mutton cooked on skewers)	kabāb कबाब
korma (m) (a rich brown curry with chicken, mutton or vegetables)	qormā कोरमा
kofta (m) (minced balls of meat or vegetables served in a sauce)	koftā कोफ़ता
tandoori chicken (m)	tandūrī cikan तंदूरी चिकन
okra (f)	bhiṅḍī भिंडी
dosa (m) (a pancake made from rice flour)	ḍosā डोसा
pakora (m) (fried batter of gram flour with vegetables)	pakaurā पकौड़ा

5 Getting Around

5.1 Asking directions 5.2 Traffic signs 5.3 Cars, bicycles/mopeds 5.4 The gas station 5.5 Breakdowns and repairs 5.6 Renting a vehicle 5.7 hitchhiking

5. Getting Around

5.1 Asking directions May I ask you something?

maĩ āp se kuch pūchū

मैं आपसे कुछ पूछूँ?

I have lost my way (path). (m/f) *maĩ rāstā bhūl gayā/gayī.*

मैं रास्ता भूल गया/गयी। Where is the ...?

... kahā hai?

... कहाँ है?

Is the ... ahead?

kyā ... āge hai?

क्या ... आगे है?

How far is the ... from here?

... yahā se kitni dūr hai?

... यहाँ से कितनी दूर है?

Is the ... close to here?

kyā ... yahā se nazdik hai?

क्या ... यहाँ से नज़दीक है?

Could you show me on the map? (m/f) *āp naqše par dikhāēge/dikhāēgī?*

आप नक्शे पर दिखाएँगे/दिखाएँगी?

Go straight (polite) *sīdhe jāiye*.

सीधे जाइये। Turn left ahead. (polite) (having gone ahead, turn left) *āge jākar bāyī taraf muṛiye*.

आगे जाकर बायीं तरफ़ मुड़िये। Turn right ahead. (polite) (having gone ahead, turn left) *āge jākar dāhini taraf muṛiye*.

आगे जाकर दाहिनी तरफ़ मुड़िये।

street (f) <i>sarak</i> सड़क	flyover (m) <i>flāi-ovar</i> फ़्लाई-ओवर	laneway (f) <i>galī</i> गली
way (m) (path) <i>rāstā</i> रास्ता	bridge (m) <i>pul</i> पुल	at the intersection <i>caurāhe par</i> चौराहे पर
road (m) <i>mārg</i> मार्ग	at the corner <i>kone par</i> कोने पर	traffic light (f) <i>battī</i> बत्ती

5.2

Traffic

signs

Stop <i>thehriye</i> ठहरिये	Intersection ahead <i>āge caurāhā hai.</i> आगे चौराहा है।	Drive carefully (remain vigilant) <i>sāvadhān rahē</i> सावधान रहें
Traffic signal ahead <i>āge battī hai</i> आगे बत्ती है।	There is a bend ahead. <i>āge moṛ hai.</i> आगे मोड़ है।	Road closed <i>rāstā band hai.</i> रास्ता बंद है।
Drive slowly <i>dhīre calē</i> धीरे चलें	Incline/slope (f) <i>ḍhalān</i> ढलान	Sharp bend (m) <i>tīvra moṛ</i> तीव्र मोड़

5.3

Cars,

bicycles/mopeds

battery (f) (car) baiṭrī बैट्री	engine (m) injan इंजन	accelerator (m) ekselareṭar एक्सेलरेटर
light (f) battī बत्ती	windshield (m) śiśā शीशा	gear (m) giyar गियर
mirror (m) āinā आइना	break (m) brek ब्रेक	radiator (m) reḍiyeṭar रेडियेटर
door (m) darvāzā दरवाज़ा	pedal (m) paidal पैडल	low beam (m) ḍipar डिपर
trunk (f) ḍikkī डिक्की	chain (f) zanjīr ज़ंजीर	steering wheel (m) caḱkā चक्का
muffler (m) maflar मफ़्लर	window (f) khirkī खिड़की	clutch (m) klac क्लच

5.4 The gas station



peṭrol bhar dījiye.

पेट्रोल भर दीजिये।

Please fill up (the tank with) petrol.

anleḍeḍ bhar dījiye.

अनलेडेड भर दीजिये।

Please fill it up with unleaded.

ḍīzal bhar dījiye.

डीज़ल भर दीजिये।

Please fill it up with diesel.

Will you check (look at) the oil? (polite) **tel dekhēge?**

तेल देखेंगे?

Will you check (look at) the oil? (informal) **tel dekhoge?**

तेल देखोगे?

Will you check (look at) the tire pressure? (polite) ***pahiyō kā preśar dekhēge?***

पहियों का प्रेशर देखेंगे?

Will you check the tire pressure? (informal) ***pahiyō kā preśar dekhoge?***

पहियों का प्रेशर देखोगे?

Will you change the oil? (polite) ***āp tel badlēge?***

आप तेल बदलेंगे?

Will you change the oil? (informal) ***tum tel badloge?***

तुम तेल बदलोगे?

Will you wash (clean) my car? (polite) ***āp merī gārī sāf kar dēge?***

आप मेरी गाड़ी साफ़ कर देंगे?

Will you wash my car? (informal) ***tum merī gārī sāf kar doge?***

तुम मेरी गाड़ी साफ़ कर दोगे?

Will you wash (clean) the windshield? * (polite) ***āp śīsā sāf kar dēge?***

आप शीशा साफ़ कर देंगे?

Will you wash the windshield? * (informal) ***tum śīsā sāf kar doge?***

तुम शीशा साफ़ कर दोगे?

5.5 Breakdowns and repairs



merī gārī <u>kharāb</u> ho gayī hai. मेरी गाड़ी खराब हो गयी है।	My car/vehicle has broken down.
kyā āp merī madad karēge/ karēgī? क्या आप मेरी मदद करेंगे/करेंगी?	Will you help me? (m/f) (polite)
petrol <u>khatm</u> ho gayā hai. पेट्रोल खत्म हो गया है।	I have run out of gas. (the petrol is finished)
gārī band hai, aur cābī andar hai. गाड़ी बंद है और चाबी अंदर है।	I have locked the keys in the car. (the car is closed, and key is inside)
gārī <u>ṣṭārt</u> nahī ho rahī hai. गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है।	My car/vehicle won't start.

Can you take me to the nearest town?

āp mujhe agle nagar tak le calēge?

आप मुझे अगले नगर तक ले चलेंगे?

I think that the ... is broken. (in my opinion the ... is broken) **mere khyāl
mē ... kharāb hai.**

मेरे ख्याल में ... खराब है। Can you fix (mend) it?* (polite) **kyā āp iskī
marammat kar sakēge?**

क्या आप इसकी मरम्मत कर सकेंगे?

Can you fix it?* (informal) **kyā tum iskī marammat kar sakoge?**

क्या तुम इसकी मरम्मत कर सकोगे?

Can you fix the tire?* (polite) **kyā āp pahiye kī marammat kar sakēge?**

क्या आप पहिये की मरम्मत कर सकेंगे?

Can you fix the tire?* (informal) **kyā tum pahiye kī marammat kar sakoge?**

क्या तुम पहिये की मरम्मत कर सकोगे?

Will you change the tire?* (polite) **kyā āp pahiyā badlēge?**

क्या आप पहिया बदलेंगे?

Will you change the tire?* (informal) **kyā tum pahiyā badloge?**

क्या तुम पहिया बदलोगे?

When will it be fixed?

kab tak thīk hogā?

कब तक ठीक होगा?

When will it be ready?

kab tak taiyār hogā?

कब तक तैयार होगा?

How much will it cost? (how many monies will attach) **kitne paise lagēge?**

कितने पैसे लगेंगे?

Will you give me a receipt?* (polite) **kyā āp mujhe rasīd dēge?**

क्या आप मुझे रसीद देंगे?

5.6 Renting a vehicle I would like to rent a ... (m/f) **maī kirāye par ... lenā cāhtā/cāhtī hū̃.**

मैं किराये पर ... लेना चाहता/चाहती हूँ। Do I need a license for this?

is ke liye kyā mujhe lāisens cāhiye?

इसके लिये क्या मुझे लाइसेंस चाहिये?

I want/need it for a full (entire) day. (it is wanted to me) **mujhe pūre din ke liye cāhiye.**

मुझे पूरे दिन के लिये चाहिये। I want/need it for a half day. (it is wanted to me) **mujhe ādhe din ke liye cāhiye.**

मुझे आधे दिन के लिये चाहिये। I want/need it for the morning only. (it is wanted to me) **mujhe sirf subah cāhiye.**

मुझे सिर्फ सुबह चाहिये। I want/need it for a week. (it is wanted to me)

mujhe ek hafte ke liye cāhiye.

मुझे एक हफ़ते के लिये चाहिये।

I want/need it with a driver. (it is wanted to me) **mujhe gārī aur ḍrāīvar donō cāhiye.**

मुझे गाड़ी और ड्राइवर दोनों चाहिये। I want/need it without a driver. (it is wanted to me) **mujhe sirf gārī cāhiye, ḍrāīvar nahī.**

मुझे सिर्फ़ गाड़ी चाहिये ड्राइवर नहीं। How much do you charge (take)?*
(polite) **kitne paise lete hai?**

कितने पैसे लेते हैं?

What is the rate?*(polite) (what calculation do you apply) **āp kyā hisāb lagāte hai?**

आप क्या हिसाब लगाते हैं?

Shall we stop soon? (after a little delay) **kyā ham thoṛī der bād rukē?**

क्या हम थोड़ी देर बाद रुकें?

Are you hungry? (polite) **kyā āpko bhūkh lagī hai?**

क्या आपको भूख लगी है?

Are you hungry? (informal) **kyā tumko bhūkh lagī hai?**

क्या तुमको भूख लगी है?

Are you thirsty? (polite) **kyā āpko pyās lagī hai?**

क्या आपको प्यास लगी है?

Are you thirsty? (informal) **kyā tumko pyās lagī hai?**

क्या तुमको प्यास लगी है?

Shall we stop for tea?

kyā ham cāy pīne rukē?

क्या हम चाय पीने रुकें?

5.7 Hitchhiking

Where are you going?* (polite) **āp kahā jā rahe haĩ?**

आप कहाँ जा रहे हैं?

Where are you going?* (informal) **tum kahā jā rahe ho?**

तुम कहाँ जा रहे हो?

Will you take me to...?* (polite) **kyā āp mujhe ... le calēge?**

क्या आप मुझे ... ले चलेंगे?

Will you take me to...?* (informal) **kyā tum mujhe ... le caloge?**

क्या तुम मुझे ... ले चलोगे?

How far are you going?* (polite) **āp kitnī dūr jā rahe haĩ?**

आप कितनी दूर जा रहे हैं?

How far are you going?* (informal) **tum kitnī dūr jā rahe ho?**

तुम कितनी दूर जा रहे हो?

Are you going via ... ?* (polite) **kyā āp ... se ho kar jā rahe haĩ?**

क्या आप ... से होकर जा रहे हैं?

Are you going via ... ?* (informal) **kyā tum ... se ho kar jā rahe ho?**

क्या तुम ... से होकर जा रहे हो?

I have to go to

mujhe ... jānā hai.

मुझे ... जाना है । We have to go to

hamē ... jānā hai.

हमें ... जाना है । Could you please stop here.

yahā rukiye.

यहाँ रुकिये । Please let me off here. (leave me) **mujhe yahā chor dijiye.**

मुझे यहाँ छोड़ दीजिये । Thank you for taking me.

mujhe le jāne ke liye śukriyā.

मुझे ले जाने के लिये शुक्रिया ।

Footnotes

- * These sentences are conjugated for a masculine subject.
- * These sentences are conjugated for a masculine subject.
- * These sentences are conjugated for a masculine subject.
- * These sentences are conjugated for a masculine subject.

6 Arrival and Departure 6.1 General 6.2

Customs 6.3 Luggage 6.4 Questions to passengers 6.5 Tickets 6.6 Information 6.7 Airports 6.8 Trains 6.9 Taxis

6. Arrival and Departure

6.1 General Is this train going to ...?

kyā yeh tren ... jā rahī hai?

क्या यह ट्रेन ... जा रही है?

Is this bus going to ...?

kyā yeh bas ... jā rahī hai?

क्या यह बस ... जा रही है?

Does this bus go via ...?

kyā yeh bas ... se ho kar jātī hai?

क्या यह बस ... से होकर जाती है?

I want to catch the train to (m/f) *maī ... kī tren pakarṇā cāhtā/cāhtī hū*

मैं ... की ट्रेन पकड़ना चाहता/चाहती हूँ। What is the number of the train to ...?

... kī tren kā nambar kyā hai?

...की ट्रेन का नंबर क्या है?

Does this train stop at ... station?

kyā yeh tren ... ke sṭeśan par ruktī hai?

क्या यह ट्रेन ...के स्टेशन पर रुकती है?

How much is the ticket to ...? (in how much does the ticket come) *...kā tikaṭ kitne mē ātā hai?*

... का टिकट कितने में आता है?

I want/need a return ticket.

mujhe vāpasī tikaṭ cāhiye.

मुझे वापसी टिकट चाहिये। I have to get down at ... **mujhe ... par utarnā hai.**

मुझे ... पर उतरना है।

6.2 Customs We are going to ...

ham ... jā rahe hai.

हम ... जा रहे हैं। I am traveling in India. (m) (for traveling I have come)

maī bhārat mẽ ghūmne ke liye āyā hū.

मैं भारत में घूमने के लिये आया हूँ। I am traveling in India. (f) (for traveling I have come)

maī bhārat mẽ ghūmne ke liye āyī hū.

मैं भारत में घूमने के लिये आयी हूँ। I have come to do some work. (m/f)

maī kuch kām karne āyā/āyī hū

मैं कुछ काम करने आया/आयी हूँ। I will stay here for a few days. (m/f)

maī yahā kuch dīn (ke liye) rahūgā/rahūgī.

मैं यहाँ कुछ दिन (के लिये) रहूँगा/रहूँगी। I will stay here for a week. (m/f)

maī yahā ek hafte (ke liye) rahūgā/rahūgī.

मैं यहाँ एक हफ़्ते (के लिये) रहूँगा/रहूँगी।

I will stay here for the weekend. (m/f) **maī yahā ek vīkeṇḍ (ke liye) rahūgā/rahūgī.**

मैं यहाँ एक वीकेण्ड (के लिये) रहूँगा/रहूँगी।

6.3 Luggage Porter!

portar!

पोर्टर!

How much do you want? * (polite) (how much will you take) **āp kitnā lēge?**

आप कितना लेंगे?

How much do you want?* (informal) (how much will you take) **tum kitnā loge?**

तुम कितना लोगे?

Please pick up this luggage.

yeh sāmān uṭhāīye.

यह सामान उठाइये। Please take it to a taxi. (polite) **ṭaiksī tak le jāīye.**

टैक्सी तक ले जाइये। Please take it to a taxi. (informal) **ṭaiksī tak le jāo.**

टैक्सी तक ले जाओ। Please take it to an autorickshaw. (polite) **āṭo tak le jāīye.**

ऑटो तक ले जाइये। Please take it to an autorickshaw. (informal) **āṭo tak le jāo.**

ऑटो तक ले जाओ। How much per piece?* (polite) **ek pīs ke liye kitnā lete haī?**

एक पीस के लिये कितना लेते हैं?

How much per piece?* (informal) **ek pīs ke liye kitnā lete ho?**

एक पीस के लिये कितना लेते हो?

May I keep my luggage somewhere? (m/f) **kyā maī apnā sāmān kahī rakh saktā/saktī hū?**

क्या मैं अपना सामान कहीं रख सकता/सकती हूँ?

This is not my luggage.

yeh merā sāmān nahī hai.

यह मेरा सामान नहीं है। Is there a place to store luggage here?

kyā yahā sāmān rakhne kī jagah hai?

क्या यहाँ सामान रखने की जगह है?

6.4 Questions to passengers Ticket types

First or second class?	pratham yā dvitīya śreṇī? प्रथम या द्वितीय श्रेणी?
One-way or return (two-way)?	ek-tarafā yā do-tarafā? एक-तरफ़ा या दो-तरफ़ा?
Near the window?	khīrkī ke pās? खिड़की के पास?
Sleeper class? (sleeping's berth)	soṇe kā barth? सोने का बर्थ?
Top, middle or bottom?	ūpar kā, bīc kā, yā nīce kā barth? ऊपर का, बीच का, या नीचे का बर्थ?
How many tickets?	kitne ṭikaṭ? कितने टिकट?
How many travelers?	kitne yātrī? कितने यात्री?

Destination Where do you want to go? (m/f) (polite) **āp kahā jānā cāhte/cāhtī haī?**

आप कहाँ जाना चाहते/चाहती हैं?

When do you want to go? (m/f) (polite) **āp kab jānā cāhte/cāhtī haī?**

आप कब जाना चाहते/चाहती हैं?

Your (train) leaves (at 8 o'clock). (polite) **āp kī (gārī) (āṭh baje) chūṭṭī hai.**

आप की (गाड़ी) (आठ बजे) छूटती है। You will have to get off (down) at (polite) **āpko ... par utarnā hogā.**

आपको ... पर उतरना होगा। You will have to go via.... (polite) **āpko ... se ho kar jānā hogā.**

आपको ... से होकर जाना होगा। You will then go to ... (on the 8th) (m/f) (polite) **phir āp (āṭh tārikh ko) ... jāēge/jāēgī.**

फिर आप (आठ तारीख को) ... जाएँगे/जाएँगी। You will depart (on the 8th). (m/f) (polite) **āp (āṭh tārikh ko) ravānā hōge/hōgī.**

आप (आठ तारीख को) रवाना होंगे/होंगी। You will return (on the 8th). (m/f)

(polite) **āp (āṭh tārikh ko) vāpas āēge/āēgī.**

आप (आठ तारीख को) वापस आएँगे/आएँगी। **Inside the vehicle**



ṭikaṭ dikhāiye.

टिकट दिखाइये।

Please show me your ticket.

pāsport dikhāiye.

पासपोर्ट दिखाइये।

Please show me your passport.

yeh āpkī kursī nahī hai.

यह आपकी कुर्सी नहीं है।

This is not your seat. (polite)

āpkā ṭikaṭ ṭhik nahī hai.

आपका टिकट ठीक नहीं है।

You have the wrong ticket.
(polite)

yeh ṭikaṭ āj kī tārikh kā nahī hai.

यह टिकट आज की तारीख का नहीं है।

You are traveling on the
wrong date.

āpko jurmānā denā hogā.

आपको जुर्माना देना होगा।

You will have to pay a fine.
(polite)

ṭren ... ghaṇṭe der se jāegī.

ट्रेन ... घंटे देर से जाएगी।

The train is delayed by

6.5 Tickets Where is the booking office?

buking āfis kahā hai?

बुकिंग ऑफिस कहाँ है?

Where can I book a ticket?

ṭikaṭ kī buking kahā karāū?

टिकट की बुकिंग कहाँ कराऊँ?

Where can I book a flight?

flāit kī buking kahā karāū?

फ्लाइट की बुकिंग कहाँ कराऊँ?

Where can I reserve a seat?

sīt kā ārakṣaṇ kahā karāū?

सीट का आरक्षण कहाँ कराऊँ?

I need a one-way ticket. (to me is needed) **mujhe ek-tarafā ṭikaṭ cāhiye.**

मुझे एक-तरफ़ा टिकट चाहिये। Please give me a return ticket.

do-tarafā ṭikaṭ dījiye.

दो-तरफ़ा टिकट दीजिये। Please give me a first class ticket.

pratham śreṇī kā ṭikaṭ dījiye.

प्रथम श्रेणी का टिकट दीजिये। Please give me a second class ticket.

dvitiya śreṇī kā ṭikaṭ dījiye.

द्वितीय श्रेणी का टिकट दीजिये। I want to make a reservation. (m/f) **mai ārakṣaṇ karānā cāhtā/cāhti hū.**

मैं आरक्षण कराना चाहता/चाहती हूँ। I want a top, middle, bottom berth.

mujhe ūpar kā, bic kā, nice kā barth cāhiye.

मुझे ऊपर का, बीच का, नीचे का बर्थ चाहिये। Please give me a seat near the window.

mujhe khiṛkī ke pās kī sīt dījiye.

मुझे खिड़की के पास की सीट दीजिये। Please give me a seat on the side.

mujhe kinārevāli sīt dījiye.

मुझे किनारेवाली सीट दीजिये। Please give us ... tickets.

hamē ... ṭikaṭ dījiye.

हमें ... टिकट दीजिये। Is there a foreign tourist quota on this train?

kyā is tren mē ṭurist koṭā hai?

क्या इस ट्रेन में टूरिस्ट कोटा है?

6.6 Information Please give me a time table.

mujhe ṭāim ṭebal/samay sārṇī dījiye.

मुझे टाइम टेबल/समय सारणी दीजिये। Where is a time table available?

(where will a time table be found) **ṭāim ṭebal/samay sārṇī kahā milegā/milegī.**

टाइम टेबल/ समय सारणी कहाँ मिलेगा/मिलेगी?

Where is the bus terminus?

bas kā aḍḍā kahā hai?

बस का अड्डा कहाँ है?

Where is the train station?

ṣṭeśan kahā hai?

स्टेशन कहाँ है?



maī ṭikaṭ kanfarm karnā cāhtā/cāhtī hū.
मैं टिकट कन्फर्म करना चाहता/चाहती हूँ।

I want to confirm my ticket. (m/f)

maī ṭikaṭ kainsal karānā cāhtā/cāhtī hū.
मैं टिकट कैंसल कराना चाहता/चाहती हूँ।

I want to cancel my ticket. (m/f)

maī ... jānā cāhtā/cāhtī hū.
मैं ... जाना चाहता/चाहती हूँ।

I want to go to ... (m/f)

maī vahā sīdhe jānā cāhtā/cāhtī hū.
मैं वहाँ सीधे जाना चाहता/चाहती हूँ।

I want to go straight there. (m/f)

ek-tarafā ṭikaṭ kitne mē ātā hai?
एक-तरफ़ा टिकट कितने में आता है?

How much is a one-way ticket?

do-tarafā ṭikaṭ kitne mē ātā hai?
दो-तरफ़ा टिकट कितने में आता है?

How much is a return ticket?

kyā maī rāste mē ruk saktā/saktī hū?
क्या मैं रास्ते में रुक सकता/सकती हूँ?

Can I stop on route?
(in the middle) (m/f)

kyā mujhe zyādā paise dene hōge?
क्या मुझे ज़्यादा पैसे देने होंगे?

Will I have to pay extra
(more) money?

Is this an express train?

kyā yeh ekspres gārī hai?

क्या यह एक्सप्रेस गाड़ी है?

Will I have to change trains?

kyā mujhe gārī badalnī hogī?

क्या मुझे गाड़ी बदलनी होगी?

Does the boat stop anywhere else?

kyā nāv kahī aur ruktī hai?

क्या नाव कहीं और रुकती है?

Does this bus/train stop at...?

kyā yeh bas/tren ... par ruktī hai?

क्या यह बस/ट्रेन ... पर रुकती है?

Where do I have to get off?

mujhe kahā utarnā hogā?

मुझे कहाँ उतरना होगा?

How will I go from there?

vahā se maī kaise jāūgā/jāūgī?

वहाँ से मैं कैसे जाऊँगा/जाऊँगी?

How long will I have to wait (stop)?

mujhe kitnī der ruknā hogā?

मुझे कितनी देर रुकना होगा?

When will the ... leave? (m/f) ... **kab chūṭegā/chūṭegī?**

... कब छूटेगा/छूटेगी?

When is the first bus/train?

pehlī bas/tren kab hai?

पहली बस/ट्रेन कब है?

When is the last (final) bus/train?

ākhīrī bas/tren kab hai?

आखिरी बस/ट्रेन कब है?

How long does it take to get there?

jāne mē kitnī der lagtī hai?

जाने में कितनी देर लगती है?

What time does the flight/train/bas arrive?

uṛān/ṭren/bas kitne baje pahūctī hai?

उड़ान/ट्रेन/बस कितने बजे पहुँचती है?

From where does the train to ... depart?

... jānevālī ṭren kahā se chūṭtī hai?

... जानेवाली ट्रेन कहाँ से छूटती है?

6.7 Airports • The major airports in India are steadily being upgraded. The international airports in New Delhi and Mumbai, in particular, are world-class, having been renovated at the beginning of the twenty-first century. There are several modes of transport from the Delhi airport, but if you plan to catch a taxi, a safe, convenient and comfortable method is to go to the pre-paid taxi booth (operated by the Delhi Traffic Police) just outside the international terminal.

International antarrāṣṭriya अंतर्राष्ट्रीय	Arrivals (m) āgaman आगमन	Transfer (international/ domestic) (m) (antarrāṣṭriya/antardeśīya) sthānāntaraṇ (अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्देशीय) स्थानांतरण
Domestic antardeśīya अंतर्देशीय	Immigration (m) apravāsan अप्रवासन	No Smoking (smoking forbidden) dhūmrapān niṣedh धूम्रपान निषेध
Departures (m) prasthān प्रस्थान	Toilets (m) śaucālay शौचालय	

6.8 Trains • Indian Railways is owned and operated by the Indian Government. It is the largest employer in the country, and even has its own annual budget, which is separate from the budget for the other services controlled by the Central Government. It carries over twenty-five million passengers on the suburban and intercity networks on a daily basis. It is one of the most enjoyable ways to see the country, if you have

the time to travel by this means. There are many types of trains, some faster than others, and some for which a reservation is needed well in advance. The most comfortable and modern trains are the Shatabdis and Rajdhani. Shatabdi ('century') trains run between major cities and are not overnight trains, whereas Rajdhani ('capital') trains run overnight between Delhi and major provincial cities. For both of these trains, a reserved ticket is essential. Many main railway stations in major cities have a Foreign Tourist Booking Office where tourists traveling in India can book tickets on selected trains in a special tourist quota. There are two classes of booking, first class and second class.

6.9

Taxis



mujhe ... jānā hai.

मुझे ... जाना है।

I have to go to ...

mujhe ʔaiksī cāhiye.

मुझे टैक्सी चाहिये।

I need a taxi.

kyā āp ʔaiksī bulāēge/bulāēgī?

क्या आप टैक्सी बुलाएँगे/बुलाएँगी?

Will you call (summon) me a taxi? (m/f)

mīʔar lagāēge?

मीटर लगाएँगे?

Will you go by the meter?
(polite)

mīʔar lagāoge?

मीटर लगाओगे?

Will you go by the meter?
(m/f) (informal) (will you apply the meter)

mīʔar cālū kījiye.

मीटर चालू कीजिये।

Please start the meter.
(polite)

havāī aḍḍe jānā hai.

हवाई अड्डे जाना है।

I have to go to the airport.

I am late.

mujhe der ho gayī hai.

मुझे देर हो गयी है। I have to get there quickly.

mujhe jaldī pahūcnā hai.

मुझे जल्दी पहुँचना है। Please hurry. (polite) (please drive fast) **āp tez calāiye.**

आप तेज़ चलाइये। Hurry. (informal) **tez calāo.**

तेज़ चलाओ। Please go straight. (polite) **āp sīdhe caliye.**

आप सीधे चलिये। Go straight. (informal) **sīdhe calo.**

सीधे चलो। Please turn right. (polite) **dāhinī taraf moṛiye.**

दाहिनी तरफ़ मोड़िये। Turn right. (informal) **dāhinī taraf moṛo.**

दाहिनी तरफ़ मोड़ो। Please turn left. (polite) **bāyī taraf moṛiye.**

बायीं तरफ़ मोड़िये। Turn right. (informal) **bāyī taraf moṛo.**

बायीं तरफ़ मोड़ो। Please stop here. (polite) **yahā rukiye.**

यहाँ रुकिये। Stop here. (informal) **yahā ruko.**

यहाँ रुको। Please wait for five minutes. (polite) **pāc minaṭ rukiye.**

पाँच मिनट रुकिये। Wait for five minutes. (informal) **pāc minaṭ ruko.**

पाँच मिनट रुको।

Footnotes

* These sentences are conjugated for a masculine subject.

* These sentences are conjugated for a masculine subject.

7A Place to Stay

7.1 General 7.2 Hotels/guest houses 7.3 Complaints 7.4 Departure

7. A Place to Stay

7.1

General



āp kitne din rahēge/rahēgī? आप कितने दिन रहेंगे/रहेंगी?	How long will you stay? (m/f) (polite) (how many days)
fārm bhar dijiye. फॉर्म भर दीजिये।	Please fill in this form.
pāsporṭ dikhāiye. पासपोर्ट दिखाइये।	Please show your passport.
abhī bhugtān karnā hogā. अभी भुगतान करना होगा।	You will have to pay in advance. (you will have to pay right now)
ḍipāziṭ denā hogā. डिपॉज़िट देना होगा।	You will have to pay a deposit.

My name is ...

merā nām ... hai.

मेरा नाम ... है। I have a booking.

merī būking hai.

मेरी बुकिंग है। How much is the room?

kamrā kitne kā hai?

कमरा कितने का है?

What is the rate (rental) for one day?

ek din kā kirāyā kitnā hai?

एक दिन का किराया कितना है?

How many days can we stay?

ham kitne din thehar sakēge?

हम कितने दिन ठहर सकेंगे?

I don't know how many days I will stay. (m/f) **mujhe mālūm nahī ki kitne din thehrūgā/thehrūgī.**

मुझे मालूम नहीं कि कितने दिन ठहरूंगा/ठहरूंगी। Is there twenty-four hour hot water?

kyā caubīs ghañṭe garm pānī miltā hai?

क्या चौबीस घंटे गर्म पानी मिलता है?

7.2 Hotels/guest houses Is there a single room available?

singal kamrā milegā?

सिंगल कमरा मिलेगा?

Is there a double room available?

ḍabal kamrā milegā?

डबल कमरा मिलेगा?

How much is it per person?

ek ādmī ke rehne ke kitne paise lete hai?

एक आदमी के रहने के कितने पैसे लेते हैं?

Is food included?

kyā is mẽ khānā bhī sāmīl hai?

क्या इस में खाना भी शामिल है?

Is breakfast included?

kyā nāstā sāmīl hai?

क्या नाश्ता शामिल है?

Is lunch included?

kyā din kā khānā sāmīl hai?

क्या दिन का खाना शामिल है?

Is dinner included?

kyā rāt kā khānā śāmil hai?

क्या रात का खाना शामिल है?

We want adjoining rooms.

hamē agal-bagal vāle kamre cāhiye.

हमें अगल-बगल वाले कमरे चाहिये । Please give us a room with a bathroom.

bāthrūmvālā kamrā dījiye.

बाथरूम वाला कमरा दीजिये । Is there ... in the hotel?

hoṭal mē ... hai?

होटल में ... है?

Do you have room service?

kyā rūm sarvis hai?

क्या रूम सरविस है?

Please show me the room.

kamrā dikhāiye.

कमरा दिखाइये । Please take me to the room.

kamre mē le jāiye.

कमरे में ले जाइये । I will take this room. (m/f) **maī yeh kamrā lūḡā/lūḡī.**

मैं यह कमरा लूँगा/लूँगी । Please show me another room.

koī dūsrā kamrā dikhāiye.

कोई दूसरा कमरा दिखाइये । We don't like this room.

hamē yeh kamrā pasand nahī hai.

हमें यह कमरा पसंद नहीं है । I don't like this room.

mujhe yeh kamrā pasand nahī hai.

मुझे यह कमरा पसंद नहीं है । Do you have a cheaper room?

kyā is se sastā kamrā hai?

क्या इससे सस्ता कमरा है?

Do you have a more expensive room?

kyā is se mahēgā kamrā hai?

क्या इससे महँगा कमरा है?

Will you put in an extra bed?

kyā āp ek aur cārpāi lagāēge?

क्या आप एक और चारपाई लगाएँगे?

What time is breakfast?

nāstā kitne baje hotā hai?

नाश्ता कितने बजे होता है?

Where is the dining hall?

ḍāining hāl kahā hai?

डाइनिंग हॉल कहाँ है?

Can I eat breakfast in the room?

kyā maī nāstā kamre mē kar saktā/saktī hū?

क्या मैं नाश्ता कमरे में कर सकता/सकती हूँ?

Please give me my key.

cābi dījiye.

चाबी दीजिये। Please give me the key to room ...

... nambar kamre kī cābi dījiye.

... नम्बर कमरे की चाबी दीजिये। Please put this in the safe.

ise tijorī mē rakhiye.

इसे तिजोरी में रखिये। Please wake me at (5) A.M. (rouse me) **(pāc) baje**

subah mujhe uṭhāiye.

(पाँच) बजे सुबह मुझे उठाइये। Please give me another blanket.

ek aur kambal dījiye.

एक और कम्बल दीजिये। Please give me clean sheets.

sāf cādarē dījiye.

साफ़ चादरें दीजिये। What time is the room cleaned?

kamrā kitne baje sāf karte hai?

कमरा कितने बजे साफ़ करते हैं?

7.3 Complaints There is a lot of noise outside the room.

kamre ke bāhar bahut śorgul hai.

कमरे के बाहर बहुत शोरगुल है। Please turn down the T.V. (reduce the T.V.'s sound) ***ṭī. vī. kī āvāz kam kījiye.***

टी० वी० की आवाज़ कम कीजिये। Please make less noise ***śorghul kam kījiye.***

शोरगुल कम कीजिये। Please give (us) toilet paper.

tāyleṭ pepar dījiye.

टॉयलेट पेपर दीजिये। The toilet doesn't work properly.

tāyleṭ ṭhīk se kām nahī kartā.

टॉयलेट ठीक से काम नहीं करता। The water heater (geyser) is broken.

gīzar kharāb hai.

गीज़र ख़राब है। There is no hot water in the room.

kamre mẽ garm pānī nahī hai.

कमरे में गर्म पानी नहीं है। There is no soap in the room.

kamre mẽ sābun nahī hai.

कमरे में साबुन नहीं है। Please give us soap.

hamẽ sābun dījiye.

हमें साबुन दीजिये। The room is not clean.

kamrā sāf nahī hai.

कमरा साफ़ नहीं है। The room is very cold.

kamre mẽ bahut ṭhaṇḍ hai.

कमरे में बहुत ठंड है। The windows don't open.

khīrkiyā nahī khultī.

खिड़कियाँ नहीं खुलतीं। The bed is broken.

palang kharāb hai.

पलंग ख़राब है। There are many mosquitos in the room.

kamre mẽ bahut macchar hāī.

कमरे में बहुत मच्छर हैं। Please give me a mosquito net.

macchardānī dījiye.

मच्छरदानी दीजिये।

7.4 Departure I am leaving (going) tomorrow. (m) **maī kal jā rahā hū.**

मैं कल जा रहा हूँ। I am leaving (going) tomorrow. (f) **maī kal jā rahī hū.**

मैं कल जा रही हूँ। We are going tomorrow.

ham kal jā rahe hai.

हम कल जा रहे हैं। I want to pay the bill. (m/f) **maī bil cukānā cāhtā/cāhtī hū.**

मैं बिल चुकाना चाहता/चाहती हूँ। Can we check out late?

kyā ham der se cek āuṭ kar sakēge?

क्या हम देर से चेक आउट कर सकेंगे?

Can we vacate the room late?

kyā ham der se kamrā khālī kar sakēge?

क्या हम देर से कमरा खाली कर सकेंगे?

Please return my passport/deposit.

pāsport/dīpāzīt vāpas kījiye.

पासपोर्ट/डिपॉजिट वापस कीजिये। We are in a hurry.

hamē bahut jaldī hai.

हमें बहुत जल्दी है। Can we leave some luggage here (for two weeks)?

kyā ham (do hafte ke liye) kuch sāmān yahā chōṛ sakēge?

क्या हम (दो हफ़ते के लिये) कुछ सामान यहाँ छोड़ सकेंगे?

We will definitely return.

ham zarūr vāpas āēge.

हम ज़रूर वापस आएँगे। I will definitely return. (m/f) **maī zarūr vāpas āūgā/āūgī.**

मैं ज़रूर वापस आऊँगा/आऊँगी । I really enjoyed it here.

yahā̃ mujhe bahut acchā lagā.

यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ।

8 Money Matters 8.1 Banks 8.2 Settling the bill

8.3 Business terms

8. Money Matters • In general banks in India are open from 9 A.M. until 6 P.M., although customer service hours can be shorter than this. Often banks are also open on Saturdays, for reduced hours. Almost all of India's major banks now have numerous ATMs, and there is generally no difficulty withdrawing money from overseas accounts from these ATMs.

8.1 Banks Where is the bank?

baīnk kahā hai?

बैंक कहाँ है?

Is there an ATM close by?

kyā koī e. ṭī. em. nazdik hai?

क्या कोई ए० टी० एम० नज़दीक है?

Can I withdraw money on my credit card? (take money by credit card)

(m/f) ***kyā yahā kredīṭ kārd se paise nikāl saktā/saktī hū?***

क्या यहाँ क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकता/सकती हूँ?

How much money can I withdraw? (m/f) ***kitne paise nikāl saktā/saktī hū?***

कितने पैसे निकाल सकता/सकती हूँ। The machine swallowed my card. (became stuck) ***maśīn mẽ merā kārd phās gayā.***

मशीन में मेरा कार्ड फँस गया। I would like to change some money. (m/f)

maī paise badalnā cāhtā/cahtī hū.

मैं पैसे बदलना चाहता/चाहती हूँ। I have American dollars.

mere pās amrīkī ḍālar hāī.

मेरे

पास

अमरीकी

डॉलर

हैं।



yahā hastākṣar kijiye.

यहाँ हस्ताक्षर कीजिये।

Sign here, please.

yeh fārm bhar dijiye.

यह फॉर्म भर दीजिये।

Fill out this form, please.

pāsporṭ dikhāiye.

पासपोर्ट दिखाइये।

Please show me your passport.

kreḍiṭ kārd dikhāiye.

क्रेडिट कार्ड दिखाइये।

Please show me your credit card.

ḍebiṭ kārd dikhāiye.

डेबिट कार्ड दिखाइये।

Please show me your debit card.

āi. ḍī. kārd dikhāiye.

आई० डी० कार्ड दिखाइये।

Please show me your I.D. card.

8.2 Settling the bill

Could you put this on my bill.

mere bil mē joḍ dijiye.

मेरे बिल में जोड़ दीजिये। Should I give a tip?

kyā mujhe bakhśīs denī cāhiye?

क्या मुझे बख़शीश देनी चाहिये?

Can I pay by credit card? (m/f) **kyā maī kreḍiṭ kārd se bhugtān kar saktā/saktī hū?**

क्या मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकता/सकती हूँ?

Can I pay in U.S. dollars? (m/f) **kyā maī amrīkī ḍālar se bhugtān kar saktā/saktī hū?**

क्या मैं अमरीकी डॉलर से भुगतान कर सकता/सकती हूँ। You have given me too much money.

āpne mujhe zyādā paise diye hāi.

आपने मुझे ज़्यादा पैसे दिये हैं।

You haven't given me back enough money.

āpne mujhe kam paise diye hai.

आपने मुझे कम पैसे दिये हैं। Please re-check my account. (re attach my account) **hisāb phir se lagāiye.**

हिसाब फिर से लगाइये। Please give me a receipt.

rasīd dījiye.

रसीद दीजिये। I don't have enough money.

mere pās kāfī paise nahī hai.

मेरे पास काफ़ी पैसे नहीं हैं। Please take the money.

paise lijiye.

पैसे लीजिये। Please give me back the money.

paise vāpas kījiye.

पैसे वापस कीजिये।

8.3 Business terms I work online. (m/f) **maī ān-lāin kām kartā/kartī hū.**

मैं ऑन-लाइन काम करता/करती हूँ। I have experience. (to me experience is) **mujhe anubhav hai.**

मुझे अनुभव है। Is the manager here?

kyā prabandhak yahā par hai?

क्या प्रबंधक यहाँ पर हैं?

I would like to meet the owner of the company. (m/f) **maī kampanī ke mālik se milnā cāhtā/cāhtī hū.**

मैं कम्पनी के मालिक से मिलना चाहता/चाहती हूँ।

company (f) kampanī कम्पनी	owner of the company (m) kampanī ke mālik कम्पनी के मालिक	profession (m) peśā पेशा
businessman/person (m) vyāpārī व्यापारी	manager (m) prabandhak प्रबंधक	professional peśevar पेशेवर
importation (m) āyāt आयात	multinational corporation (f) bahurāṣṭrīya kampanī बहुराष्ट्रीय कम्पनी	specialist/expert (m) viśeṣagya विशेषज्ञ
exportation (m) niryāt निर्यात	C.V. (f) sī. vī. सी० वी०	certificate (m) pramān patra प्रमाण पत्र

contract (m) anubandh अनुबंध	job (f) naukrī नौकरी	training (m) praśikṣaṇ प्रशिक्षण
qualified dakṣ दक्ष	degree (f) upādhi उपाधि	salary (m) vetan वेतन
rate (f) dar दर	investment (m) niveś निवेश	exchange (m) vinimay विनिमय
exchange rate (f) vinimay dar विनिमय दर	payment (m) bhugtān भुगतान	advance (f) peśagī पेशगी
gratuity, tip (f) bakḥśīs बख्शिश	interview (m) iṅṭarvyū इंटरव्यू	office (m) kāryālay कार्यालय
application (f) arzī अर्ज़ी	promotion (f) padonnati पदोन्नति	employee (m) karmcārī कर्मचारी
account (m) khātā खाता	official (m) adhikārī अधिकारी	statement (m) bayān बयान

9 Mail, Phone and Internet 9.1 Mail 9.2

Telephone 9.3 Internet/email

9. Mail, Phone and Internet

9.1

Mail

stamps (m/f)

tikaṭ

टिकट

parcel (m)

pārsal

पार्सल

telegram (m)

tār

तार

money order (m)

manī ārḍar

मनी ऑर्डर

Where is...?

... *kahā̃ hai?*

... कहाँ है?

–the nearest post office *sab se nazdik ḍāk khānā*

सब से नज़दीक डाकख़ाना –the main post office *jī. pī. o.*

जी० पी० ओ०



mujhe kis khiṛkī par jānā cāhiye?

मुझे किस खिड़की पर जाना चाहिये?

To which counter (window) should I go?

ciṭṭhī kahā dālū?
चिट्ठी कहाँ डालूँ?

Where may I post a letter?

ṭikaṭ kahā kharīd sakūgā/sakūgī?
टिकट कहाँ खरीद सकूँगा/सकूँगी?

Where can I buy stamps? (m/f)

pārsal lene kahā jānā cāhiye?
पार्सल लेने कहाँ जाना चाहिये?

Where should I pick up a parcel?

yahā pārsal kahā banvā sakte hai?

यहाँ पार्सल कहाँ बनवा सकते हैं?

Where can I have a parcel wrapped?



... bhejne mē kitne paise lagēge? How much to send this ... भेजने में कितने पैसे लगेंगे? to ...?

kyā is mē kāfī ṭikaṭ lage hai? Are there enough stamps on this? क्या इसमें काफी टिकट लगे हैं?

I would like to buy some stamps. (m/f) **maī kuch ṭikaṭ kharīdnā cāhtā/cāhtī hū.**

मैं कुछ टिकट खरीदना चाहता/चाहती हूँ। I want to send this ... (m/f) **maī yeh ... bhejnā cāhtā/cāhtī hū.**

मैं यह ... भेजना चाहता/चाहती हूँ। by express post **ekspres post se** एक्सप्रेस पोस्ट से by air mail **havāi dāk se** हवाई डाक से by registered post **rajistarḍ post se** रजिस्टर्ड पोस्ट से

9.2 Telephone Is there a public call office around here?

kyā yahā ke āspās pī. sī. o. hai?

क्या यहाँ के आसपास पी० सी० ओ० है?

May I make a call?

kyā maī ek fon karū?

क्या मैं एक फ़ोन करूँ?

Where can I get a mobile phone?

mobāil fon kahā milegā?

मोबाइल फ़ोन कहाँ मिलेगा?

What's the area code for...?

... kā koḍ kyā hai?

... का कोड क्या है?

What's the international access code?

antarrāṣṭrīya fon karne ke liye kyā nambar lagāte hai?

अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन करने के लिये क्या नम्बर लगाते हैं?

Is this number correct?

kyā yeh nambar ṭhīk hai?

क्या यह नम्बर ठीक है?

Should I dial '0' (zero) first?

kyā pehle 'śūnya' milānā cāhiye?

क्या पहले 'शून्य' मिलाना चाहिये?

Have there been any phone calls for me? (did any call come for me) **mere**

liye koī fon āyā?

मेरे लिये कोई फ़ोन आया?

What is the charge per minute? (every minute how many paise attach) **har**

mināṭ ke kitne paise lagte hai?

हर मिनट के कितने पैसे लगते हैं?

mobile phone (m) mobāil fon मोबाइल फ़ोन	battery (m) sel सेल	phone card (m) fon kārd फ़ोन कार्ड
charger (m) cārjar चार्रर	sim card (m) sim kārd सिम कार्ड	public phone (m) pī. sī. o. पी० सी० ओ०

The

conversation



namaste, maī ... bol rahā hū. नमस्ते, मैं ... बोल रहा हूँ।	Hello, this is... (speaking) (m)
namaste, maī ... bol rahī hū. नमस्ते, मैं ... बोल रही हूँ।	Hello, this is... (speaking) (f)
āp kaun bol rahe hai? आप कौन बोल रहे हैं?	Who is speaking? (m) (who are you speaking)
āp kaun bol rahī hai? आप कौन बोल रही हैं?	Who is speaking? (f)
kyā maī ... se bāt karū? क्या मैं ... से बात करूँ?	May I talk to (with)
māf kījiye, mainne ghalat nambar milāyā. माफ़ कीजिये, मैंने ग़लत नम्बर मिलाया।	Sorry, I have dialed the wrong number.

Do you speak English? (does English come to you) **kyā āpko angrezī ātī hai?**
क्या आपको अंग्रेज़ी आती है?

Please speak in English.

angrezī mẽ boliye.

अंग्रेज़ी में बोलिये। Please take down my number. (please note my number)

merā nambar not kījiye.

मेरा नम्बर नोट कीजिये। My number is ...

merā nambar ...hai.

मेरा नम्बर ... है। Please tell him/her I called.

unhẽ batāiye ki maĩne fon kiyā.

उन्हें बताइये कि मैंने फ़ोन किया। I will call again tomorrow. (m/f) **kal maĩ dubārā fon karūgā/karūgī.**

कल मैं दुबारा फ़ोन करूँगा/करूँगी। There is a phone call for you. (your phone is) **āpkā fon hai.**

आपका फ़ोन है। You have to dial '0' first.

pehle 'śūnya' milāiye.

पहले 'शून्य' मिलाइये। One moment, please.

ek minat hold kijiye.

एक मिनट होल्ड कीजिये। There's no answer.

koĩ nahī uṭhā rahā hai.

कोई नहीं उठा रहा है। The line is busy.

lāin bizī hai.

लाइन बिज़ी है। Do you want to wait? (m/f) **āp ruknā cāhte/cāhtī hai?**

आप रुकना चाहते/चाहती हैं?

You have dialed the wrong number.

āpne ghalat nambar milāyā.

आपने ग़लत नम्बर मिलाया। He/she is not here right now. (polite) **abhī vo yahā nahī hai.**

अभी वे यहाँ नहीं हैं।

9.3 Internet/email What is your email address? (polite) **āpkā ī-mel kā patā kyā hai?**

आपका ई-मेल का पता क्या है?

Do you use ...? (m/f) (polite) **kyā āp ... kā istemāl karte/kartī hai?**

क्या आप ... का इस्तेमाल करते/करती हैं?

May I use your computer? (m/f) **kyā maĩ āpke kamyūṭar kā istemāl kar saktā/saktī hū?**

क्या मैं आपके कम्प्यूटर का इस्तेमाल कर सकता/सकती हूँ?

I sent you an email.

maīne āpko ī-mel bhejī.

मैंने आपको ई-मेल भेजी। I am online.

maī ān-lāin hū.

मैं ऑन-लाइन हूँ। The connection was lost.

kanekśan kaṭ gayā.

कनेक्शन कट गया। The speed of the Internet is slow.

inṭarneṭ kī gati dhīmī hai.

इंटरनेट

की

गति

धीमी

है।

Internet (m) inṭarneṭ/indrajāl इंटरनेट/इंद्रजाल	computer (m) kampyūṭar कम्प्यूटर	laptop (m) laiptāp लैपटॉप
email (f) ī-mel ई-मेल	virus (m) vāiras वाइरस	web browser (m) veb brāuzar वेब ब्राउज़र
download (m) ḍāūnloḍ डाउनलोड	Facebook (m) fesbuk फ़ेसबुक	Twitter (m) ṭviṭar ट्विटर
install inṣṭāl karnā इंस्टाल करना	scanner (m) skainar स्कैनर	search talāś karnā तलाश करना
printer (m) priṅṭar प्रिंटर	Internet café inṭarneṭ kaife इंटरनेट कैफ़े	spam spaim स्पैम
chat caiṭiṅ karnā चैटिंग करना		

10 Shopping 10.1 Shopping conversations 10.2 Food 10.3 Clothing and shoes 10.4 Cameras 10.5 At the hairdresser

10. Shopping • Shops in most large cities open at 10 A.M. in the morning and stay open until after 6 P.M. in the evening. In most markets shops remain closed on Sundays. Until recently, particular markets would remain closed on different days, and not necessarily on Sundays. These days, however, if shops are closed on any day of the week, it is likely to be Sundays.

grocery store (f) parcūn kī dukān परचून की दुकान	household goods (m) ghar kā sāmān घर का सामान	electronic shop (f) bijlī kī dukān बिजली की दुकान
barber (m) nāī नाई	fruit and vegetable shop (f) phal aur sabzī kī dukān	watches and clocks (m) (watch repairer) gharīsāz घड़ीसाज़
bookstore (f) kitāb kī dukān किताब की दुकान	फल और सब्ज़ी की दुकान	optician (f) caśme kī dukān चश्मे की दुकान
butcher's shop (f) kasāī kī dukān कसाई की दुकान	car and motorcyle repairs (garage) (m) gairāj गैराज	sports store (f) khelkūd ke sāmān kī dukān
cobbler (m) močī मोची	supermarket (m) suparmārket सुपरमार्केट	खेलकूद के सामान की दुकान
market (m) bāzār बाज़ार	beauty salon (m) sailān सैलॉन	mobile phone shop (f) mobāil fon kī dukān मोबाइल फ़ोन की दुकान
pharmacy (m) davākhānā दवाख़ाना	tobacconist (pan shop) (f) pān kī dukān पान की दुकान	fish shop (f) machlī kī dukān मछली की दुकान
cloth shop (f) kapre kī dukān कपड़े की दुकान	jeweler (f) zevrāt kī dukān ज़ेवरात की दुकान	sweet shop (f) mīṭhāī kī dukān मिठाई की दुकान
tailor (m) darzī दर्ज़ी		

10.1 Shopping conversations Where is a ... available? (m/f)

... **kahā̃ milegā/milegī?**

... कहाँ मिलेगा/मिलेगी?

At what time does this shop open?

yeh dukān kitne baje khultī hai?

यह दुकान कितने बजे खुलती है?

I need/want a ...

mujhe ... cāhiye.

मुझे ... चाहिये । Will you reduce the price?

kyā āp dām kam kar dēge?

क्या आप दाम कम कर देंगे?

Will I get a discount?

kyā mujhe chūt/riyāyat milegī?

क्या मुझे बूट/रियायत मिलेगी?

I will not pay (give) so much. (m/f) **maī itnā nahī dūgā/dūgī.**

मैं इतना नहीं दूँगा/दूँगी । Will you show me some shawls? (m) (polite) **kyā**

āp mujhe kuch śāl dikhāēge?

क्या आप मुझे कुछ शॉल दिखाएँगे?

Will you show me some shirts? (m) **kyā āp mujhe kuch kamīzē dikhāēge?**

क्या आप मुझे कुछ कमीज़ें दिखाएँगे?

Does tax also apply?

kyā śulk bhī lagtā hai?

क्या शुल्क भी लगता है?

I don't want this.

mujhe yeh nahī cāhiye.

मुझे यह नहीं चाहिये । This is too expensive.

yeh bahut zyādā mahēgā hai.

यह बहुत ज़्यादा महँगा है ।

I will take this. (m/f) **maī yeh lūgā/lūgī.**

मैं यह लूँगा/लूँगी । I will look in one or two more shops. (m/f) **maī ek-do aur**

dukānō mē dekhūgā/dekhūgī.

मैं एक-दो और दुकानों में देखूँगा/ देखूँगी । I will come again. (m/f) **maī phir ā**

ūgā/āūgī.

मैं फिर आऊँगा/आऊँगी । What is the price of this?

is kā dām kyā hai?

इसका दाम क्या है?

How much is this? (m/f) (of how many) **yeh kitne kā/kī hai?**

यह कितने का/की है?

Please give me two of these.

is ke do dījiye.

इसके दो दीजिये। I can't pay this much. (m/f) **maī itnā nahī de saktā/saktī.**

मैं इतना नहीं दे सकता/सकती। Please put it in a bag for me.

thailī mẽ ḍāliye.

थैली में डालिये। We don't have this.

hamāre pās yeh nahī hai.

हमारे पास यह नहीं है। You will get it tomorrow. (m/f) (it be found/available tomorrow) **kal milegā/milegī.**

कल

मिलेगा/मिलेगी।



paise udhar dījiye.

पैसे उधार दीजिये।

Please pay over there.

ham kārd se paise nahī lete.

हम कार्ड से पैसे नहीं लेते।

We don't accept credit cards.

10.2 Food Please give me (100 gm) of this.

is ke (sau grām) dījiye.

इसके सौ ग्राम दीजिये। Please put it in a bag for me.

thailī mẽ ḍāliye.

थैली में डालिये। Please give me an assortment (mixed).

mile-jule dījiye.

मिले-जुले दीजिये। Please give me (five) pieces.

(pāc) ṭukre dījiye.

(पाँच) टुकड़े दीजिये । What is in this?

is mẽ kyā hai?

इस में क्या है?

What is in that?

us mẽ kyā hai?

उस में क्या है?

Is this sweet?

kyā yeh mīṭhā hai?

क्या यह मीठा है?

Is this salty/savory?

kyā yeh namkīn hai?

क्या यह नमकीन है?

Is this bitter?

kyā yeh karvā hai?

क्या यह कड़वा है?

Is this sour?

kyā yeh khaṭṭā hai?

क्या यह खट्टा है?

10.3

Clothing

and

shoes

shoe/shoes (m) jūtā/jūte जूता/जूते	salwar (type of pant) (f) salvār सलवार	scarf (m) dupaṭṭā दुपट्टा
cloth/clothes (m) kapṛā/kapṛe कपड़ा/कपड़े	pyjama (m) (type of pant) paijāmā पैजामा	raincoat (f) barsātī बरसाती
shirt/shirts (f) kamīz/kamīzē कमीज़/कमीज़ें	sari/saris (f) sārī/sāriyā साड़ी/साड़ियाँ	handkerchief (m) rūmāl रूमाल
shirt/shirts (m) kurtā/kurte कुर्ता/कुर्ते	suit (m) sūṭ सूट	blue nīlā नीला
pants (f) paīṭ पैट	shawl (m) śāl शाल	red lāl लाल
socks (m, pl) moze मोज़े	sandals (f) cappal चप्पल	yellow pīlā पीला

orange nārangī नारंगी	dark color (m) gehrā rang गहरा रंग	leather (m)/leather (adj) camṛā/camṛe kā चमड़ा/चमड़े का
black kālā काला	shiny camkīlā चमकीला	synthetic (adj) banāvāṭī बनावटी
purple baiganī बैगनी	golden sunharā सुनहरा	wool (m)/woollen (adj) ūn/ūnī ऊन/ऊनी
white safed सफ़ेद	durable ṭikāū टिकाऊ	wood (f)/wooden (adj) lakṛī/lakṛī kā लकड़ी/लकड़ी का
grey sleṭī स्लेटी	dirt-absorbing (doesn't show the dirt) mailkhor मैलखोर	real asī असली
green harā हरा	silk (m)/silk (adj) reśam/reśmī रेशम/रेशमी	fake naqlī नकली
brown bhūrā भूरा	cotton (f)/cotton (adj) ruī/sūṭī रुई/सूती	
pink gulābī गुलाबी	home-spun cotton (f) khādī खादी	

I would like to see some shirts. (m/f) **maī kuch kamizē dekhnā cāhtā/cāhtī h**
ū.

मैं कुछ कमीज़ें देखना चाहता/चाहती हूँ। We would like to buy some clothes.
ham kuch kapṛe kharīdnā cāhte hai.

हम कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं। Do you have a bigger size than this? (m/f)
kyā āp ke pās is se barā/barī hai?

क्या आप के पास इससे बड़ा/बड़ी है?

Do you have a smaller size than this? (m/f) **kyā āp ke pās is se choṭā/choṭī**

hai?

क्या आप के पास इससे छोटा/छोटी है?

Is this genuine?

kyā yeh aslī hai?

क्या यह असली है?

This appears fake.

yeh naqlī dikhtā hai.

यह नकली दिखता है। Please show me some shawls.

kuch sāl dikhāiye.

कुछ

शॉल

दिखाइये।

hand wash (wash by hand)

hāth se dhonā

हाथ से धोना

machine wash

masīn mē dhonā

मशीन में धोना

At the cobbler Will you mend (fix) these shoes? (m) (polite) **yeh jūte āp ṭhīk kar dēge?**

ये जूते आप ठीक कर देंगे?

Will you mend (fix) these shoes? (m) (informal) **yeh jūte tum ṭhīk kar doge?**

ये जूते तुम ठीक कर दोगे?

Will you put a new sole (on them)? (m) (polite) (will you attach a new sole) **āp nayā talā lagā dēge?**

आप नया तला लगा देंगे?

Will you put a new sole (on them)? (m) (informal) **tum nayā talā lagā doge?**

तुम नया तला लगा दोगे?

When should I come?

maī kab āū?

मैं कब आऊँ?

How long will it take to fix them?

ṭhīk karne mē kitnā samay lagegā?

ठीक करने में कितना समय लगेगा?

Please polish (them). (polite) **camkā dījiye.**

चमका दीजिये। Polish (them). (informal) **camkā do.**

चमका दो। Please put in new shoe laces. (polite) **naye fite lagā dījiye.**

नये फ़ीते लगा दीजिये। Put in new shoe laces. (informal) **naye fite lagā do.**

नये फ़ीते लगा दो। How much (money) shall I give you?

kitne paise dū?

कितने पैसे दूँ?

10.4

Cameras



kyā āp ke pās memrī kārd hāi?
क्या आपके पास मेमरी कार्ड हैं?

Do you have memory cards?

kyā āp sel becte hāi?
क्या आप सेल बेचते हैं?

Do you sell batteries?

kyā āp merā kaimrā ṭhīk kar sakēge/sakēgi?

Can you fix my camera? (m/f)

क्या आप मेरा कैमरा ठीक कर सकेंगे/सकेंगी?

It fell.

yeh gir gayā.

यह गिर गया। It broke.

yeh ṭūṭ gayā.

यह टूट गया। This button doesn't work.

yeh baṭan kām nahī kar rahā hai.

यह बटन काम नहीं कर रहा है। The flash doesn't work.

flaiś kām nahī kar rahī hai.

फ़्लैश काम नहीं कर रही है।

10.5 At the hairdresser Do I need an appointment? (is it necessary to take an appointment) *kyā apāiñmeñ lenā zarūrī hai?*

क्या अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है?

Please cut my hair. (polite) *mere bāl kāṭiye* मेरे बाल काटिये। Cut my hair.

(informal) *mere bāl kāṭo* मेरे बाल काटो। Please cut my hair short. (polite) *choṭe bāl kāṭiye.*

छोटे बाल काटिये। Cut my hair short. (informal) *choṭe bāl kāṭo.*

छोटे बाल काटो। Please wash my hair. (polite) *mere bāl dhoiye.*

मेरे बाल धोइये। Please wash my hair. (informal) *mere bāl dhoo.*

मेरे बाल धोओ। Please color my hair. (polite) *bālō mē rang lagā dījiye.*

बालों में रंग लगा दीजिये। Color my hair. (informal) *bālō mē rang lagā do.*

बालों में रंग लगा दो। Please shave my beard. (polite) *dārhi banāiye.*

दाढ़ी बनाइये। Shave my beard. (informal) *dārhi banāo.*

दाढ़ी बनाओ। Please shave my moustache. (polite) *mūchē banāiye.*

मूँछें बनाइये। Shave my moustache. (informal) *mūchē banāo.*

मूँछें बनाओ। Please give (me) a massage. (polite) *māliś kar dījiye.*

मालिश कर दीजिये। Give (me) a massage. (informal) *māliś kar do.*

मालिश कर दो। Please (don't) use oil. (polite) *tel kā istemāl (mat) kījiye.*

तेल का इस्तेमाल (मत) कीजिये। Please (don't) use oil. (informal) *tel kā istemāl (mat) karo.*

तेल का इस्तेमाल (मत) करो।

11 Tourist Activities 11.1 Places of interest 11.2

Going out 11.3 Booking tickets

11. Tourist Activities

11.1 Places of interest • There are many places of religious, historical, and cultural interest throughout India. In large cities like New Delhi, there will be a tourist office where you can obtain information. There is also often a tourist reservation office at major railway stations, and a tourist quota on select trains.

Do you know where the tourist office is?

kyā āpko mālūm hai ki tūrīst āfis kahā hai?

क्या आपको मालूम है कि टूरिस्ट ऑफिस कहाँ है?

Can I get a map of the city? (is a map available/found) *kyā śehar kā naqśā milegā?*

क्या शहर का नक्शा मिलेगा?

Where is the (Red Fort)?

(lāl qilā) kahā hai?

(लाल क़िला) कहाँ है?

What is worth seeing in ... ?

... mē kyā dekhne lāyaq hai?

... में क्या देखने लायक है?

What's the easiest way to get to ...?

... jāne kā sab se āsān rāstā kyā hai?

... जाने का सब से आसान रास्ता क्या है?

Do you have some information about...? (will some information be

available) ... **kī kuch jānkārī milegī?**

...की कुछ जानकारी मिलेगी?

Will you show me on the map? (m/f) **kyā āp naqše mē dikhāēge/dikhāēgī?**

क्या आप नक्शे में दिखाएँगे/
दिखाएँगी?

What are the most important historical sites here?

yahā sab se aham aitihāsik sthān kyā hai?

यहाँ सब से अहम ऐतिहासिक स्थान क्या हैं?

What are the most important religious sites here?

yahā sab se aham dhārmik sthal kyā hai?

यहाँ सब से अहम धार्मिक स्थल क्या हैं?

Are these Hindu temples?

kyā ye hinduō ke mandir hai?

क्या ये हिन्दुओं के मंदिर हैं?

Are these Buddhist temples?

kyā ye bauddh mandir hai?

क्या ये बौद्ध मंदिर हैं?

Where is the museum?

sangrahālay kahā hai?

संग्रहालय कहाँ है?

What should I see here?

yahā kyā dekhū?

यहाँ क्या देखूँ?

What should we see here?

yahā kyā dekhē?

यहाँ क्या देखें?

We will stay here for one day.

ham yahā̃ ek din rukēge.

हम यहाँ एक दिन रुकेंगे। We will stay here for three days.

ham yahā̃ tīn din rukēge.

हम यहाँ तीन दिन रुकेंगे। We will stay here for one week.

ham yahā̃ ek hafte rukēge.

हम यहाँ एक हफ़ते रुकेंगे।

We will stay here for two weeks.

ham yahā̃ do hafte rukēge.

हम यहाँ दो हफ़ते रुकेंगे।

fort (m) qilā क़िला	temple (m) mandir मंदिर	gurudwara (m) gurudwārā गुरुद्वारा
mosque (f) masjid मस्जिद	church (m) kalīsā/girjā कलीसा/गिरजा	Jain temple (m) jain mandir जैन मंदिर
park (m) pārk पार्क	new city (m) nayā śehar नया शहर	ocean (m) samudra समुद्र
garden (m) baghīcā बगीचा	old city (m) purānā śehar पुराना शहर	metro station (m) meṭro sṭeśan मेट्रो स्टेशन
museum (m) sangrahālay संग्रहालय	cinema hall (m) sinemāhāl सिनेमाहाल	mausoleum (m) maqbarā मक़बरा
statue (f) mūrti मूर्ति	pond (m) tālāb तालाब	graveyard (m) qabristān क़ब्रिस्तान

How long does it take to get there?

jāne mẽ kitnī der lagtī hai?

जाने में कितनी देर लगती है। Where do we catch it?

ise kahā̃ se pakarte hai?

इसे कहाँ से पकड़ते हैं?

Can we take a city tour?

siṭī ṭūr par jā sakte hai?

सिटी टूर पर जा सकते हैं?

From where does the bus depart?

bas kahā se jāti hai?

बस कहाँ से जाती है?

Can we hire a guide? (will a guide be found) **kyā gāiḍ milegā?**

क्या गाइड मिलेगा?

How much should we pay him/her?

use kitne paise dene cāhiye?

उसे कितने पैसे देने चाहिये?

Can we go on a tour there?

kyā vahā ham ṭūr par jā sakēge?

क्या वहाँ हम टूर पर जा सकेंगे?

For how many days should we stay there?

ham vahā kitne din rehē?

हम वहाँ कितने दिन रहें?

Can we go for a stroll?

ham ṭhalne ke liye jā sakēge?

हम टहलने के लिये जा सकेंगे?

When does it open? (m/f) **voh kitne baje khultā/khulti hai?**

वह कितने बजे खुलता/खुलती है?

What time does it close? (m/f) **voh kitne baje band hotā/hotī hai?**

वह कितने बजे बंद होता/होती है?

Does it open seven days a week? (m/f) **kyā yeh hafte mẽ sāt din khultā/khulti hai?**

क्या यह हफ़्ते में सात दिन
खुलता/खुलती है?

Do seniors get a discount?
kyā buzurgō ko chūṭ miltī hai?
क्या बुज़ुर्गों को छूट मिलती है?

What is the admission price?
andar jāne kā ṭikaṭ kitne kā hai?
अंदर जाने का टिकट कितने का है?

May I take photos here?
kyā maī yahāñ tasvīr khīc saktā/saktī hūñ?
क्या मैं यहाँ तस्वीर खींच सकता/सकती हूँ?

Do you have postcards?
kyā āpke pās postkārḍ hai?
क्या आप के पास पोस्टकार्ड हैं?

Do you have a brochure?
kyā āpke pās brośar hai?
क्या आप के पास ब्रोशर है?

11.2 Going out • **Going out** in India depends very much on the city you are visiting. Larger cities have a lot of attractions, including cultural shows, movies, live theater, cultural and historical sites, festivals and many restaurants with a tremendous variety of cuisine. In cities like Bombay and Delhi, there is always something going on, and several guides to the week's events, including the very popular *Delhi Diary*, *TimeOut Delhi* and *TimeOut Bombay* (the latter two are also online guides) in Delhi, are available.

Do you have a copy of ...?
kyā āp ke pās ... kī kāpī hai?
क्या आपके पास ... की कॉपी है?

Is there anything on this evening?

kyā āj śām ko kuch honevālā hai?

क्या आज शाम को कुछ होनेवाला है?

We want to see

ham ... dekhnā cāhte hai.

हम ... देखना चाहते हैं। What is on at the cinema?

sinemāhāl mẽ kyā lagā hai?

सिनेमाहाल में क्या लगा है?

Is this a good movie?

kyā yeh acchī film hai?

क्या यह अच्छी फ़िल्म है?

What times are the shows?

śo kitne baje hote hai?

शो कितने बजे होते हैं?

Is there a (6 o'clock) show?

kyā (chai baje) kā śo hai?

क्या (छै बजे का) शो है?

Is there a (9 o'clock) show?

kyā (nau baje) kā śo hai?

क्या (नौ बजे का) शो है?

What is the best restaurant here?

yahā sab se acchā restrā kaunsā hai?

यहाँ सब से अच्छा रेस्त्राँ कौनसा है?

Is this an expensive restaurant?

kyā yeh bahut mahēgā restrā hai?

क्या यह बहुत महँगा रेस्त्राँ है?

What sort of cuisine is it? (what sort of food is available) **kaisā khānā miltā hai?**

कैसा खाना मिलता है?

Should we wear good clothes? (having worn good clothes go) **kyā acche kapre pehan kar jānā cāhiye?**

क्या अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिये?

Is there a cricket match on? (happening) **kyā kriket kā maic ho rahā hai?**

क्या क्रिकेट का मैच हो रहा है?

Who is playing?

kaun khel rahā hai?

कौन खेल रहा है?

Are tickets available?

kyā ṭikaṭ milēge?

क्या टिकट मिलेंगे?

11.3 Booking tickets Where is the booking office?

buking āfis kahā hai?

बुकिंग ऑफिस कहाँ है?

How much are the tickets?

ṭikaṭ kitne ke hai?

टिकट कितने के हैं?

Should we buy the tickets now?

kyā abhī ṭikaṭ kharīdne cāhiye?

क्या अभी टिकट खरीदने चाहिये?

Can I have tickets in the balcony? (are balcony tickets available) **bālkani ke ṭikaṭ milēge?**

बालकनी के टिकट मिलेंगे?

12 Sports Activities 12.1 Sporting questions

12.2 By the waterfront

12. Sports Activities

12.1 Sporting questions Where can we hire a ...? (m/f) ... *kirāye par kahā milegā/milegī?*

... किराये पर कहाँ मिलेगा/मिलेगी?

Is there any sports store here?

kyā yahā khel-kūd ke sāmān kī dukān hai?

क्या यहाँ खेल-कूद के सामान की दुकान है?

Is there anywhere to play cricket? (a place somewhere to play cricket) *kyā kahī kriket khelne kī jagah hai?*

क्या कहीं क्रिकेट खेलने की जगह है?

Is there a pool anywhere around here?

kyā yahā ke āspās pūl hai?

क्या यहाँ के आसपास पूल है?

Do I have to become a member? (is it necessary to become a member) *kyā membar bannā zarūrī hai?*

क्या मेम्बर बनना ज़रूरी है?

How much is this?

yeh kitne kā hai?

यह कितने का है?

Do I need a permit?

kyā mujhe parmit cāhiye?

क्या मुझे परमिट चाहिये?

Where is a permit available?

parmiṭ kahā milegā?

परमिट कहाँ मिलेगा?

12.2 By the waterfront Can I swim in this water?

kyā is pānī mē māi tair saktā/saktī hū?

क्या इस पानी में मैं तैर सकता/सकती हूँ?

Is there a swimming pool around here?

kyā yahā ke āspās pūl hai?

क्या यहाँ के आसपास पूल है?

Is the water clean?

kyā pānī sāf hai?

क्या पानी साफ़ है?

13 Health Matters 13.1 Calling a doctor 13.2

What's wrong?

13.3 The consultation 13.4 Medications and prescriptions

13. Health Matters

13.1 Calling a doctor • If you become ill or need emergency treatment, it is best to go straight to a doctor, or to the nearest hospital. The quality of hospitals can vary in both large cities and smaller centers. It is best to find out in advance which hospitals are highly regarded by local residents.

I am sick.

maī bīmār hū̃.

मैं बीमार हूँ। I need a doctor. (the necessity of a doctor) *mujhe ḍākṭar kī zarūrat hai.*

मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है?

Please call/summon a doctor.

ḍākṭar ko bulāiye.

डॉक्टर को बुलाइये। I need to go to hospital.

mujhe aspatāl jānā cāhiye.

मुझे अस्पताल जाना चाहिये। When will the doctor come?

ḍākṭar kab āegā?

डॉक्टर कब आएगा?

I need to see a doctor. (I have to show a doctor) *ḍākṭar ko dikhānā hai.*

डॉक्टर को दिखाना है। Do I need an appointment?

kyā apāiṅṅment cāhiye?

क्या अपॉइंटमेंट चाहिये?

I feel very sick. (m/f) **maī bahut bīmār ho gayā/gayī hū̃.**

मैं बहुत बीमार हो गया/गयी हूँ। Please take me to the hospital. (polite)
mujhe aspatāl le jāiye.

मुझे अस्पताल ले जाइये।

13.2 What's wrong?

I don't feel well. (my health is not okay) **merī tabiyat ṭhīk nahī hai.**

मेरी तबियत ठीक नहीं है। My friend is sick. (m/f) **mere/merī dost kī tabiyat ṭhīk nahī hai.**

मेरे/मेरी दोस्त की तबियत ठीक नहीं है। I am dizzy.

cakkar ā rahā hai.

चक्कर आ रहा है। I feel like vomiting.

ulṭī hone kā ehsās ho rahā hai.

उल्टी होने का एहसास हो रहा है। I was vomiting.

ulṭī ho rahī thī.

उल्टी हो रही थी। I have a cold.

zūkām hai.

ज़ुकाम है। I have pain right here.

yahī dard hai.

यहीं दर्द है। I have a stomach ache. (there is pain in the stomach) **peṭ mē dard hai.**

पेट में दर्द है। I have a fever.

bukhār hai.

बुखार है। I was bitten by a dog.

ek kutte ne mujhe kāṭā.

एक कुत्ते ने मुझे काटा। I was bitten by a monkey.

ek bandar ne mujhe kāṭā.

एक बंदर ने मुझे काटा। I have a headache.

sardard hai.

सरदर्द है । I fell over. (m/f) **maī gir gayā/gayī.**

मैं गिर गया/गयी । I sprained my (ankle).

(ṭakhne mē) moc ā gayī.

(टखने में) मोच आ गयी । I burned my skin.

merī khāl jal gayī.

मेरी खाल जल गयी । Perhaps I am pregnant.

śāyad maī garbhvatī hū.

शायद मैं गर्भवती हूँ ।

13.3

The

consultation



kyā huā?

क्या हुआ?

What happened?

kyā ho rahā hai?

क्या हो रहा है?

What is happening?

yeh dard kab se ho rahā hai?

यह दर्द कब से हो रहा है?

How long have you had this pain?

yeh kabhī pehle huā hai?

यह कभी पहले हुआ है?

Has this happened before?

kamīz utāriye.

कमीज़ उतारिये ।

Please take off your shirt.

yahā leṭiye.

यहाँ लेटिये ।

Please lie down here.

kyā yahā dard hai?

क्या यहाँ दर्द है?

Is there pain here?

gehrī sāś lijiye.

गहरी साँस लीजिये ।

Take a deep breath.

sāś chorīye.

साँस छोड़िये ।

Breathe out.

mūh kholiye.

मुँह खोलिये ।

Open your mouth.

Patient's medical history I have diabetes.

madhumeḥ kī bīmārī hai.

मधुमेह की बीमारी है । I have a heart condition.

dīl kī bīmārī hai.

दिल की बीमारी है । I have asthma.

damā hai.

दमा है । I am allergic to....

... kī elarjī hai.

... की एलर्जी है । I am pregnant.

maī garbhvatī hū.

मैं गर्भवती हूँ । I am pregnant. (I am about to become a mother) **maī mā**

bannevālī hū.

मैं माँ बननेवाली हूँ । I am (six months) pregnant.

merā (chai mahīne) kā garbh hai.

मेरा (छै महीने) का गर्भ है । I am on a diet. (m) **maī ḍāiṭing kar rahā hū.**

मैं डाइटिंग कर रहा हूँ । I am on a diet. (f) **maī ḍāiṭing kar rahī hū.**

मैं डाइटिंग कर रही हूँ । I am taking medication/medicine. (m) **maī davā khā rahā hū.**

मैं दवा खा रहा हूँ । I am taking medication/medicine. (f) **maī davā khā rahī hū.**

मैं दवा खा रही हूँ । This is my medication/medicine.

yeh merī davā hai.

यह मेरी दवा है । I take this daily. (m/f) **maī yeh roz khātā/khātī hū.**

मैं यह रोज़ खाता/खाती हूँ । I have had a heart attack.

dīl kā daurā paṛ cukā hai.

दिल का दौरा पड़ चुका है । I have been ill for a while.

maī kāfī samay se bīmār hū.

मैं काफी समय से बीमार हूँ । I have a stomach ulcer.

peṭ mē alsar hai.

पेट में अलसर है । I have my period (menstruation).

māsik dharm ho rahā hai.

मासिकधर्म हो रहा है । Do you have any allergies.

kisī cīz kī elarjī hai?

किसी चीज़की एलर्जी है?

Are you taking any medication? (m) **koī davā khā rahe hai?**

कोई दवा खा रहे हैं?

Are you taking any medication? (f) **koī davā khā rahe hai?**

कोई दवा खा रही हैं?

Are you pregnant?

kyā āp garbhvatī hai?

क्या आप गर्भवती हैं?

Have you had a tetanus injection? (has an injection been applied) **teṭnas kī suī lagvāī?**

टेटनस की सुई लगवाई?

The

diagnosis



gabhīr māmlā nahī hai.

गंभीर मामला नहीं है।

It is nothing serious.
(not a serious issue)

āpkā ... ṭūṭ gayā hai.

आपका ... टूट गया है।

Your ... is broken. (m)

āpkī ... ṭūṭ gayī hai.

आपकी ... टूट गयी है।

Your ... is broken. (f)

āpke ... mē moc ā gayī hai.

आपके ... में मोच आ गयी है।

You have a sprained ... (m)

āpkī ... mē moc ā gayī hai.

आपकी ... में मोच आ गयी है।

You have a sprained ... (f)

infekśan hai.

इन्फेक्शन है।

You have an infection.

apeṇḍisāīṭis hai.

अपेंडिसाइटिस है।

You have appendicitis.

āpko bukhār hai.

आपको बुखार है।

You have a fever.

gupt rog hai.

गुप्त रोग है।

You have an STD.

āpko flū ho gayā hai. आपको फ़्लू हो गया है।	You have the flu.
dil kā daurā huā hai. दिल का दौरा हुआ है।	You have had a heart attack.
āpko infekśan ho gayā hai. आपको इन्फेक्शन हो गया है।	You have a (bacterial) infection.
āpko nimoniyā ho gayā hai. आपको निमोनिया हो गया है।	You have pneumonia.
āpko alsar ho gayā hai. आपको अलसर हो गया है।	You have an ulcer.
mānspeśī khīc gayī hai. मांसपेशी खिंच गयी है।	You've pulled a muscle. (a muscle has been pulled)
āpko fūḍ pāizaning huā hai. आपको फूड पाइज़निंग हुआ है।	You have food poisoning.
āpko lū lagī hai. आपको लू लगी है।	You have sunstroke. (a hot wind wind has attached)
āpko ... kī elarjī ho gayī hai. आपको ... की एलर्जी हो गयी है।	You have an allergy to ...
āp mā bannevālī hai. आप माँ बननेवाली हैं।	You are pregnant. (you are about to become a mother)
khūn kī jāc hogī. खून की जाँच होगी।	Your blood will be tested.
peśāb kī jāc hogī. पेशाब की जाँच होगी।	Your urine will be tested.
ṭaṭṭī kī jāc hogī. टट्टी की जाँच होगी।	Your stool will be tested.
āpkā āpareśan honā cāhiye. आपका आपरेशन होना चाहिये।	You will need an operation.

Is this disease contagious?

kyā yeh rog sankrāmak hai?

क्या यह रोग संक्रामक है?

How long should I stay in bed?

mujhe kitne din palang par rehnā cāhiye?

मुझे कितने दिन पलंग पर रहना चाहिये?

How long will I stay in hospital? (m/f) **maĩ aspatāl mẽ kitne din rahũgā/rahũgĩ?**

मैं अस्पताल में कितने दिन रहूँगा/रहूँगी?

Should I stay away from some foods?

mujhe khāne mẽ parhez karnā cāhiye?

मुझे खाने में परहेज़ करना चाहिये?

Can I travel? (m/f) **kyā maĩ yātrā kar saktā/sakti hũ?**

क्या मैं यात्रा कर सकता/सकती हूँ?

When should I come back?

mujhe kab vāpas ānā cāhiye?

मुझे कब वापस आना चाहिये?

I will come again tomorrow. (m/f) **maĩ kal phir āũgā/āũgĩ.**

मैं कल फिर आऊँगा/आऊँगी। How many times a day do I take this medicine?

din mẽ kitnī bār mujhe yeh davā khānī cāhiye?

दिन में कितनी बार मुझे यह दवा खानी चाहिये?

13.4 Medications and prescriptions How many pills each time?

har bār kitnī goliyā khānī cāhiye?

हर बार कितनी गोलियाँ खानी चाहिये?

How many times a day?

roz kitnī bār?

रोज़ कितनी बार?

I've forgot to bring my medication. (m/f) **davā lānā bhūl gayā/gayī.**

दवा लाना भूल गया/गयी । At home I take ... (m/f) **ghar par maĩ ... letā/letī hū.**

घर पर मैं ... लेता/लेती हूँ । Could you write a prescription for me?

kyā āp mere liye davā kā nuskhā likhēge/likhēgī?

क्या आप मेरे लिये दवा का नुस्खा लिखेंगे/लिखेंगी?

I am giving you antibiotics. (m) **maĩ āpko eṅṭibāyoṭik de rahā hū.**

मैं आपको एंटीबायोटिक दे रहा हूँ । I am giving you antibiotics. (f) **maĩ āpko eṅṭibāyoṭik de rahī hū.**

मैं आपको एंटीबायोटिक दे रही हूँ ।

Stay in bed. palang par rahiye. पलंग पर रहिये ।	swallow nigalnā निगलना	for ... days ... dinō ke liye ... दिनों के लिये
Don't go outside. bāhar na jāiye. बाहर न जाइये ।	injection (f) suĩ सुई	before meals khāne se pehle खाने से पहले
pills/tablets goliyā. गोलियाँ	drops (f) būndē बूंदें	after eating khāne ke bād खाने के बाद
finish the prescription kors pūrā karnā cāhiye. कोर्स पूरा करना चाहिये ।	after every ... hours har ... ghaṅṭe bād हर ... घंटे बाद	rub on lagānā लगाना
spoonful bharā huā cammac भरा हुआ चम्मच	ointment marham मरहम	... times a day din mẽ ... bār दिन में ... बार
dissolve in water pānī mẽ gholnā पानी में घोलना	take (eat) khānā खाना	

14 Emergencies

14.1 Asking for help 14.2 Lost items
14.3 Accidents 14.4 Theft 14.5 Missing person 14.6 The police

14. Emergencies

14.1 Asking for help Help!

bacāo!

बचाओ!

Fire!

āg lag gayī!

आग लग गयी!

Police!

pulis!

पुलिस!

Quick/hurry!

jaldī!

जल्दी!

Danger!

khatrā!

खतरा!

Stop!

ṭhehro!

ठहरो!

Be careful!/Go easy! (with vigilance) ***sāvadhānī se!***

सावधानी से!

Don't put your hands on me!

hāth mat lagāo!

हाथ मत लगाओ!

Let go! (leave) **choro!**

छोड़ो!

Stop thief! (catch the thief) **cor ko pakro!**

चोर को पकड़ो!

Please help me.

merī madad kijiye.

मेरी

मदद

कीजिये ।



āg bujhāne kā sādhan kahā hai? Where's the nearest fire
आग बुझाने का साधन कहाँ है? extinguisher?

pulis kā thānā kahā hai? Where's the police station?
पुलिस का थाना कहाँ है?

damkal ke logō ko bulāo! Call the fire department!
दमकल के लोगों को बुलाओ!

pulis ko bulāo! Call the police!
पुलिस को बुलाओ!

ambulens ko bulāo! Call an ambulance!
एम्बुलेंस को बुलाओ!

Where's a phone?

fon kahā hai?

फ़ोन कहाँ है?

May I use your phone?

maī āpke fon kā istemāl karū?

मैं आपके फोन का इस्तेमाल करूँ?

What's the emergency number?

āpatkāḷ kā nambar kyā hai?

आपत्काल का नम्बर क्या है?

What's the number for the police?

pulis kā nambar kyā hai?

पुलिस का नम्बर क्या है?

14.2 Lost items I've lost my wallet. (my wallet is lost) **merā baṭuā kho gayā.**

मेरा बटुआ खो गया। I lost my ... here yesterday. (m/f) **kal yahā merā/merī ... kho gayā/gayī.**

कल मेरा/मेरी ... खो गया/गयी। I left my ... here. (m/f) **maī apnā/apnī ... yah ā chor gayā/gayī.**

मैं अपना/अपनी ... यहाँ छोड़ गया/गयी। Did you find my ...? (m/f) **āpko merā/merī ... milā/milī?**

आपको मेरा/मेरी ... मिला/मिली?

It was right here. (m/f) **yahī thā/thī.**

यहीं था/थी। It is a very valuable thing.

bahut beśqīmtī ciz hai.

बहुत बेशकीमती चीज़ है। Where is the lost and found office? (where do you keep lost things) **khoī huī cizē kahā rakhte hai?**

खोई हुई चीज़ें कहाँ रखते हैं?

14.3 Accidents There's been an accident.

durghaṭnā huī hai.

दुर्घटना हुई है। Someone's fallen into the water.

koī pānī mẽ gir gayā hai.

कोई पानी में गिर गया है। There's a fire.

āg lag gayī hai.

आग लग गयी है । Is anyone hurt? (an injury attached to anyone) **kisī ko coṭ lagī?**

किसी को चोट लगी?

Nobody/somone has been injured.

kisī ko coṭ (nahī) lagī.

किसी को चोट (नहीं) लगी । Someone is still trapped in the car/vehicle.

koī gārī mẽ phāsā huā hai.

कोई गाड़ी में फँसा हुआ है । It's not too bad.

itnā kharāb nahī hai.

इतना खराब नहीं है । Don't worry.

cintā na kījiye.

चिन्ता न कीजिये । Don't touch anything.

kisī cīz ko mat chuo.

किसी चीज़ को मत छुओ । I want to talk to the police first. (m/f) **pehle maī pulis se bāt karnā cahtā/cāhti hū.**

पहले मैं पुलिस से बात करना चाहता/चाहती हूँ । I want to take a photo first. (m/f) **pehle maī foṭo khīcnā cāhtā/cāhti hū.**

पहले मैं फ़ोटो खींचना चाहता/चाहती हूँ । Here's my name and address.

yeh merā nām aur patā hai.

यह मेरा नाम और पता है । May I have (know) your name and address?

apnā nām aur patā batāiye.

अपना

नाम

और

पता

बताइये ।



apnā lāisens dikhāiye.

अपना लाइसेंस दिखाइये।

Could I see your license?

kyā āp gavāh banēge/banēgī?

क्या आप गवाह बनेंगे/बनेंगी?

Will you act as a witness? (m/f)

mujhe yeh jānkārī bīme ke liye cāhiye.

मुझे यह जानकारी बीमे के लिये चाहिये।

I need this information for the insurance.

bīmā hai?

बीमा है?

Are you insured?

(is there insurance)

yahā hastākṣar kījiye.

यहाँ हस्ताक्षर कीजिये।

Please sign here.

14.4 Theft I have been robbed. (a robbery has happened) **corī huī hai.**

चोरी हुई है। My ... has been stolen. (m/f) **merā/merī ... corī ho gayā/gayī.**

मेरा/मेरी ... चोरी हो गया/गयी। My car has been broken into. (from the car a robbery has happened) **gārī se corī huī hai.**

गाड़ी से चोरी हुई है।

14.5 Missing person My child/grandmother has disappeared. (m/f) **merā baccā/merī dādī ghāyab ho gayā/gayī.**

मेरा बच्चा/मेरी दादी गायब हो गया/गयी। Will you search with me? (m/f) **āp mere sāth talās karēge/karēgī?**

आप मेरे साथ तलाश करेंगे/करेंगी?

Have you seen a small child? (m) **āpne ek choṭe bacce ko dekhā?**

आपने एक छोटे बच्चे को देखा?

Have you seen a small child? (f) **āpne ek choṭī baccī ko dekhā?**

आपने एक छोटी बच्ची को देखा?

He's/she's ... years old? (m/f) **voh ... sāl kā/kī hai.**

वह ... साल का/की है। His/her hair is long.

us ke bāl lambe haĩ.

उसके बाल लम्बे हैं। His/her hair is short.

us ke bāl choṭe haĩ.

उसके बाल छोटे हैं। He/She is fair (Caucasian). (m/f) **voh gorā/gorī hai.**

वह गोरा/गोरी है। He/she was wearing a ...

voh ... pehne hai.

वह ... पहने है। a sweater (m) **svetar** स्वेटर a coat (m) **koṭ**

कोट

a t-shirt (f) **ṭī śarṭ**

टी शर्ट

a dress (f) **ḍres** ड्रेस He/she has glasses. (glasses are attached) **caśmā pehane hue hai.**

चश्मा पहने हुए है। This is his/her photo.

yeh uskī tasvīr hai.

यह उसकी तस्वीर है। He must be lost.

voh kho gayā hogā.

वह खो गया होगा। She must be lost.

voh kho gayī hogī.

वह खो गयी होगी।

14.6

The

police

An

arrest



mujhe hindī nahī ātī.
मुझे हिन्दी नहीं आती।

I don't speak Hindi.

lāisens dikhāiye.
लाइसेंस दिखाइये।

Please show me your license.

āp bahut tez gati se calā rahe the.
आप बहुत तेज़ गति से चला रहे थे।

You were speeding. (m)

āp bahut tez gati se calā rahī thī.
आप बहुत तेज़ गति से चला रही थीं।

You were speeding. (f)

āp yahā gārī lagā nahī sakte/saktī.
आप यहाँ गाड़ी लगा नहीं
सकते/सकतीं।

You can't park here. (m/f)

gārī kī battiyā kām nahī kar rahī hāī.
गाड़ी की बत्तियाँ काम नहीं कर रही हैं।

The car's lights are not
working.

āpko jurmānā denā pāregā.
आपको जुर्माना देना पड़ेगा।

You'll have to pay a fine.

āp abhī de sakte/saktī hāī.
आप अभी दे सकते/सकती हैं।

You can pay now. (m/f)

I didn't see the sign. (the sign was not visible) **sāin dikhāi nahī diyā.**

साइन दिखाई नहीं दिया। I don't understand this.

yeh merī samajh mẽ nahī ātā.

यह मेरी समझ में नहीं आता। I was only going ... kms an hour. (m) **maī sirf**

... kilomīṭar kī gati se calā rahā thā.

मैं सिर्फ ... किलोमीटर की गति से चला रहा था। I was only going ... kms an
hour. (f) **maī sirf ... kilomīṭar kī gati se calā rahī thī.**

मैं सिर्फ ... किलोमीटर की गति से चला रही थी। I will have the car checked.
(m/f) **gārī kī sarvisiṅg karāūṅgā/karāūṅgī.**

गाड़ी की सर्विसिंग कराऊँगा/ कराऊँगी। I couldn't see because of the lights.

tez rośnī kī vajah se kuch dikhāi nahī de rahā thā.

तेज़ रोशनी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।



āī. đī. kāṛḍ dikhāīye.
आई० डी० कार्ड दिखाइये ।

Please show me your I.D. card.

kitne baje huā?
कितने बजे हुआ?

What time did it happen?

kyā koī gavāh hai?
क्या कोई गवाह है?

Is there a witness?

yahā hastākṣar kījiye.
यहाँ हस्ताक्षर कीजिये ।

Sign here, please.

āpko angrezī bolnevālā cāhiye?
आपको अंग्रेज़ी बोलनेवाला चाहिये?

Do you want an interpreter? (English speaker)

At the police station I want to report a collision/rape. (m/f) **maī durghaṭnā/balātkār kī riportḍ darj karānā cāhtā/cāhtī hū.**

मैं दुर्घटना/बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता/चाहती हूँ । Please make a statement.

bayān dījiye.

बयान दीजिये । Please give me a copy for insurance.

bīme ke liye mujhe ek kāpī dījiye.

बीमे के लिये एक कॉपी दीजिये । I have lost everything.

sab kuch kho gayā hai.

सब कुछ खो गया है । I've no money left. (m/f) **mere pās kuch bhī paise nahī haī.**

मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं । Can you give me a little money?

āp mujhe thōṛe se paise de sakēge/sakēgī?

आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकेंगे/सकेंगी?

I need an interpreter.

mujhe angrezī bolnevālā cāhiye.

मुझे अंग्रेज़ी बोलनेवाला चाहिये । I am innocent.

maī nirdoṣ hū.

मैं निर्दोष हूँ । I don't know anything about this.

is bare mẽ mujhe kuch mālũm nahĩ hai.

इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है । I want to speak to someone from my embassy. (m/f) ***maĩ apne deś ke dũtāvas ke logõ se bāt karnā cāhtā/cāhtī hũ.***

मैं अपने देश के दूतावास के लोगों से बात करना चाहता/चाहती हूँ । I want an English-speaking lawyer.

mujhe angrezĩ bolnevāle vakĩl cāhiye.

मुझे अंग्रेज़ी बोलनेवाले वकील चाहिये ।

15 Religion 15.1 Religion in India

15. Religion

15.1 Religion in India • The vast majority of people in India identify themselves as Hindus, although this means vastly different things to different people in various parts of the country. In addition to Hinduism, the largest minority population in India is Muslim, with much smaller minorities of Sikhs, Christians and Jains, Zoroastrians, Buddhists and Jews. Within Hinduism there are many different sects, local deities, beliefs and practices. There are also many Hindus (and people of other faiths, of course), for whom religion does not play a very large part in their day-to-day lives. It can be overwhelming for the first-time visitor to India. However, people are generally extremely happy to explain their own faith and religious practices if politely asked. It is always best to be respectful at places of religious worship, and the best way is to be as unintrusive as possible. There are one or two religious sites that are open only to people of that faith.

Hindu (m)

hindū

हिंदू

Hinduism (m)

hindū dharm

हिंदू धर्म

Muslim (m)

musalmān/muslim

मुसलमान/मुसलिम

Islam (m)

islām

इसलाम

Christian

īsāī

ईसाई

Christianity (m)

īsāī dharm

ईसाई धर्म

Buddhist (m)

bauddh dharm kā anuyāyī

बौद्ध धर्म का अनुयायी

Buddhism (m)

bauddh dharm

बौद्ध धर्म

Jewish

yahūdī

यहूदी

Judaism (m)

yahūdī dharm

यहूदी धर्म

Sikh (m) sikkh सिक्ख	God (for Muslims) (m) allāh/khudā अल्लाह/खुदा
Sikhism (m) sikkh dharm सिक्ख धर्म	God (for Christians) (m) prabhu/īśvar प्रभु/ईश्वर
temple (m) mandir मंदिर	Jesus Christ īsā masīh ईसा मसीह
mosque (f) masjid मस्जिद	God (for Sikhs) (m) rab रब
gurudwara (Sikh temple) (m) gurudvāra गुरुद्वारा	fast (for Hindus) (m) vrat व्रत
religion (for Hindus and others) (m) dharm धर्म	fast (for Muslims) (m) rozā रोज़ा
religion (for Muslims) (m) mazhab मज़हब	prayer (for Hindus) (f) prārthnā प्रार्थना
Sunni (one of the two major sects of Islam) sunnī सुन्नी	prayer (for Christians) (f) prārthnā प्रार्थना
Shia (one of the two major sects of Islam) śiyā शिया	prayer (formal) (for Muslims) (f) namāz नमाज़
God (for Hindus) (m) īśvar/bhagvān ईश्वर/भगवान	prayer (for Muslims) (f) duā दुआ



āp īsāī haī?

आप ईसाई हैं?

Are you Christian?

āp hindū haī?

आप हिंदू हैं?

Are you Hindu?

kyā āp āstik haī?

क्या आप आस्तिक हैं?

Do you believe in God? (m/f)

maī nāstik hū

मैं नास्तिक हूँ।

I am an atheist.

16 English-Hindi Word List English-Hindi

Word list 167-192

16. English-Hindi Word List

A

able to, to be (V.I.)	<i>pānā/saknā</i>	पाना/सकना
about x (PP)	<i>x ke bāre mẽ</i>	x के बारे में
above (ADV)	<i>ūpar</i>	ऊपर
above x (PP)	<i>x ke ūpar</i>	x के ऊपर
accelerator (M)	<i>ekselareṭar</i>	एक्सेलरेटर
accident (F)	<i>durghaṭnā</i>	दुर्घटना
address, whereabouts (M)	<i>patā</i>	पता
adjoining (ADJ)	<i>agal-bagal vālā</i>	अगल-बगल वाला
after x (PP)	<i>x ke bād</i>	x के बाद
afternoon (F)	<i>dopahar</i>	दोपहर
afterwards (ADV)	<i>bād mẽ</i>	बाद में
again (ADV)	<i>phir</i>	

		फिर
age (F)	<i>umr</i>	उम्र
ago (ADV)	<i>pehle</i>	पहले
ahead (ADV)	<i>āge</i>	आगे
ahead of x (PP)	<i>x ke āge</i>	x के आगे
air mail (F)	<i>havāī ḍāk</i>	हवाई डाक
airport (M)	<i>havāī aḍḍā</i>	हवाई अड्डा
alcohol/wine (F)	<i>śarāb</i>	शराब
allergy (F)	<i>elarjī</i>	एलर्जी
alone (ADJ)	<i>akelā</i>	अकेला
ambulance (M/F)	<i>embulens</i>	एम्बुलेंस
another (ADJ)	<i>dūsrā</i>	दूसरा
answer; north (M)	<i>uttar</i>	उत्तर
answer, to (to give an answer) (V.T.)	<i>uttar denā</i>	उत्तर देना
antibiotics (M)	<i>eṅṭībāyoṭik</i>	एंटीबायोटिक
any (PRO, ADJ)	<i>koī</i>	कोई
April (M)	<i>aprail</i>	अप्रैल
appear, to (V.I.) (to be visible)	<i>dikhnā</i>	दिखना

appointment (M)	<i>apāiṅṭmeṅṭ</i>	अपॉइंटमेंट
area code (M)	<i>koḍ</i>	कोड
around x (PP)	<i>x ke āspās</i>	x के आसपास
arrival (M)	<i>āgaman</i>	आगमन
arrive, to (V.I.)	<i>pahūcnā</i>	पहुँचना
ask, to (V.T.)	<i>pūchnā</i>	पूछना
asthma (M)	<i>damā</i>	दमा
atheist (ADJ, M)	<i>nāstik</i>	नास्तिक
ATM (M)	<i>e. ṭī. em.</i>	ए० टी० एम०
attach, to (V.I.)	<i>lagnā</i>	लगाना
attach (V.T.)	<i>lagānā</i>	लगाना
attention/meditation (M)	<i>dhyān</i>	ध्यान
attention, to give/pay (V.T.)	<i>dhyān denā</i>	ध्यान देना
August (M)	<i>agast</i>	अगस्त
auspicious (ADJ)	<i>śubh</i>	शुभ
auto(rickshaw) (M)	<i>āṭo</i>	ऑटो
available, to be (V.I.)	<i>milnā</i>	मिलना

B

bad (ADJ)	<i>kharāb</i>	खराब
bad (ADJ)	<i>burā</i>	बुरा
bag (F)	<i>thailī</i>	थैली
bank (M)	<i>baink</i>	बैंक
barber (M)	<i>nāī</i>	नाई
barfi (a sweet) (F)	<i>barfī</i>	बर्फी
battery (M)	<i>sel</i>	सेल
battery (F) (car)	<i>baiṭrī</i>	बैट्री
beard (F)	<i>dāṛhī</i>	दाढ़ी
beautiful (pleasing) (ADJ)	<i>suhāvnā</i>	सुहावना
beautiful/handsome (ADJ)	<i>sundar</i>	सुंदर
beauty salon (M)	<i>sailān</i>	सैलॉन
become, to (V.I.) (to be made)	<i>bannā</i>	बनना
become, to (V.I.)	<i>honā</i>	होना
bed (F) (cot)	<i>cārpāī;</i>	चारपाई;
(M)	<i>palang</i>	पलंग
beef (M)	<i>gāy kā gošt</i>	गाय का गोश्त
beer (F)	<i>biyar</i>	बियर

before (ADV)	pehle	पहले
before x (PP)	x ke pehle	x के पहले
beginning (M)	śurū	शुरू
behind (ADV)	pīche	पीछे
behind x (PP)	x ke pīche	x के पीछे
belief (M)	yaqīn	यक़ीन
believe, to (belief to be) (V.I.)	yaqīn honā	यक़ीन होना
below (ADV)	nīce	नीचे
below x (PP)	x ke nīce	x के नीचे
bend (M)	moṛ	मोड़
berth (M)	barth	बर्थ
best wishes (F, PL)	śubhkāmnāē	शुभकामनाएँ
bhatura (bread baked on a griddle and deep fried) (M)	bhaṭūrā	भटूरा
big (ADJ)	barā	बड़ा
bill (check) (M)	bil	बिल
biriyani (F)	biryānī	बिरयानी
birth (M)	janm	जन्म
birthday (M)	janmdin	

		जन्मदिन
bite, to (V.T.)	<i>kāṭnā</i>	काटना
bitter (ADJ)	<i>karvā</i>	कड़वा
black (ADJ)	<i>kālā</i>	काला
blanket (M)	<i>kambal</i>	कम्बल
blood (M)	<i>khūn</i>	खून
blue (ADJ)	<i>nīlā</i>	नीला
boat (F)	<i>nāv</i>	नाव
boil, to (V.T.)	<i>ubālnā</i>	उबालना
boiled (ADJ)	<i>ublā huā</i>	उबला हुआ
bother, to (V.T)	<i>tang karnā</i>	तंग करना
book (F)	<i>kitāb</i>	किताब
book, to (V.T.)	<i>būking karānā</i>	बुकिंग कराना
booking (F)	<i>būking</i>	बुकिंग
booking office (M)	<i>būking āfis</i>	बुकिंग ऑफिस
bookstore (F)	<i>kitāb kī dukān</i>	किताब की दुकान
bottom (ADV) (below)	<i>nīce</i>	नीचे
boy (M)	<i>laṛkā</i>	

		लडका
bread (roti) (F)	roṭī/capātī	रोटी/चपाती
break (M) (car)	brek	ब्रेक
break, to (V.I.)	ṭūṭnā	टूटना
break down, to (V.I.)	<u>k</u>harāb honā	खराब होना
breaker (ADJ)	avarodhak	अवरोधक
breakfast (M)	nāstā	नाश्ता
breathe, to (V.T.)	sāś lenā	साँस लेना
breeze (F)	bayār	बयार
bridge (M)	pul	पुल
bring, to (V.I.)	lānā	लाना
brochure (M)	brośar	ब्रोशर
brother (M)	bhāī	भाई
brown (ADJ)	bhūrā	भूरा
Buddhism (M)	bauddh dharm	बौद्ध धर्म
Buddhist (ADJ, M)	bauddh	बौद्ध
burn, to (V.I.)	jalnā	जलना
bus (F)	bas	बस
businessman/person (M/F)	vyāpārī	व्यापारी

bus terminus (M)	<i>bas kā aḍḍā</i>	बस का अड्डा
busy (ADJ)	<i>vyast</i>	व्यस्त
butter (M)	<i>makkhan</i>	मक्खन
buttermilk (F)	<i>chāch</i>	छाछ
button (M)	<i>baṭan</i>	बटन
buy, to (V.T.)	<i><u>kharīdnā</u></i>	खरीदना
by (PP)	<i>se</i>	से
C		
cabbage (F)	<i>band gobhī</i>	बंद गोभी
calculation (M)	<i>hisāb</i>	हिसाब
calculate, to (V.T.)	<i>hisāb lagānā</i>	हिसाब लगाना
call, to (x y) (V.T.)	<i>x ko y kehnā</i>	x को y कहना
call, to (V.T.) (summon)	<i>bulānā</i>	बुलाना
cancel, to have (V.T.)	<i>kainsal karānā</i>	कैंसल कराना
car (F)	<i>kār/gārī</i>	कार/गाड़ी
care, to take (V.T.)	<i><u>khyāl rakhnā</u></i>	ख्याल रखना
carrot (F)	<i>gājar</i>	गाजर
catch, to (V.T.)	<i>pakarṇā</i>	पकड़ना
cauliflower (F)	<i>phūl gobhī</i>	फूल गोभी

cell phone (M)	mobāil fon	मोबाइल फ़ोन
century (F)	śatabdī	शताब्दी
certainly (IND)	zarūr!	ज़रूर
certificate (M)	pramān patra	प्रमाण पत्र
chain (F)	zanjīr	ज़ंजीर
chair (F)	kursī	कुरसी
change, to (V.I./V.T.)	badalnā	बदलना
charger (M)	cārjar	चार्जर
chat (spicy fast food) (F)	cāṭ	चाट
cheap (ADJ)	sastā	सस्ता
check out, to (V.T.) (vacate)	cek āuṭ karnā	चेक आउट करना
cheese (M) (paneer)	panīr	पनीर
chicken (M)	murgh	मुर्ग
chickpeas (M, PL)	chole	छोले
children (M, PL)	bāl bacce	बाल बच्चे
choose, to (V.T.)	pasand karnā	पसंद करना
Christian (ADJ, M)	īsāī	ईसाई

Christianity (M)	<i>īsāi dharm</i>	ईसाई धर्म
church (M)	<i>kalisā/girjā</i>	कलीसा/गिरजा
chutney (F)	<i>caṭnī</i>	चटनी
cinema hall (M)	<i>sinemāhāl</i>	सिनेमाहाल
city (M)	<i>śehar</i>	शहर
class (F) (division)	<i>śreṇī</i>	श्रेणी
clean, to (V.T.)	<i>sāf karnā</i>	साफ़ करना
clear (ADJ)	<i>sāf</i>	साफ़
close (ADJ, ADV)	<i>nazdik/pās</i>	नज़दीक/पास
closed (ADJ)	<i>band</i>	बंद
closed, to be (ADJ)	<i>band honā</i>	बंद होना
cloth (M)	<i>kapṛā</i>	कपड़ा
clothes (M, PL)	<i>kapṛe</i>	कपड़े
cloth shop (F)	<i>kapṛe kī dukān</i>	कपड़े की दुकान
cloud (M)	<i>bādal</i>	बादल
clutch (M) (car)	<i>klac</i>	क्लच
coat (M)	<i>koṭ</i>	कोट
cobbler (M)	<i>mocī</i>	मोची

coffee (F)	kāfī	कॉफी
cold (F)	ṭhaṇḍ	ठंड
cold (ADJ)	ṭhaṇḍā	ठंडा
cold (M) (illness)	zūkām	ज़ुकाम
color (M)	rang	रंग
color, to (V.T.)	rang lagānā	रंग लगाना
come, to (V.I.)	ānā	आना
company (F)	kampanī	कम्पनी
computer (M)	kampyūṭar	कम्प्यूटर
concern (F)	cintā	चिंता
concern/care (F)	parvāh	परवाह
confirm, to (V.T.)	kanfarm karnā	कन्फ़र्म करना
Congratulations! (IND)	badhāi ho!/mubāarak ho!	बधाई हो!/मुबारक हो!
connection (M)	kanekśan	कनेक्शन
contagious (ADJ)	sankrāmak	संक्रामक
contract (M)	anubandh	अनुबंध
cook, to (food) (V.T.)	(khānā) pakānā	(खाना) पकाना

copy (F)	kāpī	कॉपी
corner (M)	konā	कोना
cotton (F)/cotton (ADJ)	ruī/sūtī	रुई/सूती
cotton (home-spun) (F)	khādī	खादी
country (M)	deś	देश
course (M)	kors	कोर्स
credit card (M)	kredit kārḍ	क्रेडिट कार्ड
cut, to (V.T.)	kāṭnā	काटना
D		
daily (ADV)	roz	रोज़
dal (lentil dish) (F)	dāl	दाल
danger (M)	khatrā	खतरा
dark color (M)	gehrā rang	गहरा रंग
date (F)	tārīkh	तारीख़
day (M)	din	दिन
day after tomorrow (M)	parsō	परसों
day before yesterday (M)	parsō	परसों
daughter (F)	beṭī	बेटी
December (M)	disambar	

		दिसंबर
deep (ADJ)	gehrā	गहरा
degree (F)	upādhi	उपाधि
delay (F)	der	देर
delicious (tasty) (ADJ)	lazīz/svādiṣṭ	लज़ीज़/स्वादि
depart(ed) (ADJ)	ravānā	रवाना
depart, to (V.I.)	ravānā honā	रवाना होना
departure (M)	prasthān	प्रस्थान
deposit (M)	ḍipāziṭ	डिपॉज़िट
descend, to (alight, get down) (V.I.)	utarnā	उतरना
dew (F)	os/śabnam	ओस/शबनम
diabetes (M)	madhumeh	मधुमेह
dial, to (V.T.) (a number)	(nambar) milānā	(नम्बर) मिलाना
diet, to (V.T.)	ḍāiṭing karnā	डाइटिंग करना
dining hall (M)	ḍāining hāl	डाइनिंग हॉल
dinner (M)	rāt kā khānā	रात का खाना
dirt-absorbing (ADJ)	mail <u>kh</u>or	मैलख़ोर

disappear, to (V.I.)	<i>ghāyab honā</i>	गायब होना
disappeared (ADJ)	<i>ghāyab</i>	गायब
discount (F)	<i>chūṭ/riyāyat</i>	छूट/रियायत
disease (M)	<i>rog</i>	रोग
dissolve, to (V.T.)	<i>gholnā</i>	घोलना
divorced (ADJ)	<i>talāqśudā</i>	तलाक़शुदा
dizzy, to become (V.I.)	<i>cakkar ānā</i>	चक्कर आना
do, to (V.T.)	<i>karnā</i>	करना
doctor (M)	<i>ḍākṭar</i>	डॉक्टर
dog (M)	<i>kuttā</i>	कुत्ता
domestic (flight) (ADJ)	<i>antardeśīya</i>	अंतर्देशीय
don't (IND)	<i>na, mat</i>	न/मत
door (M)	<i>darvāzā</i>	दरवाज़ा
double (room) (ADJ)	<i>ḍabal</i>	डबल
download (M)	<i>ḍāūnloḍ</i>	डाउनलोड
dress (F)	<i>ḍres</i>	ड्रेस
drink, to (V.T.)	<i>pīnā</i>	पीना
drive, to (V.T.); to	<i>calānā</i>	

make move		चलाना
drive fast, to (V.T.)	tez calānā	तेज़ चलाना
driver (M)	ḍrāivar	डाइवर
drop (F)	būnd	बूँद
durable (ADJ)	ṭikāū	टिकाऊ
E		
early (F, ADV)	jaldī	जल्दी
east (M)	pūrv	पूर्व
eastern (ADJ)	pūrvī	पूर्वी
easy (ADJ)	āsān	आसान
eat, to (V.T.)	khānā	खाना
eggplant (M)	baīgan	बैंगन
electronic shop (F)	bijlī kī dukān	बिजली की दुकान
embassy (M)	dūtāvas	दूतावास
email (F)	ī-mel	ई-मेल
emergency (M)	āpatkāl	आपत्काल
engine (M)	injan	इंजन
English (F)	angrezī	अंग्रेज़ी

enjoyable (ADJ)	mazedār	मज़ेदार
enjoyment, to come (V.I.)	mazā ānā	मज़ा आना
enough (ADJ)	kāfī	काफ़ी
Enough! (VOC)	bas!	बस!
entire (ADJ)	pūrā	पूरा
evening (F)	śām	शाम
excellent (ADJ)	barhiyā	बढ़िया
expensive (ADJ)	mahēgā	महँगा
experience (M)	anubhav	अनुभव
exportation (M)	niryāt	निर्यात
express post (M)	ekspres post	एक्सप्रेस पोस्ट
express train (F)	ekspres gārī	एक्सप्रेस गाड़ी
extra (ADJ, ADV) (more)	zyādā	ज़्यादा
eye (F)	ākḥ	आँख
F		
factory (F)	faikṭrī	फ़ैक्टरी
fair (ADJ)	gorā	गोरा
fake (ADJ)	naqlī	नक़ली
fall, to (V.I.)	girnā	

		गिरना
family (M)	parivār	परिवार
far (ADJ, ADV)	dūr	दूर
fast (for Hindus) (M)	vrat	व्रत
fast (for Muslims) (M)	rozā	रोज़ा
February (F)	farvarī	फ़रवरी
feel (x), to (V.I.)	(x kā) ehsās honā	(x का) एहसास होना
fever (M)	bukhār	बुख़ार
fill, to (V.I./V.T.)	bharnā	भरना
film (F)	film	फ़िल्म
filtered (ADJ)	filṭarḍ	फ़िल्टर्ड
final (ADJ)	ākhirī	आख़िरी
fine (ADJ)	ṭhīk	ठीक
fine (penalty) (M)	jurmānā	जुर्माना
finished, to be (V.I.)	khatm honā	ख़त्म होना
fire (F)	āg	आग
fire extinguisher (M)	āg bujhāne kā	

	sādhān	आग बुझाने का साधन
first (ADJ)	pehlā; pratham	पहला; प्रथम
fish (F)	machlī	मछली
fish shop (F)	machlī kī dukān	मछली की दुकान
flash (F)	flaiś	फ्लैश
flight (F)	flāiṭ	फ्लाइट
flu (M)	flū	फ्लू
flyover (M)	flāi-ovar	फ्लाई-ओवर
fog (M)	kuhrā	कुहरा
food (M)	khānā	खाना
for (the sake of) x (PP)	x ke liye	x के लिये
forbidden (ADJ)	niśedh/manā	निषेध/मना
foreign tourist quota (M)	ṭūrist koṭā	टूरिस्ट कोटा
forget, to (V.I.)	bhūlnā	भूलना
forgive, to (V.T.)	māf karnā	माफ़ करना
fort (M)	qilā	क़िला
fresh (ADJ)	tāzā	ताज़ा
Friday (M)	śukra(vār)	शुक्र(वार)
friend (M/F)	dost	दोस्त

from (PP)	se	से
from there (ADV)	vahā se	वहाँ से
fruit (M)	phal	फल
G		
game (M)	khel	खेल
garage (M)	gairāj	गैराज
garden (M)	baghīcā	बगीचा
garlic (M)	lehsun	लहसुन
gear (M)	giyar	गियर
genuine (ADJ)	aslī	असली
get/obtain, to (to be obtained) (V.I.)	milnā	मिलना
get down, to (alight, descend) (V.I.)	utarnā	उतरना
ghee (M)	ghī	घी
girl (F)	larkī	लड़की
give, to (V.T.)	denā	देना
glasses (M)	caśmā	चश्मा
go, to (V.I.)	jānā	जाना
goat's meat (M)	bakre kā gošt	बकरे का गोश्त

God (for Hindus) (M)	<i>īśvar/bhagvān</i>	ईश्वर/भगवान
God (for Muslims) (M)	<i>allāh/khudā</i>	अल्लाह/खुदा
God (for Christians) (M)	<i>prabhu/īśvar</i>	प्रभु/ईश्वर
God (for Sikhs) (M)	<i>rab</i>	रब
good (ADJ)	<i>acchā</i>	अच्छा
Goodbye (M)	<i>namaste/namskār</i>	नमस्ते/नमस्कार
Good luck (F, PL)	<i>śubhkāmnāē</i>	शुभकामनाएँ
good morning (M)	<i>suprabhāt</i>	सुप्रभात
good night (F)	<i>śubh rātri</i>	शुभ रात्रि
goods (M)	<i>sāmān</i>	सामान
gourd (F)	<i>laukī</i>	लौकी
grateful (ADJ)	<i>ehsānmand</i>	एहसानमंद
graveyard (M)	<i>qabristān</i>	कब्रिस्तान
gray (ADJ)	<i>sleṭī</i>	स्लेटी
green (ADJ)	<i>harā</i>	हरा
grocery (provision) (M)	<i>parcūn</i>	परचून
guide (M)	<i>gāiḍ</i>	गाइड
gulab jamun (fried sweet made from milk,	<i>gulāb jāmun</i>	गुलाब जामुन

served hot in syrup)
(M)

gurudwara (Sikh
temple) (M)

gurudvāra

गुरुद्वारा

H

hail (stone) (M)

olā

ओला

hair (M)

bāl

बाल

half (ADJ)

ādhā

आधा

halva (M)

halvā

हलवा

hand (M)

hāth

हाथ

handkerchief (M)

rūmāl

रूमाल

handsome/beautiful
(ADJ)

sundar

सुंदर

happen, to (V.I.)

honā

होना

happiness (F)

khuśī

खुशी

happy (ADJ)

khuś

खुश

harsh (sharp) (ADJ)

tez

तेज़

headache (M)

sardard

सरदर्द

health (F) (disposition) ***tabiyat***

तबियत

heart attack (M)

dil kā daurā

दिल का दौरा

heart condition (F)

dil kī bimārī

दिल की बीमारी

heat (F)

garmī

		गर्मी
heavy rain (F)	<i>mūslādhār bāriś</i>	मूसलाधार बारिश
hello/goodbye (M)	<i>namaste</i>	नमस्ते
hello/goodbye (M)	<i>namaskār</i>	नमस्कार
help, to do x's (V.T.)	<i>x kī madad karnā</i>	x की मदद करना
here (ADV)	<i>yahā</i>	यहाँ
high (harsh) wind (F)	<i>tez havā</i>	तेज़ हवा
Hindu (ADJ, M)	<i>hindū</i>	हिन्दू
Hinduism (M)	<i>hindū dharm</i>	हिंदू धर्म
historical (ADJ)	<i>aitihāsik</i>	ऐतिहासिक
hither (ADV)	<i>idhar</i>	इधर
hobby (M)	<i>śauq</i>	शौक
hold, to (V.T.) (to wait on the line)	<i>hold karnā</i>	होल्ड करना
home (M)	<i>ghar</i>	घर
hope (F)	<i>ummīd</i>	उम्मीद
hospital (M)	<i>aspatāl</i>	अस्पताल
hot (ADJ)	<i>garm</i>	गर्म
hot wind (F)	<i>lū</i>	लू

hour; bell (M)	ghaṇṭā	घंटा
how (ADJ)	kaisā	कैसा
how much/many (ADJ)	kitnā	कितना
humidity (F)	umas	उमस
hundred (M)	sau	सौ
hunger (F)	bhūkh	भूख
hungry, to feel (to x) (V.I.)	(x ko) bhūkh lagnā	(x को) भूख लगाना
husband (M)	pati	पति
I		
ice (F)	barf	बर्फ
icy wind (F)	barfīlī havā	बर्फ़ीली हवा
I.D. card (M)	āī. ḍī. kārd	आई० डी० कार्ड
ill (ADJ)	bīmār	बीमार
immigration (M)	apravāsan	अप्रवासन
important (ADJ)	aham	अहम
importation (M)	āyāt	आयात
in (PP)	mē	में
incline (F)	ḍhalān	ढलान

included (ADJ)	<i>śāmil</i>	शामिल
India (M)	<i>bhārat</i>	भारत
infection (M)	<i>infekśan</i>	इन्फेक्शन
in fine fettle (ADV)	<i>maze mẽ</i>	मज़े में
information (F)	<i>jānkārī</i>	जानकारी
injection (F)	<i>suī</i>	सुई
injury (F)	<i>coṭ</i>	चोट
injured, to become (V.I.) (x)	<i>(x ko) coṭ lagnā</i>	(x को) चोट लगाना
inside (ADV)	<i>andar</i>	अंदर
inside x (ADV)	<i>x ke andar</i>	x के अंदर
install (V.T.)	<i>inṣṭāl karnā</i>	इन्स्टाल करना
international (ADJ)	<i>antarrāṣṭriya</i>	अंतर्राष्ट्रीय
Internet (M)	<i>inṭarnet/indrajāl</i>	इंटरनेट/इंद्रजाल
Internet café (M)	<i>inṭarnet kaife</i>	इंटरनेट कैफ़े
intersection (M)	<i>caurāhā</i>	चौराहा
in the middle (ADV)	<i>bīc mẽ</i>	बीच में
issue (matter) (M)	<i>māmlā</i>	मामला
issue, to (V.T.)	<i>jārī karnā</i>	जारी करना

insurance (M)	bīmā	बीमा
interpreter (English speaker) (M)	angrezī bolnevālā	अंग्रेज़ी बोलनेवाला
Islam (M)	islām	इसलाम

J

Jain (ADJ, M)	jain	जैन
jalebi (fried crisp sweet in syrup) (F)	jalebī	जलेबी
January (F)	janvarī	जनवरी
jewelry shop (F)	zevrāt kī dukān	ज़ेवरात की दुकान
Jewish (ADJ, M)	yahūdī	यहूदी
job (F)	naukrī	नौकरी
job, to do a (for money) (V.T.)	naukrī karnā	नौकरी करना
journey (F)	yātrā	यात्रा
Judaism (M)	yahūdī dharm	यहूदी धर्म
juice (M)	ras/jūs	रस/जूस
July (F)	julāī	जुलाई
June (M)	jūn	जून

K

keep, to (place) (V.T.)	rakhnā	रखना
key (F)	cābī	

		चाबी
khoya (solidified milk) (M)	khoyā	खोया
kidney beans (M, PL)	rāj mā	राजमा
know, to (to come to x) (V.I.)	(x ko) ānā	(x को) आना
know, to (to be known to x) (V.I.)	(x ko) mālūm honā	(x को) मालूम होना
know, to (V.T.)	jānnā	जानना
kulfi (F)	qulfi	कुलफी
L		
laddu (sweet made from chickpea flour) (M)	laḍḍū	लड्डू
laneway (F)	galī	गली
laptop (M)	leṭṭāp	लैपटॉप
lassi (F)	lassī	लस्सी
late (ADV)	der se	देर से
late, to be (V.I.) (lateness to happen)	der honā	देर होना
later (afterwards) (ADV)	bād mẽ	बाद में
lawyer (M)	vakīl	वकील
leather (M)/leather (ADJ)	camṛā/camṛe kā	चमड़ा/चमड़े का
leave, to (abandon)	choṛnā	

(V.T.)		छोड़ना
left side (ADV)	bāyī tarf/or	बायीं तरफ़/ओर
lentils (F)	dāl	दाल
letter (M)	patra;	पत्र;
(F)	ciṭṭhī	चिट्ठी
license (M)	lāisens	लाइसेंस
lie down, to (V.I.)	leṭnā	लेटना
light (F)	battī	बत्ती
light color (M)	halkā rang	हल्का रंग
light rain (F)	būḍābāḍī	बूँदाबाँदी
like, to (to be liked, preferred) to x (V.I.)	x ko pasand honā	x को पसंद होना
like, to (to seem good) to x (V.I.)	x ko acchā lagnā	अच्छा लगाना
limit (F)	sīmā	सीमा
line (F)	lāin	लाइन
listen, to (V.T.)	sunnā	सुनना
little (ADJ)	thoṛā	थोड़ा
live, to (V.I.)	rehnā	रहना

long (ADJ)	<i>lambā</i>	लम्बा
lose, to (V.T.) (an item)	<i>khonā</i>	खोना
lost, to become (V.I.)	<i>khonā</i>	खोना
love (M)	<i>pyār</i>	प्यार
love, to (V.T.)	<i>pyār karnā</i>	प्यार करना
low beam (M) (car)	<i>ḍipar</i>	डिपर
luggage (M)	<i>sāmān</i>	सामान
lunch (M)	<i>din kā khānā</i>	दिन का खाना

M

machine (F)	maśīn	मशीन
make, to (V.T.)	banānā	बनाना
man (M)	ādmī	आदमी
manager (M)	prabandhak	प्रबंधक
map (M)	naqśā	नक्शा
March (M)	mārc	मार्च
market (M)	bāzār	बाज़ार
married (ADJ)	śādīśudā, vivāhit	शादीशुदा, विवाहित
massage (F)	māliś	मालिश
massage, to (V.T.)	māliś karnā	मालिश करना
match (M)	maic	मैच
matter (F)	bāt	बात
mausoleum (M)	maqbarā	मक़बरा
May (F)	maī	मई
meaning (M)	matlab	मतलब
meanwhile (ADV)	bīc mẽ	बीच में
meat (M)	māns/gośt	मांस/गोश्त
medication (F)	davā	

		दवा
medicine (F)	davā	दवा
meet, to (V.I.)	milnā	मिलना
member (M)	membar	मेम्बर
memory card (M)	memrī kārd	मेमरी कार्ड
mend, to (V.T.)	x kī marammat karnā	x की मरम्मत करना
menstruation (M)	māsik dharm	मासिकधर्म
menu (M)	menū kārd	मेनू कार्ड
meter (M)	mīṭar	मीटर
metro (F)	meṭro	मेट्रो
metro station (M)	meṭro ṣṭeśan	मेट्रो स्टेशन
midday (F)	dopahar	दोपहर
middle (ADV)	bīc	बीच
mind; heart (M)	man	मन
minute (M)	minat	मिनट
mirror (M)	āinā	आइना
miss, to (the memory to come to) (V.I.)	yād ānā	याद आना
mixed (ADJ)	milā-julā	

		मिला-जुला
mobile phone (M)	mobāil fon	मोबाइल फ़ोन
mobile phone shop (F)	mobāil fon kī dukān	मोबाइल फ़ोन की दुकान
Monday (M)	somvār	सोमवार
money order (M)	manī ārḍar	मनी ऑर्डर
monkey (M)	bandar	बंदर
month (M)	mahīnā	महीना
morning (M)	saverā;	सवेरा;
(F)	subah	सुबह
mosque (F)	masjid	मस्जिद
mosquito (M)	macchar	मच्छर
mosquito net (F)	macchardānī	मच्छरदानी
moustache (F)	mūch	मुँछ
mouth (M)	mūh	मुँह
move, to (V.I.)	calnā	चलना
movie (F)	film	फ़िल्म
muffler (M)	maflar	मफ़लर

multinational corporation (F)	<i>bahurāṣṭriya kampanī</i>	बहुराष्ट्रीय कम्पनी
muscle (F)	<i>mānspeśī</i>	मांसपेशी
museum (M)	<i>sangrahālay/myuziyam</i>	संग्रहालय/म्यूज़ियम
music (M)	<i>sangīt</i>	संगीत
Muslim (ADJ, M)	<i>musalmān/muslim</i>	मुसलमान/मुसलिम
mutton (M)	<i>bheṛ kā gośt</i>	भेड़ का गोश्त
N		
name (M)	<i>nām</i>	नाम
nan (F)	<i>nān</i>	नान
nationality (F)	<i>nāgriktā</i>	नागरिकता
necessary (ADJ)	<i>zarūrī</i>	ज़रूरी
necessity (F)	<i>zarūrat</i>	ज़रूरत
new (ADJ)	<i>nayā</i>	नया
next (ADJ)	<i>aglā</i>	अगला
next to (ADV)	<i>pās</i>	पास
nice (good) (ADJ)	<i>acchā</i>	अच्छा
night (F)	<i>rāt</i>	रात
no (ADV)	<i>jī nahī</i>	जी नहीं
noise (M)	<i>śorgul</i>	

(commotion)		शोरगुल
noise (F) (sound, <i>āvāz</i> voice)		आवाज़
north; answer (M)	uttar	उत्तर
not (IND)	nahī	नहीं
note, to (V.T.)	noṭ karnā	नोट करना
nothing (PRON)	kuch nahī	कुछ नहीं
November (M)	navambar	नवम्बर
nowhere (ADV)	kahī nahī	कहीं नहीं
number (M)	nambar	नम्बर
o		
ocean (M)	samudra	समुद्र
occupation (M)	peśā	पेशा
o'clock (ADV)	baje	बजे
October (M)	aktūbar	अक्टूबर
office (M)	daftar	दफ़्तर
oil (M)	tel	तेल
ointment (M)	marham	मरहम
old/big (ADJ)	barā	बड़ा
old (ADJ) (in duration)	purānā	पुराना

on (PP)	par/pe	पर/पे
one's own (ADJ)	apnā	अपना
one-way (ADJ)	ek-tarafā	एक-तरफ़ा
onion (M)	pyāz	प्याज़
online (ADJ)	ān-lāin	ऑन-लाइन
only (ADV+ADJ)	sirf	सिर्फ़
on route (ADV) (in the middle)	bīc mẽ	बीच में
open (ADJ)	khulā	खुला
open, to (V.I.)	khulnā	खुलना
open, to (V.T.)	kholnā	खोलना
operation (M)	āpareśan	आपरेशन
opinion (M)	kh̄yāl/vicār	ख़याल/विचार
(F)	rāy	राय
optician (optical store) (F)	caśme kī dukān	चश्मे की दुकान
orange (ADJ, F)	nārangī	नारंगी
orange juice (sweet lime) (M)	mausamī kā ras	मौसमी का रस
order, to (to give the order) (V.T.)	ārḍar denā	ऑर्डर देना
order, to take (to take the order) (V.T.)	ārḍar lenā	ऑर्डर लेना
outside (ADV)	bāhar	

outside x (PP)	x ke bāhar	बाहर x के बाहर
over here (ADV)	idhar	इधर
over there (ADV)	udhar	उधर
owner (M)	mālik	मालिक
P		
pain (M)	dard	दर्द
paisa (M)	paisā	पैसा
pants (F)	pañt	पैंट
paratha (M) (fried bread, unleaved wheat flour)	parāṭhā	पराँठा
parcel (M)	pārsal	पार्सल
parents (M, PL)	mātā-pitā	माता-पिता
park (M)	pārk	पार्क
park, to (V.T.)	gārī lagānā	गाड़ी लगाना
partner (M)	sāthī	साथी
passport (M)	pārpatra	पारपत्र
path (M)	rāstā	रास्ता
pay, to (V.T.)	bhugtān karnā	

pay the bill, to (V.T.)	<i>bil cukānā</i>	भुगतान करना बिल चुकाना
pea (F)	<i>maṭar</i>	मटर
pedal (M) (car/bike)	<i>paiḍal</i>	पैडल
perhaps (IND)	<i>sāyad</i>	शायद
permission, to give (V.T.)	<i>ijāzat denā</i>	इजाज़त देना
permit (M)	<i>parmiṭ</i>	परमिट
person (man) (M)	<i>ādmī</i>	आदमी
petrol (M)	<i>peṭrol; tel</i>	पेट्रोल; तेल
pharmacy (M)	<i>davākhānā</i>	दवाख़ाना
phone, to (V.T.)	<i>fon karnā</i>	फ़ोन करना
phone card (M)	<i>fon kārd</i>	फ़ोन कार्ड
photo (F)	<i>tasvīr;</i>	तस्वीर;
(M/F)	<i>foto</i>	फ़ोटो
pickle (M)	<i>acār</i>	अचार
pick up, to (V.T.)	<i>uṭhānā</i>	उठाना
piece (M)	<i>pīs</i>	पीस
piece (M)	<i>ṭukṛā</i>	टुकड़ा

pill (F)	goli	गोली
pink (ADJ)	gulābī	गुलाबी
place (M)	sthān;	स्थान;
(F)	jagah	जगह
play, to (V.I./V.T.)	khelnā	खेलना
pneumonia (M)	nimoniyā	निमोनिया
police (F)	pulis	पुलिस
police station (M)	thānā	थाना
polish, to (V.T.)	camkānā	चमकाना
pollution (M)	pradūṣaṇ	प्रदूषण
pool (M)	pūl	पूल
pond (M)	tālāb	तालाब
porter (M)	poṛṭar	पोर्टर
postcard (M)	poṣṭkārd	पोस्टकार्ड
post office (M)	ḍākkhānā	डाकखाना
potato (M)	ālū	आलू
prayer (for Hindus) (F)	prārthnā	प्रार्थना
prayer (for Christians) (F)	prārthnā	प्रार्थना

prayer (formal) (for Muslims) (F)	namāz	नमाज़
prayer (for Muslims) (F)	duā	दुआ
preferred (ADJ)	pasand	पसंद
pregnant (ADJ)	garbhvatī	गर्भवती
prescription (M)	nuskhā	नुस्खा
pressure (M)	preśar	पेशर
previous (ADJ)	pichlā	पिछला
previously (ADV)	pehle	पहले
price (M)	dām	दाम
printer (M)	prinṭar	प्रिंटर
profession (M)	peśā	पेशा
professional (ADJ)	peśevar	पेशेवर
properly (ADV)	ṭhīk se	ठीक से
provision (grocery) (M)	parcūn	परचून
public (ADJ)	sārvajanik	सार्वजनिक
pumpkin (M)	kaddū	कदू
pure (ADJ)	śudh	शुद्ध
puri (fried	pūrī	

bread) (F)		पूड़ी
purple (ADJ)	baiganī	बैगनी
purse (M)	baṭuā	बटुआ
put/pour, to (V.T.)	ḍālnā	डालना
pyjama (M) (type of pant)	paijāmā	पैजामा
Q		
qualified (ADJ)	dakṣ	दक्ष
quickly (ADV)	jaldī	जल्दी
R		
radiator (M) (car)	reḍiyetar	रेडियेटर
rain (F)	bāriś	बारिश
rain, to (V.I.)	bāriś honā	बारिश होना
raincoat (F)	barsātī	बरसाती
rainy season (M, PL)	barsāt ke din	बरसात के दिन
rape (M)	balātkār	बलात्कार
rasmalai (sweet dish, made of cream, milk and syrup) (F)	rasmalāī	रसमलाई
read/study, to (V.T.)	paṛhnā	पढ़ना
ready (ADJ)	taiyār	तैयार

real (ADJ)	asli	असली
receipt (F)	rasid	रसीद
red (ADJ)	lāl	लाल
reduce, to (V.T.)	kam karnā	कम करना
registered post (M)	registarḍ post	रेजिस्टर्ड पोस्ट
relate, to, (V.T.)	sunānā	सुनाना
religion (for Hinduism and others) (M)	dharm	धर्म
religion (for Islam) (M)	mazhab	मज़हब
religious (ADJ)	dhārmik	धार्मिक
religious site (M)	dhārmik sthal	धार्मिक स्थल
remain, to (stay, live) (V.I.)	rehnā	रहना
remember, x to (to be remembered to x) (V.I.)	x ko yād honā	x को याद होना
rent, to (to take on rent) (V.T.)	kirāye par lenā	किराये पर लेना
rental (M)	kirāyā	किराया
reservation, to make (have done) (V.T.)	ārakṣaṇ karānā	आरक्षण कराना
reserve, to (V.T.)	ārakṣaṇ karnā	

		आरक्षण करना
restaurant (M)	restṛ _{āṅ}	रेस्ट्रॉ
return, to (V.I.) (come back)	vāpas ānā	वापस आना
return, to (V.T.) (something)	vāpas karnā	वापस करना
return(ed) (ADJ)	vāpas	वापस
return ticket (M/F)	vāpasī ṭikaṭ	वापसी टिकट
rice (M)	cāval	चावल
rice pudding (F)	khīr	खीर
right now (ADV)	abhī	अभी
right side (ADV)	dāhinī taraf/or	दाहिनी तरफ़/ओर
road (path) (M)	mārg	मार्ग
robbery (F)	corī	चोरी
robbery, to happen (V.I.)	corī honā	चोरी होना
room (M)	kamrā	कमरा
roti (bread) (F)	roṭī	रोटी
rouse, to (V.T.)	uṭhānā	उठाना
rupee (M)	rupayā	रुपया
S		
sad (ADJ)	dukhī	

sadness (M)	dukh	दुखी दुख
safe (for valuables) (F)	tijorī	तिजोरी
safely (ADV)	sahī-salāmat	सही-सलामत
salary (M)	vetan	वेतन
salt (M)	namak	नमक
salty (ADJ)	namkīn	नमकीन
salwar (type of pant) (F)	salvār	सलवार
sambhar (M)	sābhar	साँभर
samosa (M)	samosā	समोसा
sandals (F)	cappal	चप्पल
sari (F)	sārī	साड़ी
Saturday (M)	śani(vār)/śaniścar	शनिवार/शनिश्चर
savory (ADJ)	namkīn	नमकीन
say, to (V.T.)	kehnā	कहना
scan, to (V.T.)	skain karnā	स्कैन करना
scanner (M)	skainar	स्कैनर
scarf (M)	dupaṭṭā	दुपट्टा

search, to (V.T.)	talās karnā	तलाश करना
season (M)	mausam	मौसम
seat (F)	sīt/ kursī	सीट/कुरसी
second (other) (ADJ)	dūsrā	दूसरा
second time (ADV)	dubārā	दुबारा
see/watch, to (V.T.)	dekhnā	देखना
seem, to (V.I.)	lagnā	लगना
seem right, to (V.I.)	ṭhīk lagnā	ठीक लगना
sell, to (V.T.)	becnā	बेचना
send, to (V.T.)	bhejnā	भेजना
senior (elder) (ADJ)	buzurg	बुज़ुर्ग
September (M)	sitambar	सितम्बर
serious (ADJ)	gabhīr	गंभीर
sex (male/female) (M)	ling (puruṣ/strī)	लिंग (पुरुष/स्त्री)
sharp (ADJ)	tivra	तीव्र
shave a beard, to (V.T.)	dārhi banānā	दाढ़ी बनाना
shave a moustache, to (V.T.)	mūchē kāṭnā	मूँछें काटना

shawl (M)	śāl	शॉल
sheet (bed) (F)	cādar	चादर
Shia (ADJ, M) (one of the two major sects of Islam)	śiyā	शिया
shiny (ADJ)	camkilā	चमकीला
shoe (M)	jūtā	जूता
shoe lace (M)	fitā	फ़ीता
shop, to (to do shopping) (V.T.)	śāpiṅg karnā	शॉपिंग करना
show (M)	śo	शो
show, to (V.T.)	dikhānā	दिखाना
shirt (F)	kamīz;	कमीज़;
(M)	kurtā	कुरता
sick (ADJ)	bīmār	बीमार
side (M)	kinārā;	किनारा;
(F)	taraf	तरफ़
sign (M)	niśān	निशान
sign, to (V.T.)	hastākṣar karnā	हस्ताक्षर करना
signature (M, PL)	hastākṣar	हस्ताक्षर

Sikh (ADJ, M)	sikkh	सिक्ख
Sikhism (M)	sikkh dharm	सिक्ख धर्म
silk (M)/silk (ADJ)	reśam/reśmī	रेशम/रेशमी
sim card (M)	sim kārd	सिम कार्ड
single (room) (ADJ)	singal	सिंगल
Sir (M)	(bhāi) sāhab	(भाई) साहब
sister (F)	behan	बहन
sit, to (V.I.)	baiṭhnā	बैठना
site (M) (place)	sthān	स्थान
skin (F)	khāl	खाल
sky (M)	āsmān	आसमान
sleep, to (V.I.)	sonā	सोना
slope (F)	ḍhalān	ढलान
slow (ADJ)	dhimā	धीमा
slowly (ADV)	dhire	धीरे
small (ADJ)	choṭā	छोटा
smile (F)	muskān	मुस्कान
smoking (M)	dhūmrapān	धूम्रपान

snack (M)	namkīn	नमकीन
snow (F)	barf	बर्फ
soap (M)	sābun	साबुन
socks (M, PL)	moze	मोज़े
soda (M)	soḍā	सोडा
sole (M)	talā	तला
some, something (PRON, ADJ)	kuch	कुछ
some more (ADJ)	kuch aur	कुछ और
somewhere (ADV)	kahī	कहीं
so much (ADJ)	itnā	इतना
son (M)	beṭā	बेटा
sorrow (M)	afsos	अफ़सोस
sour (ADJ)	khattā	खट्टा
south (M)	dakṣiṇ	दक्षिण
spam (M)	spaim	स्पैम
speak, to (V.I./V.T.)	bolnā	बोलना
speed (F)	gati	गति
speed, to (V.T.)	tez gati se gārī calānā	

		तेज़ गति से गाड़ी चलाना
spicy (ADJ)	tīkhā	तीखा
spinach (M)	pālak	पालक
spoon (M)	cammac	चम्मच
sports store (F)	khel-kūd ke sāmān kī dukān	खेल-कूद के सामान की दुकान
sprain, to come (V.I.)	moc ānā	मोच आना
stale (ADJ)	bāsī	बासी
stamp (M/F)	ṭikaṭ	टिकट
statement (M)	bayān	बयान
station (M)	ṣṭeśān	स्टेशन
statue (F)	mūrti	मूर्ति
stay, to (V.I.) (remain, live)	rahnā	रहना
stay, to (V.I.) (to tarry, stop)	ṭheharnā	ठहरना
stay away, to (V.I.)	dūr rehnā	दूर रहना
STD (M)	gupt rog	गुप्त रोग
steering wheel	cakkā	

(M)		चक्का
stomach (M)	peṭ	पेट
stool (F) (faeces)	ṭaṭṭī	टट्टी
stop/wait, to (V.I.)	rukṇā	रुकना
store (F)	dukān	दुकान
storm (F)	ādhī	आँधी
straight (ADJ)	sīdhā	सीधा
straight ahead (ADV)	sīdhe	सीधे
street (F)	sarāk	सड़क
strike, to (V.I.)	bajnā	बजना
stroll, to (V.I.)	ṭehalnā	टहलना
stuck, to become (V.I.)	phāsnā	फँसना
student (M)	chātra	छात्र
student (F)	chātrā	छात्रा
study/read, to (V.T.)	paṛhnā	पढ़ना
suit (M)	sūṭ	सूट
summer (M, PL)	garmī ke din	गर्मी के दिन
Sunday (M)	ravi(vār)/itvār	

		रविवार/इतवार
sunlight (F)	dhūp	धूप
Sunni (ADJ, M) (one of the two major sects of Islam)	sunnī	सुन्नी
supermarket (M)	suparmārket	सुपरमार्केट
swallow, to (V.T.)	nigalnā	निगलना
sweater (M)	sveṭar	स्वेटर
sweet (taste) (ADJ)	mīṭhā	मीठा
sweet shop (F)	mīṭhāī kī dukān	मिठाई की दुकान
swim, to (V.I./V.T.)	tairnā	तैरना
switch off, to (V.T.)	band karnā	बंद करना
synthetic (ADJ)	banāvāṭī	बनावटी
T		
table (F)	mez	मेज़
tablet (F)	golī	गोली
tailor (M)	darzī	दर्ज़ी
take, to (V.T.)	lenā	लेना
take a photo, to (V.T.)	foṭo/tasvīr khīcnā	फ़ोटो खींचना
take off, to (V.T.)	utārnā	

talk, to (V.T.) (to x)	(x se) bāt karnā	उतारना (x से) बात करना
tasty (delicious) (ADJ)	lazīz/svādiṣṭ	लज़ीज़/स्वादि
tax (M)	śulk	शुल्क
taxi (F)	ṭaiksī	टैक्सी
tea (F)	cāi	चाय
teacher (M/F)	ṭīcar	टीचर
tell, to (V.T.)	batānā	बताना
temperature (M)	tāpmān	तापमान
temple (M)	mandir	मंदिर
testing (F) (examination)	jāc	जाँच
Thank you (M)	śukriyā	शुक्रिया
that (PRON)	voh	वह
there (ADV)	vahā	वहाँ
these (PRON)	ye	ये
these days (ADV)	ājkal	आजकल
thief (M)	cor	चोर
thing (F)	bāt	बात

thing (F) (material object)	cīz	चीज़
think, to (v.t.)	socnā	सोचना
thirst (F)	pyās	प्यास
thirsty to feel (to x) (V.I.)	(x ko) pyās lagnā	(x को) प्यास लगाना
this (PRON)	yeh	यह
thither (ADV)	udhar	उधर
those (PRON)	vo	वे
thousand (M)	hazār	हज़ार
Thursday (M)	guru(vār)/bṛhaspativār	गुरु(वार)/बृहस्पतिवार
ticket (M/F)	ṭikaṭ	टिकट
time (M)	samay/ṭāim	समय/टाइम
timetable (F)	samay sārṇī	समय सारणी
tip (F)	bakhśīs	बख़्शीश
tire, tyre (M)	pahiyā	पहिया
tobacconist (F)	pān kī dukān	पान की दुकान
today (ADV)	āj	आज
toilet (M)	śaucālay/ṭāyleṭ	शौचालय/टॉयलेट
toilet paper (M)	ṭāyleṭ pepar	टॉयलेट पेपर

tomorrow (M)	kal	कल
tonight (F)	āj rāt	आज रात
top (ADV) (above)	ūpar	ऊपर
touch, to (V.T.)	chūnā	छूना
tour (M)	ṭūr	टूर
tourist (M)	paryāṭak	पर्यटक
tourist quota (M)	ṭūrist koṭā	टूरिस्ट कोटा
town (M)	nagar	नगर
traffic light (F)	battī	बत्ती
train (F)	ṭren/relgārī/gārī	ट्रेन/रेलगाड़ी/गाड़ी
training (M)	praśikṣaṇ	प्रशिक्षण
transfer (M)	sthānāntaraṇ	स्थानांतरण
trapped, to become (V.I.)	phāsnā	फँसना
travel/wander, to (V.I.)	ghūmnā	घूमना
travel, to (V.T.)	yātrā karnā	यात्रा करना
traveler (M)	yātrī	यात्री
trip (F)	yātrā	यात्रा
trunk (F) (car)	ḍikkī	

t-shirt (F)	<i>tī śarṭ</i>	डिक्की टी शर्ट
Tuesday (M)	<i>maṅgal(vār)</i>	मंगल(वार)
turn, to (V.I.)	<i>muṛnā</i>	मुड़ना
twenty-four hours (ADV)	<i>caubīs ghaṅṭe</i>	चौबीस घंटे
Twitter (M)	<i>tvīṭar</i>	ट्विटर
two-way (ADJ)	<i>do-tarafā</i>	दो-तरफ़ा
U		
ulcer (M)	<i>alsar</i>	अलसर
understand, to (V.T.)	<i>samajhnā</i>	समझना
unemployed (ADJ)	<i>berozgār</i>	बेरोज़गार
unleaded (petrol) (ADJ)	<i>anleḍeḍ</i>	अनलेडेड
unmarried (ADJ)	<i>avivāhit</i>	अविवाहित
until, up to (PP)	<i>tak</i>	तक
urinate, to (V.T.)	<i>peśāb karnā</i>	पेशाब करना
use (x), to (V.T.)	<i>(x kā) istemāl karnā</i>	(x का) इस्तेमाल करना
V		
vacate, to (V.T.)	<i>khālī karnā</i>	

		ख़ाली करना
valuable (ADJ)	beśqīmtī	बेशक़ीमती
vegetable (dish) (F)	sabzī	सब्ज़ी
vegetarian (ADJ)	śākāhārī	शाकाहारी
very (ADJ, ADV)	bahut	बहुत
via (ADV)	x se ho kar	x से होकर
vigilance (F)	sāvadhānī	सावधानी
virus (M)	vāiras	वाइरस
visible, to be (V.I.)	dīkhāī denā	दिखाई देना
vomit, to (V.I.)	ulṭī honā	उल्टी होना
W		
wait/stop, to (V.I.)	rukṇā	रुकना
wait, to (for x) (V.T.)	x kā intazār karnā	x का इंतज़ार करना
wallet (M)	baṭuā	बटुआ
want to, to (V.T.)	cāhnā	चाहना
want/need (an object) (V.I.)	cāhiye	चाहिये
wash, to (V.T.)	dhonā	धोना
water (M)	pānī	

		पानी
way (M) (path)	rāstā	रास्ता
wear, to (V.T.)	pehannā	पहनना
weather (M)	mausam	मौसम
web browser (M)	web brāuzar	वेब ब्राउज़र
wedding (F)	śādī	शादी
Wednesday (M)	budh(vār)	बुध(वार)
week (M)	haftā	हफ़ता
Well done! (IND)	śābās!	शाबाश!
west (M)	paścim	पश्चिम
western (ADJ)	paścimī	पश्चिमी
what (PRON)	kyā	क्या
when (ADV)	kab	कब
where (ADV)	kahā	कहाँ
which (ADJ)	kaun-sā	कौन-सा
whiskey (F)	whiskī	ह्विस्की
white (ADJ)	safed	सफ़ेद
who (PRON)	kaun	कौन
why (ADV)	kyō	क्यों
widow (F)	vidhvā	

		विधवा
widower (M)	vidhur	विधुर
wife (F)	patnī	पत्नी
wind (F)	havā	हवा
window (F)	khirkī	खिड़की
windshield (glass) (M)	śīśā	शीशा
winter (M, PL)	ṭhaṇḍ ke din	ठंड के दिन
with (through) (PP)	se	से
with (PP)	x ke sāth	x के साथ
witness (M)	gavāh	गवाह
woman (F)	aurat	औरत
wood (F)/wooden (ADJ)	lakṛī/lakṛī kā	लकड़ी/लकड़ी का
wool (M)/woollen (ADJ)	ūn/ūnī	ऊन/ऊनी
work, to (do) (V.T.)	kām karnā	काम करना
worried (ADJ)	fikramand	फिक्रमंद
worth (ADJ)	lāyaq	लायक
wrap, to (V.T.)	lapetnā	लपेटना

write, to (V.T.)	likhnā	लिखना
wrong (ADJ)	ghalat	ग़लत
Y		
year (M)	sāl	साल
yellow (ADJ)	pīlā	पीला
yes (ADV)	jī hā	जी हाँ
yesterday (M)	kal	कल
yoghurt (M)	dahī	दही
young/small (ADJ)	choṭā	छोटा
you (PRON, POLITE)	āp	आप
you (PRON, INFORMAL)	tum	तुम
Z		
zero (ADJ, M)	śūnya	शून्य